



भारत का राजपत्र The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 9]

नई दिल्ली, शनिवार, फरवरी 28—मार्च 6, 2009 (फाल्गुन 9, 1930)

No. 9]

NEW DELHI, SATURDAY, FEBRUARY 28—MARCH 6, 2009 (PHALGUNA 9, 1930)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग I—खण्ड 4

[PART I—SECTION 4]

[रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों व छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं]

[Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministry of Defence]

रक्षा मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 28 फरवरी 2009

प्रशासनिक अधिकरण, प्रधान पीठ, नई दिल्ली के 11 जनवरी 2007 के आदेश की शर्त के अधधीन होगी।

सं. 108, दिनांक 09 फरवरी 2009—राष्ट्रपति, वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग के केन्द्रीय सचिवालय सेवा के अनुभाग अधिकारी श्री परमजीत सिंह वालिया को, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 16 जनवरी, 2008 के आदेश संख्या 5/20/2007—सीएस-1 (डेस्क) की शर्तों के अन्तर्गत, 30 दिसम्बर, 2008 (पूर्वाह्न) से अगले आदेश जारी होने तक रक्षा मंत्रालय में तदर्थ आधार पर केन्द्रीय सचिवालय सेवा के ग्रेड 1 (अवर सचिव) में नियुक्त करते हैं।

2. उपर्युक्त अधिकारी की अवर सचिव (तदर्थ) के रूप में नियुक्ति निम्नलिखित शर्तों के अधधीन है:—

- तदर्थ पदोन्नति से ग्रेड में अनिश्चित समय तक बने रहने या नियमित नियुक्ति की चयन सूची में शामिल करने या केन्द्रीय सचिवालय सेवा के चयन ग्रेड-1 (अवर सचिव) में वरिष्ठता का दावा करने का कोई अधिकार नहीं होगा।
- तदर्थ नियुक्ति को बिना कोई कारण बताए किसी भी समय समाप्त किया जा सकता है।
- इसके अलावा उपर्युक्त नियुक्ति एम ए संख्या 2170/2006, ओ ए संख्या 2793/2005, एम ए संख्या 2710/2005 में केन्द्रीय

राष्ट्रपति, रक्षा मंत्रालय में उप निदेशक (राजभाषा) (तदर्थ) श्री सोहन लाल जुगरान की नियुक्ति को राजभाषा विभाग के दिनांक 05 दिसम्बर, 2008 के कार्यालय आदेश संख्या 5/8/2006—राजभाषा (सेवा) के संदर्भ में 19 अप्रैल, 2008 से 18 अक्टूबर, 2009 तक इसी मंत्रालय में तदर्थ आधार पर उप निदेशक (राजभाषा) के पद पर आगे बढ़ाते हैं।

2. उपर्युक्त अधिकारी की उप निदेशक (राजभाषा) के रूप में नियुक्ति निम्नलिखित शर्तों के अधधीन है:—

- तदर्थ पदोन्नति से ग्रेड में अनिश्चित समय तक बने रहने या नियमित नियुक्ति की चयन सूची में शामिल करने या राजभाषा विभाग संवर्ग के उप निदेशक (राजभाषा) ग्रेड में वरिष्ठता का दावा करने का कोई अधिकार नहीं होगा।

राष्ट्रपति, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य विभाग (पूर्ति प्रभाग) में वरिष्ठ हिन्दी अनुवादक श्री सत्येन्द्र सिंह रावत को वेतन बैंड 3 में 9,300—34,800/- रुपए + 5400/- रु. (ग्रेड वेतन) के वेतनमान में 15 दिसम्बर 2008 (पूर्वाह्न) से नौ महीने की अवधि के लिए अथवा नियमित अधिकारी उपलब्ध होने तक, इनमें से जो भी पहले हो, तदर्थ आधार पर रक्षा मंत्रालय में सहायक निदेशक (राजभाषा) के पद पर नियुक्त करते हैं। यह

नियुक्ति पूरी तरह से तदर्थ आधार पर है और इससे सहायक निदेशक (राजभाषा) के ग्रेड में वरिष्ठता आदि का दावा करने का कोई अधिकार नहीं है।

राष्ट्रपति, आन्ध्र प्रदेश सरकार के दौलतस्वरम् में गोदावरी हेड वर्क्स डिवीजन में कार्यकारी अभियन्ता के कार्यालय में कनिष्ठ सहायक श्री बी गंगाधर को, 9,300-34,800/- रुपए - वेतन बैंड-2 में 4,200/- रुपए (ग्रेड वेतन) में 17 दिसम्बर 2008 (पूर्वाह) से रक्षा राज्य मंत्री (श्री एम एम पल्लम राजू) के सहायक निजी सचिव के पद पर, मंत्री के कार्यालय में बने रहने तक अथवा अगले आदेश होने तक, इसमें से जो भी पहले हो, की अवधि के लिए नियुक्त करते हैं।

राष्ट्रपति, केन्द्रीय सचिवालय सेवा की रक्षा मंत्रालय की सहायक सुश्री धनवंती सहगल को 07 अक्टूबर, 2008 (पूर्वाह) से 31 दिसम्बर 2008 तक की अवधि के लिए अथवा अगले आदेश होने तक, इनमें से जो भी पहले हो, वेतन बैंड-29,300-34,800+4,800/-रुपए (ग्रेड वेतन) में इसी मंत्रालय में तदर्थ आधार पर अनुभाग अधिकारी के पद पर नियुक्त करते हैं।

2. उपर्युक्त नियुक्ति निम्नलिखित शर्तों के अध्वधीन होगी:-

- (i) तदर्थ पदोन्नति से उन्हें ग्रेड में अनिश्चित समय तक बने रहने या नियमित नियुक्ति की चयन सूची में शामिल करने या केन्द्रीय सचिवालय सेवा के चयन ग्रेड (अनुभाग अधिकारी) में वरिष्ठता का दावा करने का कोई अधिकार नहीं होगा।
- (ii) केन्द्रीय सचिवालय सेवा नियमों में निर्धारित की गई भर्ती की सामान्य प्रक्रिया के माध्यम से नियमित अनुभाग अधिकारी के उपलब्ध होने पर उन्हें सहायक के ग्रेड में प्रत्यावर्तित कर दिया जाएगा।

राष्ट्रपति, पशुपालन, डेरी-उद्योग और मछली-पालन विभाग, कृषि मंत्रालय के संवर्ग के ग्रेड 'ग' आशुलिपिक और उसी मंत्रालय में तदर्थ आधार पर स्थानापन्न निजी सचिव श्री ईश्वर सिंह का नाम वर्ष 2005 की केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के आशुलिपिक ग्रेड 'क' और 'ख' (विलयित) (निजी सचिव) की चयन सूची (वरिष्ठता कोट) में शामिल होने के परिणामस्वरूप उन्हें 01 जनवरी 2009 के पूर्वाह से रक्षा मंत्रालय में केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के आशुलिपिक ग्रेड 'क' और 'ख' (विलयित) के पद पर नियुक्त करते हैं।

के मुरली
अवर सचिव

थल सेना विभाग/एमजीओ/ईएमई कार्मिक

सं. 109, दिनांक 09 फरवरी 2009 -

नाथब सूबेदार (धर्म शिक्षक) के रैंक में

नाम, पदोन्नति की तारीख

जशवीर सिंह (जेसी-760886वाई), 06 नवम्बर 2006

लखविन्दर सिंह (जेसी-761089ए), 07 अप्रैल 2007

नन्द किशोर कश्मीरा
अवर सचिव

वायु सेना मुख्यालय

सं. 110, दिनांक 09 फरवरी 2009--राष्ट्रपति, सहर्ष निम्नलिखित संयुक्त निदेशकों को सशस्त्र सेना मुख्यालय सिविल सेवा नियमावली 2001 के

नियम 7(8) के अधीन स्थानापन्न निदेशक (ग्रुप 'क' राजपत्रित) वेतनमान रुपये 14,300-18,300 (पूर्व संशोधित) के पद पर उनके नाम के आगे अंकित अवधि के लिए अथवा नियमित पदधारी उपलब्ध होने तक, जो भी पहले हो, नियुक्त करते हैं:-

नाम (श्री/श्रीमति), पदोन्नति की तिथि (कब से/कब तक)

ऊमा भट्टाचार्या, 03 अप्रैल 2008/03 अप्रैल 2009

वी षण्मुगम, 19 अगस्त 2008/18 फरवरी 2009

एस के सिंह, 08 अक्टूबर 2008/03 अप्रैल 2009

2. उपरोक्त अधिकारियों की यह नियुक्तियां निम्नलिखित शर्तों के अध्वधीन हैं:-

- (क) यह नियुक्तियां पूर्णतः कामचलाऊ आधार पर हैं तथा प्रशासनिक कारणों से अथवा नियमित पदधारी उपलब्ध होने पर बिना सूचना दिए समाप्त की जा सकती हैं।
- (ख) उपरोक्त पद पर नियमित आधार पर नियुक्ति के लिए न तो उनका कोई दावा होगा और न ही नियम 7(8) के अधीन स्थानापन्न निदेशक के रूप में की गई उनकी सेवा को उक्त ग्रेड में वरिष्ठता के लिए माना जाएगा।

शंकर सिंह
निदेशक (एस)

रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन

सं 111, दिनांक 09 फरवरी 2009--राष्ट्रपति, महोदय निम्नलिखित व्यक्तियों को उनके नाम के आगे दर्शाई गई तारीख से 10,000-325-15,200/- रुपये के वेतनमान में एक वर्ष की परीक्षा अवधि पर रक्षा अनुसंधान तथा विकास सेवा में अस्थायी वैज्ञानिक 'सी' (ग्रुप 'ए') के पद पर सहर्ष नियुक्त करते हैं (पूर्व-परिशोधित):-

नाम, स्थापना/प्रयोगशाला, नियुक्ति की तिथि

श्री पी रामालिंगम, एडीई, बेंगलूर, 10 दिसम्बर 2001

श्री ए सुरेश, डीआईपीआर, दिल्ली, 08 अप्रैल 2008

डॉ. रश्मि रेखा देवी, डीएमएसआरडी, कानपुर, 01 मई 2008

सुश्री अंशु गौतम, डीआरडीई, ग्वालियर, 16 जून 2008

डा. रिचा, आईएएम, बेंगलूर, 24 दिसम्बर 2007

सुश्री गौर सविता ज्वाला प्रसाद, आईएएम, बेंगलूर, 22 अगस्त 2008

श्री धनवंत्री रवि राजा ए, एमएससी, पुणे, 15 मार्च 2005

सुश्री एस जयामुधा, स्पीक, दिल्ली, 21 जनवरी 2008

डॉ. एम सुधांशु शेखर, एसएसई, चंडीगढ़, 10 अगस्त 2006

डी आर डी एस नियम 1979 के उप नियम 8(क) के निबन्धनों के अनुसार हुई विभागीय परीक्षा 2003 में उत्तीर्ण होने पर निम्नलिखित व्यक्तियों को उनके नाम के आगे दर्शाई गई तारीख से रक्षा अनुसंधान तथा विकास

सेवा में दो वर्ष की परखावधि पर वैज्ञानिक 'बी' (ग्रुप 'ए') के रूप में
वेतनमान रुपये 8,000-275-13,500/- पर (पूर्व-परिशोधित) :--

नाम, स्थापना/प्रयोगशाला, नियुक्ति की तिथि

श्री मनोज कुमार, एडीई, बेंगलूर, 01 अप्रैल 2008

श्री हरसहाय मीना, डीएआरएल, पिथौरागढ़, 28 फरवरी 2008

सुश्री साक्षी बंसल, डीबेल, बेंगलूर, 28 मई 2008

सुश्री परमेश्वरी बी, डीएफआरएल, मैसूर, 10 अप्रैल 2008

श्री सोमेन आचार्य, डीआईएचएआर, लेह, 06 अगस्त 2008

श्री आनंद कुमार कतिथार, डीआईएचएआर, लेह, 08 जनवरी 2008

श्री कौशिक हलदार, दीपास, दिल्ली, 30 जनवरी 2008

श्री तीर्थकर चटर्जी, दीपास, दिल्ली, 18 फरवरी 2008

सुश्री ज्योति शर्मा, डीएल, जोधपुर, 18 जुलाई 2008

श्री चंदन कुमार, डीएमआरएल, हैदराबाद, 02 नवम्बर 2006

श्री रौत अमितकुमार मंगलदास, डीएमएसआरडी, कानपुर, 28 अप्रैल
2008

श्री दीपांकर सिंह, डीएमएसआरडी, कानपुर, 16 जून 2008

श्री उत्तम साहा, डीएमएसआरडी, कानपुर, 10 मार्च 2008

श्री संदीप कुमार, डीएमएसआरडी, कानपुर, 28 अगस्त 2006

श्री एम सिलमबारशन, इनमास, दिल्ली, 27 मार्च 2008

श्री श्रवण कुमार सिंह, इनमास, दिल्ली, 19 फरवरी 2008

श्री अमित आलोक, इनमास, दिल्ली, 30 जनवरी 2008

श्री ललित मोहन गुप्ता, ईसा, दिल्ली, 23 मई 2007

श्री आनंद कुमार, एनएसटीएल, विशाखापत्तनम, 22 सितम्बर 2005

श्री चंद्रा भूषण कुमार, आरसीआई, हैदराबाद, 28 अगस्त 2003

सुश्री अंकाक्षा रानी, एससीसी, भोपाल, 10 अगस्त 2006

श्री मनीष बदवानी, एसएफसी, जगदलपुर, 02 नवम्बर 2006

श्री खान वासीउद्दीन सलाउद्दीन, वीआरडीई, अहमदनगर, 31 मार्च
2008

श्री जी अलऊ नसन पॉल, वीआरडीई, अहमदनगर, 06 फरवरी 2008

श्री कामरान हाशमी, वीआरडीई, अहमदनगर, 31 मार्च 2008

श्री सुरेश कुमार शर्मा, डब्ल्यूईएसईई, दिल्ली, 23 मई 2007

टी अब्दुल्लाज्जाक
संयुक्त निदेशक (कार्मिक)

वायु शाखा

सं. 112, दिनांक 10 फरवरी 2009--माननीय राष्ट्रपति महोदय, नीचे
उल्लिखित अफसरों को प्रदान किए गए औपवैधिक अल्पसेवा कमीशन को
समाप्त करते हैं तथा फ्लाईंग अफसर के रैंक में उन्हें अल्पसेवा कमीशन
(परिवीक्षा पर) प्रदान करते हैं, जो भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय के पत्र

सं. वा से मु/24745/4/पी पी (ओ)/पी सी-1/184/डी एस/डी (एयर-III)
दिनांक 23 अप्रैल 2001 के उपबंधों के तहत उनके नामों के आगे लिखी
तारीखों से प्रभावी होगा।

भारतीय वायु सेना

वैमानिक इंजीनियरी (यांत्रिक)

फ्लाईंग/अफसर एन कार्तिक बाबू (29396), संगीता पात्रा (29398),
28 दिसम्बर 2007 से प्रभावी।

वैमानिक इंजीनियरी (इलेक्ट्रॉनिक)

फ्लाईंग अफसर मानवी बाली (29166), बिपिनचन्द्र प्रवीणलाल पटेल
(29397), विधु सिंह (29399), अंकुर पाटियल (29400), मोनिका
लक्षकर (29401), नेहा चौहान (29402), संध्या त्रिपाठी (29403),
शैफाली गुप्ता (29404), शिल्पा पुरी (29405), पीयूष शर्मा (29406),
गौरिका सुहग (29407), नेहा गळनिया (29408), स्निग्धा रॉय (29409),
मनीषा पाठक (29410)--28 दिसम्बर 2007 से प्रभावी।

पूर्व फ्लाईट कैडेट से फ्ला. अफसर के रैंक पर

प्रशासन शाखा

फ्लाईंग अफसर मेघा पुनिया (29302), पूवकूचिल सिजा उन्नीकृष्णन
(29303), यूवेना फर्नांडिस (29304), तेन्नेति अर्पणा (29305), प्रेरणा
बाबूराव देसाई (29306), शलेहा मेमन (29307), अनुराधा दहिया
(29308), मुनमुन हजारी (29309), रश्मि सिंह (29310), प्रिया सचान
(29311), पूजा कश्यप (29312), प्रीधि (29313)--15 दिसम्बर 2006
से प्रभावी।

संभारिकी शाखा

फ्लाईंग अफसर हरिका बंदारू (29314), कल्पना मिश्रा (29315),
साधना (29316), योगिता रैना (29317), प्रवीण आर्या (29318), सुप्रिया
चतुर्वेदी (29319)--15 दिसम्बर 2006 से प्रभावी।

लेखा शाखा

फ्लाईंग अफसर शुभा शर्मा (29320), परवीन कौर (29321), दीप्ति
सिंह (29322)--15 दिसम्बर 2006 से प्रभावी।

शिक्षा शाखा

फ्लाईंग अफसर अमनदीप कौर (29323), नफीस फातिमा (29324),
अमित चौहान (29326)--15 दिसम्बर 2006 से प्रभावी।

लेखा शाखा

फ्लाईंग अफसर श्रुति यादव (29325), 15 दिसम्बर 2006 से प्रभावी।

वैमानिक इंजीनियरी (यांत्रिक)

फ्लाईंग अफसर एन कार्तिक (29396), संगीता पात्रा (29398)--
02 जन 2007 से प्रभावी।

वैमानिक इंजीनियरी (इलेक्ट्रॉनिक)

फ्लाईंग अफसर विधु सिंह (29399), अंकुर पाटियल (29400),
मोनिका लक्षकर (29401), नेहा चौहान (29402), संध्या त्रिपाठी

(29403), शैफाली गुप्ता (29404), शिल्पा पुरी (29405), पीयूष शर्मा (29406), गौरिका सुहग (29407), नेहा गटानिया (29408), स्निग्धा रॉय (29409), मनीषा पाठक (29410)---02 जन 2007 से प्रभावी।

बिपिन चन्द्र प्रवीणलाल पटेल (29397), 03 जन 2007 से प्रभावी।

पूर्व फ्लाईट कैंडेट से फ्लाईंग अफसर के रैंक पर

प्रशासन शाखा

फ्लाईंग अफसर जय प्रकाश (29292), मनीष कुमार शुक्ला (29293), 15 दिसम्बर 2006 से प्रभावी।

संभारिकी शाखा

फ्लाईंग अफसर पण्डाराकलाथिल श्रीधरन प्रदीप (29294), अश्विनी त्यागी (29295), गणेश गुलाब येवले (29296), यशु भारद्वाज (29298)---15 दिसम्बर 2006 से प्रभावी।

लेखा शाखा

फ्लाईंग अफसर दीपेन्द्र गुप्ता (29299), 15 दिसम्बर 2006 से प्रभावी।

शिक्षा शाखा

फ्लाईंग अफसर पी मुकेश्वर (29300), अनिर्वाण मुखोपाध्याय (29301)---15 दिसम्बर 2006 से प्रभावी।

राष्ट्रपति महोदय, नीचे उल्लिखित अफसरों को फ्लाईंग अफसर के रैंक में औपबन्धिक अल्पसेवा कमीशन एवं विंग प्रदान करते हैं, जो भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय के पत्र सं. वा से मु/एस 24745/4/पीपी(ओ)/पीसी-1/184/डीएस/डी (एयर-III) दिनांक 23 अप्रैल 01 के उपबंधों के तहत उनके नामों के आगे लिखी तारीखों से प्रभावी होगा। ये अफसर औपबन्धिक अल्पसेवा कमीशन एवं विंग प्रदान किए जाने की तारीख अर्थात् 15 दिसम्बर 2006 से उड़ान वेतन के लिए हकदार होंगे।

उड़ान (पायलट) शाखा

पूर्व फ्लाईट कैंडेट से फ्लाईंग अफसर के रैंक पर

फ्लाईंग अफसर दीपिका मिश्रा (29283), मोना जाखड़ (29284), नेहा जयसवाल (29285), इला अनूप (29287), स्वप्ना बाल्यान (29288), एकता गांधी (29289), निशा रघुवंशी (29290), अलका शुक्ला (29291) 15 दिसम्बर 2006 से प्रभावी।

फ्लाईंग ऑफिसर देबोलिना दास (29286), 15 दिसम्बर 2006 से प्रभावी।

राष्ट्रपति महोदय, नीचे उल्लिखित फ्लाईट कैंडेटों को वासेआ 59/98 के उपबंधों के तहत फ्ला. अफ. के रैंक में स्थाई कमीशन एवं ब्रेविट (परिवीक्षा पर) प्रदान करते हैं। ये अफसर स्थाई कमीशन एवं ब्रेविट (परिवीक्षा पर) प्रदान किए जाने की तारीख अर्थात् 15 दिसम्बर 2006 से उड़ान वेतन प्राप्त करने के हकदार होंगे।

उड़ान (नौसंचालक) शाखा

पूर्व फ्लाईट कैंडेट से फ्लाईंग अफसर के रैंक पर

फ्लाईंग अफसर मेघश्याम बी वालुंज (29177), अवि आर्य (29233), इफितखार अनवर (29246) 15 दिसम्बर 2006 से प्रभावी।

उड़ान (पायलट) शाखा

भूतपूर्व फ्लाईट कैंडेट्स से फ्लाईंग अफसर के रैंक में

फ्लाईंग अफसर रणवीर सिंह देहाल, (29187) 15 दिसम्बर 2006 से प्रभावी।

फ्लाईंग अफसर अजीत पाल सिंह सैनी (29174), के वरूण प्रकाश (29175), नवीन कज्जा (29176), राहुल बसोया (29178), सुशांत जसरोटिया (29179), संग्राम सिंह (29180), पी नंदागोपन (29181), गुरप्रीत सिंह वासन (29182), मनोरथ सिंह सभरवाल (29183), शिवकुमार एन पोहरे (29184), घोरमडे चारुदत्त सुरेश (29185), विवेक हरीशचन्द्र रेड्डी (29186), करनी सिंह राठौर (29188), एस कृष्णप्रसाद (29189), राकेश परीजा (29190), जीतू यादव (29191), नितिन उपाध्याय (29192), प्रांशु शर्मा (29193), संदीप सिंह (29194), रवीन्द्रन माया गोपी कृष्णन नायर (29195), प्रवीण विश्नोई (29196), मनीष व्यास (29197), कुणाल (29198), परीजात अगाशे (29199), मुनीत डोगरा (29200), ए अजय कुमार (29201), पन्नीकोटे विकास मेनन (29202), अंकित पारीक (29203), मोमिन मोहम्मद हफीजुल्ला (29204), आनन्द शर्मा (29205), सचिन मेहता (29206), अभिनव सिंह (29207), प्रशांत सिंघल (29208), विनय कुमार शर्मा (29209), वरूण कुमार (29210), समीर डगर (29211), धीरज कुमार शर्मा (29212) 15 दिसम्बर 2006 से प्रभावी।

माननीय राष्ट्रपति महोदय नीचे उल्लिखित अफसरों को फ्लाईंग अफसर के रैंक में अल्पसेवा कमीशन (परिवीक्षा पर) प्रदान करते हैं, जो वा से आ 59/98 के उपबंधों के तहत उनके नामों के आगे लिखी तारीखों से प्रभावी होगा। ये अफसर स्थाई कमीशन एवं विंग (परिवीक्षा पर) प्रदान किए जाने की तारीख अर्थात् क्रमशः 15 दिसम्बर 2006 एवं 30 दिसम्बर 2006 से उड़ान वेतन पाने के हकदार होंगे।

उड़ान (पायलट) शाखा

फ्लाईंग अफसर मनोज कुमार गौतम (29213), सुमित कुमार दाश (29214), मनीष दास (29215), आकाश यादव (29216), अभिनव शर्मा (29217), अनुराग पाण्डे (29218), कुमार विकास (29219), रविकांत शर्मा (29220), विभव चतुर्वेदी (29221), कौशिक मिश्रा (29222), सत्यजीत गोरख लिमकर (29223), सेतुरमन सैथिल कुमार (29224), अंशुल डोगरा (29225), राहुल पूनिया (29226), मनु राजगोपाल (29227), असिश गंगाधरन संथम्मा (29228), मिलिन्द लोण्डे (29229), कौसतुभ शर्मा (29230), रवीश कुमार (29231), सिद्धार्थ पाण्डे (29232), रजत कसाना (29234), आकाश गोडबोले (29235), नितिन चौधरी (29236), समीर अल्ले (29237), विवेक जोशी (29238), कार्तिकेय सिंह (29239), प्रतीक जे भटनागर (29240), मनीष सिंह (29241), प्रवीण विरूपक्सप्पा बसेती (29242), प्रदीप एच हरीहरन

(29243), रूस्तम जे ईरानी (29244), अंकित त्रिवेदी (29245), अमित वर्मा (29248), दिव्यांश जैन (29249), शिशिर कुमार पाण्डे (29250), मनोज राणा (29251), अभिलाष पी आर (29252), 15 दिसम्बर 2006 से प्रभावी। साम्य रतन गांगुली (29253) 30 दिसम्बर 2006 से प्रभावी।

राष्ट्रपति सहर्ष निम्नलिखित ऑफिसर (फ्लाईट कैडेट्स) को उनके नाम के सामने दी गई तिथि से वायु सेना अनुदेश 20/76 के उपबंधों के तहत स्थायी कमीशन (परखाधीन) प्रदान करते हैं।

भारतीय वायु सेना

ए ई एल शाखा

फ्लाईंग ऑफिसर मानाजीत सिंह 28 दिसम्बर 2007 से प्रभावी।

माननीय राष्ट्रपति महोदय नीचे उल्लिखित अफसरों को प्रदान किए गए अल्प सेवा कमीशन (परिवीक्षा पर) को समाप्त करते हैं तथा फ्ला. अफ. रैंक में उन्हें स्थाई कमीशन (परिवीक्षा पर) प्रदान करते हैं, जो शुद्धिपत्र 10/84 के ज़रिए वा से आ 59/98 तथा वा से अनु 2/73 क/क के उपबंधों के तहत उनके नामों के आगे लिखी तारीखों से प्रभावी होगा।

भारतीय वायु सेना

वैमानिक इंजीनियरी (इलैक्ट्रॉनिक) शाखा

अंकुर अहलावत (29151), नितिनचन्द्र मधुसूदन कामथ (29351), अश्वनी जैन (29352), राजेश मुखी (29353), आशिष आनंद (29354), विनीत शर्मा (29355), प्रणीत कुमार तनुगुला (29356), अनुराग सिंह सच्चान (29357), अनमोल रतन (29358), अविनाश कुमार (29359), गौरव राय (29360), अमित कुमार श्रीवास्तव (29361), अमित कुमार खुल्लर (29362), गौतम कुमार यादव (29363), अभिवेक दीक्षित (29364), नवीन कुमार शर्मा (29365), अमित कुमार प्रसाद (29367), सचिन तिवारी (29368), विवेक सिंह (29369), चेतन सोनी (29370), ब्रिज लाल (29371), वरूण गौरव (29372), संजय कौशिक (29373), किशोर यादव (29374), अजितेश कुमार (29375), विकास डगर (29376), पवन कुमार वर्मा (29377), नवनीत रैना (29378), धीरज दत्ता (29379), विजित सिंह चौहान (29380), वैकीटेश चन्द्रन आर (29381), वी सैथिल (29382), विनीश वी नायर (29383), पुनीत सिंघल (29384), केशव शर्मा (29385), पंकज भाटी (29386), गुरविन्दर सिंह रंधावा (29387), सत्यप्रिय राठौर (29388), योगेन्द्र छेत्री (29389), अशोक रावत (29390), करण चूंगु (29391), कोणार्क प्रताप सिंह (29392), भवानी सिंह (29393), सुनील शर्मा (29394), प्रवीण भोरिया (29395) 28 दिसम्बर 2007 से प्रभावी।

माननीय राष्ट्रपति महोदय नीचे उल्लिखित अफसरों को प्रदान किए गए अल्प सेवा कमीशन (परिवीक्षा पर) को समाप्त करते हैं तथा फ्ला. अफ. के रैंक में उन्हें स्थाई कमीशन (परिवीक्षा पर) प्रदान करते हैं, जो शुद्धिपत्र 10/84 के ज़रिए वा से आ 59/98 तथा वा से अनु 2/73 क/क के उपबंधों के तहत उनके नामों के आगे लिखी तारीखों से प्रभावी होगा।

भारतीय वायु सेना

वैमानिक इंजीनियरी (यांत्रिक) शाखा

फ्लाईंग अफसर इंंदरजीत सिंह यादव (29333), रोहण आनन्द (29334), जिन्दो फ्रांसिस (29335), मलय दीक्षित (29336), सचिन

कुमार त्यागी (29337), सुदिप्तो पॉल (29338), निखिल कुमार (29339), सुमन्त कुमार (29340), राकेश शर्मा (29341), सईद समीउद्दीन (29342), अंशुमन (29343), विक्रम सिंह राठौर (29344), ओम प्रकाश (29345), सचिन सहरावत (29346), रॉबिन सिंह (29347), आलोक कुमार यादव (29348), नीरज सारस्वत (29349), जितेन्द्र यादव (29350), 28 दिसम्बर 2007 से प्रभावी।

माननीय राष्ट्रपति महोदय नीचे उल्लिखित अफसरों को फ्ला. अफ. के रैंक में अल्प सेवा कमीशन (परिवीक्षा पर) प्रदान करते हैं, जो वा से आ 59/98 के उपबंधों के तहत नामों के आगे लिखी तारीखों से प्रभावी होगा।

भारतीय वायुसेना

वैमानिक इंजीनियरी (इलैक्ट्रॉनिक) शाखा

नितिनचन्द्र मधुसूदन कामथ (29351), अश्वनी जैन (29352), राजेश मुखी (29353), अशिष आनन्द (29354), विनीत शर्मा (29355), प्रणीत कुमार तनुगुला (29356), अनुराग सिंह सच्चान (29357), अनमोल रतन (29358), अविनाश कुमार (29359), गौरव राय (29360), अमित कुमार श्रीवास्तव (29361), अमित कुमार खुल्लर (29362), गौतम कुमार यादव (29363), अभिवेक दीक्षित (29364), नवीन कुमार शर्मा (29365), अमित कुमार प्रसाद (29367), सचिन तिवारी (29368), विवेक सिंह (29369), ब्रिज लाल (29371), वरूण गौरव (29372), संजय कौशिक (29373), किशोर यादव (29374), अजितेश कुमार (29375), विकास डगर (29376), पवन कुमार वर्मा (29377), नवनीत रैना (29378), धीरज दत्ता (29379), विजित सिंह चौहान (29380), वैकीटेश चन्द्रन आर (29381), वी सैथिल (29382), विनीश वी नायर (29383), पुनित सिंघल (29384), केशव शर्मा (29385), पंकज भाटी (29386), गुरविन्दर सिंह रंधावा (29387), सत्यप्रिय राठौर (29388), योगेन्द्र क्षेत्री (29389), अशोक रावत (29390), करण चूंगु (29391), कोणार्क प्रताप सिंह (29392), भवानी सिंह (29393), सुनील शर्मा (29394), प्रवीण भोरिया (29395), 02 जनवरी 2007 से प्रभावी।

चेतन सोनी (29370), 03 जनवरी 2007 से प्रभावी।

वैमानिक इंजीनियरी (यांत्रिक) शाखा

फ्ला. अफ. इंंदरजीत सिंह यादव (29333), जिन्दो फ्रांसिस (29335), मलय दीक्षित (29336), सचिन कुमार त्यागी (29337), सुदिप्तो पॉल (29338), निखिल कुमार (29339), सुमन्त कुमार (29340), राकेश शर्मा (29341), सईद समीउद्दीन (29342), अंशुमन (29343), सचिन सहरावत (29346), रॉबिन सिंह (29347), आलोक कुमार यादव (29348), नीरज सारस्वत (29349), जितेन्द्र यादव (29350), 02 जनवरी 2007 से प्रभावी।

रोहन आनंद (29334), विक्रम सिंह राठौर (29344), ओम प्रकाश (29345), 03 जनवरी 2007 से प्रभावी।

एन विजय कुमार

विंग कमांडर

जे डी पी ओ-3(डी)

थल सेना विभाग

सं. 113, दिनांक 10 फरवरी 2009 - राष्ट्रपति निम्नलिखित भूतपूर्व जूनियर कमीशनड अफसरों को नौकरी पर बहाल करते हैं:

नियमित सेना

रक्षा तथा सुरक्षा कोर

सूबेदार मेजर (जी डी) के रैंक में

सूबेदार मेजर एस जोधि राज (जेसी-193493एल), पहले आर्टी रेजिमेन्ट, 07 जनवरी 2008

सूबेदार मेजर एस धिलै चिदाम्बरम (जेसी-438200एन), पहले मद्रास रेजिमेन्ट, 07 जनवरी 2008

सूबेदार (जी डी) के रैंक में

सूबेदार उमा छेत्रि (जेसी-724792डब्ल्यू), पहले आर्डेन्स कोर, 07 अक्टूबर 2007

सूबेदार जगपाल सिंह (जेसी-219694के), पहले राजपूत रेजिमेन्ट, 07 जनवरी 2008

सूबेदार अशोक कुमार एस (जेसी-221541वाई), पहले आर्टी रेजिमेन्ट, 07 जनवरी 2008

सूबेदार श्याम लाल (जेसी-259388एक्स), पहले आर्टी रेजिमेन्ट, 07 जनवरी 2008

सूबेदार प्राकर्म चन्द (जेसी-448839एच), पहले ग्रिनेडियर्स, 07 जनवरी 2008

सूबेदार रामनिवास चौधरी (जेसी-468901वाई), पहले राज राईफल्स, 07 जनवरी 2008

सूबेदार हरभेज सिंह (जेसी-260597एफ), पहले आर्टी रेजिमेन्ट, 07 जनवरी 2008

सूबेदार राम सुख (जेसी-237703एच), पहले आर्म्ड कोर, 07 जनवरी 2008

नायब सूबेदार (जी डी) के रैंक में

नायब सूबेदार राजा किशोर साहु (जेसी-558722ए), पहले बिहार रेजिमेन्ट, 08 अप्रैल 2007

नायब सूबेदार पन्ना कनार (जेसी-558610ए), पहले बिहार रेजिमेन्ट, 07 अक्टूबर 2007

नायब सूबेदार धर्म सिंह (जेसी-498454पी), पहले सिख रेजिमेन्ट, 07 जनवरी 2008

नायब सूबेदार रामेल चन्द (जेसी-449037वाई), पहले ग्रिनेडियर्स, 07 जनवरी 2008

नायब सूबेदार भनचल सिंह (जेसी-266754वाई), पहले आर्टी रेजिमेन्ट, 07 जनवरी 2008

नायब सूबेदार बादाम सिंह (जेसी-469691डब्ल्यू), पहले राज राईफल्स, 07 जनवरी 2008

नायब सूबेदार राज कुमार राय (जेसी-634130एम), पहले गोरखा रेजिमेन्ट, 10 जनवरी 2008

प्रदीप कुमार
अवर सचिव

थल सेना विभाग

सं. 114, दिनांक 10 फरवरी 2009--राष्ट्रपति सहर्ष निम्नलिखित सेना दन्त कोर अधिकारियों को दो वर्ष की परखावधि सफलतापूर्वक समाप्त करने पर सेना अनुदेश 37/78 के अन्तर्गत स्थाई कमीशन में पक्का करते हैं:--

नियमित सेना

सैनिक दन्त चिकित्सा कोर

स्थायी कमीशन

स्थायीकरण

(डीआर-10597एफ) मेजर विजय कुमार आर, 10 जुलाई 2006

राष्ट्रपति सहर्ष निम्नलिखित सेना दन्त कोर अधिकारियों को एक वर्ष की परखावधि सफलतापूर्वक समाप्त करने पर सेना अनुदेश 15/79 के अन्तर्गत अल्पकालीन कमीशन में पक्का करते हैं:--

नियमित सेना

सैनिक दन्त चिकित्सा कोर

अल्पकालीन कमीशन

स्थायीकरण

(डीएस-12124एफ) कैप्टन प्रवीण प्रदीप जे, 20 सितम्बर 2004

(डीएस-12129ए) कैप्टन चन्द्र प्रकाश, 21 अक्टूबर 2004

(डीएस-12168एफ) कैप्टन गिराश एस, 14 जून 2005

(डीएस-12177ए) कैप्टन राजिन्द्र कौर भुल्लर, 02 मार्च 2006

(डीएस-12192पी) कैप्टन विनोद पाल के, 13 मार्च 2006

(डीएस-12204वाई) कैप्टन नरेन्द्र कुमार, 19 मार्च 2006

(डीएस-12196एल) कैप्टन बनिता डिल्लो, 16 मार्च 2006

(डीएस-12203डब्ल्यू) कैप्टन नितिन सिंह परिहार, 19 मार्च 2006

(डीएस-12240के) कैप्टन सपना परमार, 23 मार्च 2007

(डीएस-12243एक्स) कैप्टन बी के चवादार, 26 मार्च 2007

(डीएस-12246एल) कैप्टन प्रियंका बांगा, 10 मई 2007

डी के तनेजा
मेजर जनरल
ए डी जी डी एस

सेना सचिव शाखा

सं. 115, दिनांक 10 फरवरी 2009--राष्ट्रपति, सहर्ष निम्नलिखित पदोन्नतियां करती हैं :--

नियमित सेना

स्थायी कमीशन

ले. जनरल के मूल रैंक में

रैंक नाम, आई सी, आर्म्स एवं ले. जनरल के मूल रैंक की प्रभावी तिथि
मेजर जनरल वी के चतुर्वेदी, ए वीएसएम, एस एम, (आई सी-25135),
आर्टी, 22 अगस्त 2008

मेजर जनरल गौतम बनर्जी, वाई एस एम, (आई सी-25189), इंजी.
, 01 सितम्बर 2008

राष्ट्रपति, सहर्ष निम्नलिखित सर्वे ऑफ इण्डिया में पदोन्नतियां करती
हैं :--

नियमित सेना

स्थायी कमीशन

मेजर जनरल के मूल रैंक में

रैंक नाम, आई सी, आर्म्स एवं मेजर जनरल के मूल रैंक की प्रभावी तिथि
ब्रिगे. मनोज तयाल (आई सी-31242), इंजी., 27 फरवरी 2008
ब्रिगे. सी एस बेवली (आई सी-31243), इंजी., 26 फरवरी 2008
ब्रिगे. के एस काली प्रसाद (आई सी-31597), इंजी., 25 फरवरी
2008

ब्रिगे. एस वी चीन्नावर (आई सी-31938), इंजी., 10 मार्च 2008

ब्रिगे. पी के चौधरी (आई सी-34717), इंजी., 10 मार्च 2008

ब्रिगे. आलोक कुमार (आई सी-34721), इंजी., 22 फरवरी 2008

राष्ट्रपति, सहर्ष निम्नलिखित पदोन्नतियां करती हैं :--

नियमित सेना

स्थायी कमीशन

मेजर जनरल के मूल रैंक में

रैंक नाम, आई सी, आर्म्स एवं मेजर जनरल के मूल रैंक की प्रभावी तिथि
ब्रिगे. सी प्रकाश (आई सी-27761), आर्टी (जी सी), 29 मार्च 2008
से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 23 फरवरी 2007 से दी
जाएगी।

ब्रिगे. जतीन्दर सिंह (आई सी-27793), गार्ड्स, 08 दिसम्बर 2007 से
ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 01 मार्च 2007 से दी
जाएगी।

ब्रिगे. टी एम महैसाले (आई सी-27945), ईएमई, 19 दिसम्बर 2007
से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 01 मई 2007 से दी
जाएगी।

ब्रिगे. एस के धवन (आई सी-30126), सिग्स, 01 अक्टूबर 2008 से
ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 03 जून 2007 से दी
जाएगी।

ब्रिगेडियर के मूल रैंक में

रैंक नाम, आई सी, आर्म्स एवं ब्रिगेडियर के मूल रैंक की प्रभावी तिथि

कर्नल एस के गैडक (आई सी-34424), मैक ईन्फ, 07 मार्च 2008 से
ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 19 जनवरी 2007 से दी
जाएगी।

एन के फूकन
निदेशक/एम एस (एक्स)

सेना शाखा

सं. 116, दिनांक 11 फरवरी 2009--राष्ट्रपति, निम्नलिखित अधिकारियों
को सहर्ष पदोन्नति करने की अनुमति प्रदान करते हैं :--

प्रादेशिक सेना

प्रादेशिक कमीशन

ले. कर्नल बनाया जाता है

मेजर एम के हुसैन (टी ए-42418), इन्फैन्ट्री, 14 जनवरी 2005

मेजर ए के तिवारी (टी ए-41994), इंजी., 16 दिसम्बर 2004

मेजर दिनेश कुमार (टी ए-41822), इंजी., 16 दिसम्बर 2004

जय राज
अवर सचिव

सं. 117, दिनांक 11 फरवरी 2009--राष्ट्रपति, निम्नलिखित पदाधिकारियों
की सहर्ष पदोन्नतियां करती हैं।

नियमित सेना

स्थायी कमीशन

कप्तान से मेजर

आईसी नं., नाम, आर्म्स, मेजर दिनांक से

54486, मनीष बौन्ध्याल, एएमसी, 16 दिसम्बर 2004

61539, रवि नवीन, इन्फैन्ट्री, 08 दिसम्बर 2007

62096, विलास घोष, मैक इन्फैन्ट्री, 08 जून 2008

62375, अयप्पा बी एम, इंजीनियर्स, 08 जून 2008	65565, अमिरन्दर बरार, एसी
62411, रघुराम वेमुगंटी इंजीनियर्स, 08 सितम्बर 2008	65566, पारथा प्रातिम दत्ता, इंजीनियर्स
65049, अमन शर्मा, इन्फैन्ट्री, 02 मई 2007	65567, विवेक चौधरी, आर्टी
65533, प्रेम सिंह बिष्ट, आर्टी	65568, जाधव संतोष कुमार रंगराव, इन्फैन्ट्री
65534, पंकज मेथानी, मैक इन्फैन्ट्री	65569, जाधव महेश वैष्णु, एसी
65535, अश्वनी कुमार, आर्टी	65570, करण वशिष्ठ, इन्फैन्ट्री
65537, अमित मेहता, इन्फैन्ट्री	65571, रोहित चौहान, इन्फैन्ट्री
65538, जोरावर सिंह, इन्फैन्ट्री	65573, सिधारे पाटिल, इंजीनियर्स
65539, सुरेश कुमार पंडित, इंजीनियर्स	65574, सुनील कुमार, मैक इन्फैन्ट्री
65540, लोगंजम जिमकेल्ले मीतई, इन्फैन्ट्री	65577, विरमानी मनु चन्दर मोहन, इन्फैन्ट्री
65541, संदीप के थापा, ईएमई	65578, हेमन्त लोहन, आर्टी
65542, आदित्य बलि, इन्फैन्ट्री	65579, राजीव रंजन ठाकुर, सिग्नल्स
65543, फर्नांडिज़ जानी रॉकी, इन्ट	65580, एम बाबू, इन्फैन्ट्री
65544, दीपक वी शर्मा, एओसी	65581, कृष्ण कुमार चरण, आर्टी
65545, अजीत कुमार राजगुरू मिश्रा, इन्फैन्ट्री	65583, इम्तियाज़ मंसूरी, एएडी
65546, कौशिक तरुण महेश, एसी	65584, दिनेश सिंह भंडारी, ईएमई
65547, अरूण देव सिंह जसरोटिया, इन्फैन्ट्री	65585, सचिन शर्मा, एओसी
65548, रमित चौहान, सिग्नल्स	65586, अमर दीप यादव, मैक इन्फैन्ट्री
65549, प्रताप रंजन मोहन्ती, इन्फैन्ट्री	65588, विकास खन्ना, आर्टी
65550, मृदुल मिश्रा, इन्फैन्ट्री	65589, दिग्विजय सिंह शेखावत, ईएमई
65551, मंजीत सांगवान, एएससी	65590, मिश्रा राहुल बल, इन्फैन्ट्री
65552, विशाल सिंह सांगा, मैक इन्फैन्ट्री	65591, बिजू कृष्णन, आर्टी
65553, अक्षय कुमार, आर्टी	65592, रमनदीप संघु, एसी
65554, संदीप कुमार, इन्फैन्ट्री	65593, विकास रामचन्द्र पाटिल (घारे), सिग्नल्स
65555, आदित्य सिंह राठौर, एसी	65594, पवन कुमार उनियाल, इन्फैन्ट्री
65556, शिविन्द्र प्रताप सिंह कंवर, इन्फैन्ट्री	65595, सुखवंत सिंह ढोंढसा, इन्फैन्ट्री
65557, आर्थर अगव फाऊनिंग, इन्फैन्ट्री	65596, रोहित सोलंकी, इन्फैन्ट्री
65558, आनन्द, ईएमई	65597, ब्रिजेन्द्र कुमार पुष्कर, आर्टी
65559, भानू प्रताप सिंह, एओसी	65598, विक्रम सिंह बोरा, इन्फैन्ट्री
65560, प्रेम कुमार तोमर, सिग्नल्स	65599, मो. अनवारुद्दीन शेरीफ, इन्फैन्ट्री
65561, ब्रिजेन्द्र सिंह बी शेखावत, एसी	65600, बादल कौशिक, एएडी
65562, सुगन्धित विकास बाली, इंजीनियर्स	65601, एमवी विपिन, एएससी
65563, शैरप दोरजी भूटिया, इन्फैन्ट्री	65603, महेन्द्र कुमार जोशी, एएससी

65604, बिष्ट अभय भुवन चन्द्रा, एओसी	39600, आदर्श नायक, इन्फैन्ट्री, 02 मार्च 2002, 73(नान टैक), 02 नवम्बर 2002, 02 नवम्बर 2008
65605, नीरज कुमार, इन्फैन्ट्री	
65606, राजीव मेनन, इन्फैन्ट्री	39607, ब्रिजेश थापा, इन्फैन्ट्री, 02 मार्च 2002, 73(नान टैक), 02 नवम्बर 2002, 02 नवम्बर 2008
65608, शिव कुमार, ईएमई	
65609, शौरभ रावत, इन्फैन्ट्री	39632, तपन सिंह तोमर, मैक इन्फैन्ट्री, 02 मार्च 2002, 73(नान टैक), 02 नवम्बर 2002, 02 नवम्बर 2008
65610, अजय कुमार, इन्फैन्ट्री	
65614, थोंगबम डिजेन सिंह, इन्फैन्ट्री	39650, पी प्रभ राज, आर्टी, 02 मार्च 2002, 73(नान टैक), 02 नवम्बर 2002, 02 नवम्बर 2008
65617, विक्रांत मनकोटिया, ईएमई	
65618, रमेश कुमार, इन्फैन्ट्री	39651, अजय सिंह, इन्फैन्ट्री, 02 मार्च 2002, 73(नान टैक), 02 नवम्बर 2002, 02 नवम्बर 2008
65621, प्रशांत झाला, इन्फैन्ट्री	
65622, आशिफ अब्बास, इन्फैन्ट्री	39655, आशीष झिंगन, इन्फैन्ट्री, 02 मार्च 2002, 73(नान टैक), 02 नवम्बर 2002, 02 नवम्बर 2008
65623, मार्तण्ड मिश्रा, आर्टी	
65624, दिनेश सिंह ठाकुर, इन्फैन्ट्री	39656, गौरव अरोड़ा, आर्टी, 02 मार्च 2002, 73(नान टैक), 02 नवम्बर 2002, 02 नवम्बर 2008
65625, गजेन्द्र सिंह शेखावत, इन्फैन्ट्री	
65626, विनोद जोशी, इन्फैन्ट्री	39695, रंजीत एच एस, इन्फैन्ट्री, 02 मार्च 2002, 73(नान टैक), 02 नवम्बर 2002, 02 नवम्बर 2008
65628, शैलेन्द्र सिंह शेखावत, एसी	
65629, अनुराग शर्मा, सिग्नल्स	40823, सुनील यादव, सिग्नल्स, 17 सितम्बर 2002, 21(टैक), 17 अक्टूबर 2002, 17 अक्टूबर 2008
65630, सिद्धार्थ विरमानी, सिग्नल्स	
65631, मान सिंह, इंजीनियर्स	40830, धर्मेन्द्र बी जडेजा, इंजीनियर्स, 17 सितम्बर 2002, 21(टैक), 17 अक्टूबर 2002, 17 अक्टूबर 2008
65632, फकीर अब्बास, एसी	
65633, विश्वास पी, इंजीनियर्स	40837, मयंक गौतम, सिग्नल्स, 17 सितम्बर 2002, 21(टैक), 17 अक्टूबर 2002, 17 अक्टूबर 2008
65634, माधवेन्द्र सिंह, ईएमई	
65635, राकेश शर्मा, एएडी	40841, निरंजन ई के, इंजीनियर्स, 17 सितम्बर 2002, 21(टैक), 17 अक्टूबर 2002, 17 अक्टूबर 2008
65636, मयंक तिवारी, मैक इन्फैन्ट्री	
65637, संजीत एस ज्ञानी, इन्फैन्ट्री	40845, शधुगानाथन बीबी, सिग्नल्स, 17 सितम्बर 2002, 21(टैक), 17 अक्टूबर 2002, 17 अक्टूबर 2008
65638, विकास त्यागी, एएससी	
	40852, अमित लोहन, इंजीनियर्स, 17 सितम्बर 2002, 21(टैक), 17 अक्टूबर 2002, 17 अक्टूबर 2008

--02 नवम्बर 2008--

अल्प-कालीन सेवा कमीशन (मेन)

कप्तान से मेजर

एसएस नं., नाम, आर्म, वरिष्ठता तिथि, कोर्स संख्या, पदोन्नति के लिए वरिष्ठता की संशोधित तिथि, मेजर दिनांक से

39589, संजीव कुमार डोगरा, एएससी, 02 मार्च 2002, 73(नान टैक), 02 नवम्बर 2002, 02 नवम्बर 2008

39590, अनुराग आइरी, इन्फैन्ट्री, 02 मार्च 2002, 73(नान टैक), 02 नवम्बर 2002, 02 नवम्बर 2008

40855, अमनजोत सिंह, इंजीनियर्स, 17 सितम्बर 2002, 21(टैक), 17 अक्टूबर 2002, 17 अक्टूबर 2008

40860, किशोर थाम्पीयू सी, इंजीनियर्स, 17 सितम्बर 2002, 21(टैक), 17 अक्टूबर 2002, 17 अक्टूबर 2008

40861, धर्मेन्द्र सिंह, इंजीनियर्स, 17 सितम्बर 2002, 21(टैक), 17 अक्टूबर 2002, 17 अक्टूबर 2008

40863, संदीप कुमार रनोट, सिग्नल्स, 17 सितम्बर 2002, 21(टैक), 17 अक्टूबर 2002, 17 अक्टूबर 2008

स्थायी कमीशन

ले. से कप्तान

आईसी सं., नाम, आर्म, कप्तान दिनांक से

56526, अनुराग शर्मा, आर्टी, 16 दिसम्बर 2004

64532, राहुल पांडे, आर्टी, 10 दिसम्बर 2006

65798, गगनदीप सिंह, ईएमई, 16 दिसम्बर 2004

65852, अनिल जाखड़, इन्फैन्ट्री, 08 नवम्बर 2005

65890, ओबरे एल बर्ड, एससी, 08 नवम्बर 2005

65902, सुपिन्दर सिंह सेठी, इंजीनियर्स, 16 दिसम्बर 2004

65905, पवन यादव, ईएमई, 16 दिसम्बर 2004

अल्पकालीन सेवा कमीशन

ले. से कप्तान

एसएम नं.	नाम	आर्म	वरीयता तिथि	कोस	संशोधित वरीयता तिथि	कप्तान दिनांक से
1	2	3	4	5	6	7
41810	चेबा पराग विमलकुमार	इन्फैन्ट्री	18 मार्च 2006	एसएससी- 81(एनटी)	18 अक्टूबर 2006	18 अक्टूबर 2008
41816	अनिल कुमार	आर्टी	18 मार्च 2006	एसएससी- 81(एनटी)	18 अक्टूबर 2006	18 अक्टूबर 2008
41817	सूरज आर जकानुर	इन्फैन्ट्री	18 मार्च 2006	एसएससी- 81(एनटी)	18 अक्टूबर 2006	18 अक्टूबर 2008
41820	बब्बर भान	आर्टी	18 मार्च 2006	एसएससी- 81(एनटी)	18 अक्टूबर 2006	18 अक्टूबर 2008
41821	कृष्ण पाल सिंह शेखरावत	इन्फैन्ट्री	18 मार्च 2006	एसएससी- 81(एनटी)	18 अक्टूबर 2006	18 अक्टूबर 2008
41823	संदीप कुरूप	इन्फैन्ट्री	18 मार्च 2006	एसएससी- 81(एनटी)	18 अक्टूबर 2006	18 अक्टूबर 2008
41827	बी.एच. सोमनाथ एमोल	इन्फैन्ट्री	18 मार्च 2006	एसएससी- 81(एनटी)	18 अक्टूबर 2006	18 अक्टूबर 2008
41834	किशोर कुमार	आर्टी	18 मार्च 2006	एसएससी- 81(एनटी)	18 अक्टूबर 2006	18 अक्टूबर 2008
41844	अर्कज्य चिंगनेमबा मैतई	इन्फैन्ट्री	18 मार्च 2006	एसएससी- 81(एनटी)	18 अक्टूबर 2006	18 अक्टूबर 2008
41847	जयशंकर सिंह	इन्फैन्ट्री	18 मार्च 2006	एसएससी- 81(एनटी)	18 अक्टूबर 2006	18 अक्टूबर 2008
41848	अर्दीप कुमार	इन्फैन्ट्री	18 मार्च 2006	एसएससी- 81(एनटी)	18 अक्टूबर 2006	18 अक्टूबर 2008
41850	एंगरेम हुंग्यो	आर्टी	18 मार्च 2006	एसएससी- 81(एनटी)	18 अक्टूबर 2006	18 अक्टूबर 2008
41852	जाकीबुलहनु जिन्यू	इंटी	18 मार्च 2006	एसएससी- 81(एनटी)	18 अक्टूबर 2006	18 अक्टूबर 2008

1	2	3	4	5	6	7
41867	गुरुसिंहगौड पाटिल	इन्फैन्ट्री	18 मार्च 2006	एसएससी- 81(एनटी)	18 अक्टूबर 2006	18 अक्टूबर 2008
41883	शास्त्री सुमित शशि	आर्टी	18 मार्च 2006	एसएससी- 81(एनटी)	18 अक्टूबर 2006	18 अक्टूबर 2008
41886	नीलभ जोशी	एओसी	18 मार्च 2006	एसएससी- 81(एनटी)	18 अक्टूबर 2006	18 अक्टूबर 2008
41887	उगले धनश्याम चंद्रकांत	इन्फैन्ट्री	18 मार्च 2006	एसएससी- 81(एनटी)	18 अक्टूबर 2006	18 अक्टूबर 2008
41889	कुलदीपक राना	एएडी	18 मार्च 2006	एसएससी- 81(एनटी)	18 अक्टूबर 2006	18 अक्टूबर 2008
41891	रोबिन संगवान	इन्फैन्ट्री	18 मार्च 2006	एसएससी- 81(एनटी)	18 अक्टूबर 2006	18 अक्टूबर 2008
41900	देसाई धानाजी चंद्रकांत	इन्फैन्ट्री	18 मार्च 2006	एसएससी- 81(एनटी)	18 अक्टूबर 2006	18 अक्टूबर 2008
41913	मनीष श्रेष्ठ	इन्फैन्ट्री	18 मार्च 2006	एसएससी- 81(एनटी)	18 अक्टूबर 2006	18 अक्टूबर 2008
41933	युधिष्ठिर खलडानिया	एससी	18 मार्च 2006	एसएससी- 81(एनटी)	18 अक्टूबर 2006	18 अक्टूबर 2008
41937	रजत सिंह	एओसी	18 मार्च 2006	एसएससी- 81(एनटी)	18 अक्टूबर 2006	18 अक्टूबर 2008
41943	लोटेस स्पालगेस	इन्फैन्ट्री	18 मार्च 2006	एसएससी- 81(एनटी)	18 अक्टूबर 2006	18 अक्टूबर 2008
41952	धौनाओजम नोगपोकनबा	इन्फैन्ट्री	18 मार्च 2006	एसएससी- 81(एनटी)	18 अक्टूबर 2006	18 अक्टूबर 2008
41953	इश्वर सिंह पुरोहित	एओसी	18 मार्च 2006	एसएससी- 81(एनटी)	18 अक्टूबर 2006	18 अक्टूबर 2008
41959	उपमन्यु सिंह	एसी	18 मार्च 2006	एसएससी- 81(एनटी)	18 अक्टूबर 2006	18 अक्टूबर 2008
41960	अतिन गुप्ता	एएडी	18 मार्च 2006	एसएससी- 81(एनटी)	18 अक्टूबर 2006	18 अक्टूबर 2008
41962	त्रिभुवन कांत शर्मा	एएडी	18 मार्च 2006	एसएससी- 81(एनटी)	18 अक्टूबर 2006	18 अक्टूबर 2008
41965	डी सुजा स्टानलेय जोन्स विकटर रोनाल्ड	आर्टी	18 मार्च 2006	एसएससी- 81(एनटी)	18 अक्टूबर 2006	18 अक्टूबर 2008
41967	जाधव सचिन कुमार राजाराम	आर्टी	18 मार्च 2006	एसएससी- 81(एनटी)	18 अक्टूबर 2006	18 अक्टूबर 2008
41970	स्नेहल नायर	एओसी	18 मार्च 2006	एसएससी- 81(एनटी)	18 अक्टूबर 2006	18 अक्टूबर 2008
41973	अमित कुमार	मक	18 मार्च 2006	एसएससी- 81(एनटी)	18 अक्टूबर 2006	18 अक्टूबर 2008
41977	अभिषेक बनर्जी	इन्फैन्ट्री	18 मार्च 2006	एसएससी- 81(एनटी)	18 अक्टूबर 2006	18 अक्टूबर 2008
41978	दीपक राठौर	एएडी	18 मार्च 2006	एसएससी- 81(एनटी)	18 अक्टूबर 2006	18 अक्टूबर 2008

1	2	3	4	5	6	7
41982	एन प्रसन्ना	आर्टी	18 मार्च 2006	एसएससी- 81(एनटी)	18 अक्टूबर 2006	18 अक्टूबर 2008
41983	धुवश्री दास	इन्फैन्ट्री	18 मार्च 2006	एसएससी- 81(एनटी)	18 अक्टूबर 2006	18 अक्टूबर 2008
41987	रेगिल राज अन्नल	आर्टी	18 मार्च 2006	एसएससी- 81(एनटी)	18 अक्टूबर 2006	18 अक्टूबर 2008
41989	वर्तक रिशिकेश सुधांशु	आर्टी	18 मार्च 2006	एसएससी- 81(एनटी)	18 अक्टूबर 2006	18 अक्टूबर 2008
41991	दीपक चौधरी	एएडी	18 मार्च 2006	एसएससी- 81(एनटी)	18 अक्टूबर 2006	18 अक्टूबर 2008
41994	रामाकांत आर	आर्टी	18 मार्च 2006	एसएससी- 81(एनटी)	18 अक्टूबर 2006	18 अक्टूबर 2008
41998	प्रसोभ के आर	इन्ट	18 मार्च 2006	एसएससी- 81(एनटी)	18 अक्टूबर 2006	18 अक्टूबर 2008
42001	महेश राजा	आर्टी	18 मार्च 2006	एसएससी- 81(एनटी)	18 अक्टूबर 2006	18 अक्टूबर 2008

जसवन्त सिंह
संयुक्त निदेशक
एमएस-8सी

सेना शाखा

सं. 118, दिनांक 11 फरवरी 2009--राष्ट्रपति, निम्नलिखित अधिकारियों को सहर्ष पदोन्नति करने की अनुमति प्रदान करते हैं :--

प्रादेशिक सेना

प्रादेशिक कमीशन

कैप्टन बनाया जाता है

लै. सी सुरेन्द्र बाबू (टीए-42165), इन्जीनियर, 16 दिसम्बर 2004

लै. एम सी एस प्रेमदास (टीए-42298), इन्जीनियर, 16 दिसम्बर 2004

लै. एस एन पुनीकर (टीए-42299), इन्जीनियर, 16 दिसम्बर 2004

लै. आई एच जुबेरी (टीए-42357), इन्जीनियर, 17 फरवरी 2004

लै. एस एम फारुक (टीए-42380), इन्जीनियर, 16 दिसम्बर 2004

लै. लज्जा राम सुमन (टीए-42403), इन्जीनियर, 16 दिसम्बर 2004

लै. सरोज कुमार (टीए-42404), इन्जीनियर, 16 दिसम्बर 2004

लै. पी के असीलेटी (टीए-42119), इन्जीनियर, 17 फरवरी 2004

लै. वी एम थोमस (टीए-42392), इन्जीनियर, 14 सितम्बर 2004

लै. ए बी कुश (टीए-42401), इन्जीनियर, 12 अक्टूबर 2004

लै. डी के शर्मा (टीए-42393), इन्जीनियर, 12 अक्टूबर 2004

लै. एन के सिधु (टीए-42400), इन्जीनियर, 12 अक्टूबर 2004

जय राज
अवर सचिव

थल सेना विभाग

सं. 119, दिनांक 11 फरवरी 2009--राष्ट्रपति, निम्नलिखित पदोन्नतियाँ करते हैं :--

नियमित सेना

इन्फैन्ट्री

मैकानाइज्ड इन्फैन्ट्री रेजिमेन्ट

सूबेदार मेजर के रैंक में

सूबेदार दिने परमेश्वर बजरंग (जेसी-418392पी), 01 सितम्बर 2008

सूबेदार चंचल सिंह (जेसी-418864ए), 04 अक्टूबर 2008 *

*(सूबेदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2008 से दी जाती है)

सूबेदार उमैद सिंह (जेसी-418894एक्स), 01 अक्टूबर 2008

सूबेदार उन्नि के कुमारन नायर के (जेसी-418440के), 01 अक्टूबर 2008

सूबेदार बलबीर सिंह (जेसी-419407वाई), 01 अक्टूबर 2008

सूबेदार के रैंक में

नायब सूबेदार सुदामा प्रसाद (जेसी-420057के), 15 सितम्बर 2008 *

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 2008 से दी जाती है)

नायब सूबेदार सिनाम बिमोन सिंह (जेसी-420143पी), 01 अप्रैल 2008

नायब सूबेदार माया धारी (जेसी-420127एक्स), 01 जून 2008

नायब सूबेदार श्री नरेन्द्र सिंह तोमर (जेसी-420147एल), 09 जुलाई 2008 *

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2008 से दी जाती है)

नायब सूबेदार भरत सिंह (जेसी-420195एल), 02 जुलाई 2008 *

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2008 से दी जाती है)

नायब सूबेदार सुभाष चंद (जेसी-420073एफ), 05 सितम्बर 2008 *

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अगस्त 2008 से दी जाती है)

नायब सूबेदार राज कुमार सिंह (जेसी-420105वाई), 18 अगस्त 2008*

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अगस्त 2008 से दी जाती है)

नायब सूबेदार पुर्खा राम (जेसी-420268एम), 01 सितम्बर 2008*

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अगस्त 2008 से दी जाती है)

नायब सूबेदार हरी शंकर (जेसी-420352एम), 22 सितम्बर 2008*

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अगस्त 2008 से दी जाती है)

नायब सूबेदार सुरजीत सिंह (जेसी-420557एफ), 11 सितम्बर 2008*

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अगस्त 2008 से दी जाती है)

नायब सूबेदार अशोक कुमार पटियाल (जेसी-419907डब्ल्यू), 30 सितम्बर 2008*

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2008 से दी जाती है)

नायब सूबेदार जगमल सिंह (जेसी-419932पी), 01 सितम्बर 2008

नायब सूबेदार बाबु लाल (जेसी-419959एम), 01 सितम्बर 2008

नायब सूबेदार विश राम (जेसी-420005एन), 07 सितम्बर 2008*

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2008 से दी जाती है)

नायब सूबेदार कुन्दन लाल (जेसी-419989के), 25 सितम्बर 2008*

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2008 से दी जाती है)

नायब सूबेदार पृथ्वी सिंह भाटिया (जेसी-419996ए), 01 सितम्बर 2008

नायब सूबेदार वनश्याम शर्मा (जेसी-420020एच), 07 सितम्बर 2008*

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2008 से दी जाती है)

नायब सूबेदार सुंदर कुमार (जेसी-420074के), 03 सितम्बर 2008*

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2008 से दी जाती है)

नायब सूबेदार भुलन घोश (जेसी-420065एच), 01 सितम्बर 2008

नायब सूबेदार चेत राम (जेसी-420066एल), 01 सितम्बर 2008

नायब सूबेदार हरी सिंह रावत (जेसी-420138के), 01 सितम्बर 2008

नायब सूबेदार रणजीत सिंह (जेसी-420097एल), 01 सितम्बर 2008

नायब सूबेदार लच्छमन देव (जेसी-420121डब्ल्यू), 01 सितम्बर 2008

नायब सूबेदार दिलवर सिंह (जेसी-420144एक्स), 01 सितम्बर 2008

नायब सूबेदार जगन्नाथ प्रसाद (जेसी-420272पी), 01 सितम्बर 2008

नायब सूबेदार राम नरेश (जेसी-420315वाई), 29 सितम्बर 2008*

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2008 से दी जाती है)

नायब सूबेदार रणबीर सिंह (जेसी-420382के), 01 सितम्बर 2008

नायब सूबेदार जग बहादुर गुरुंग (जेसी 420448पी), 11 सितम्बर 2008*

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2008 से दी जाती है)

नायब सूबेदार अशोक बहादुर (जेसी-420450एम), 01 सितम्बर 2008

नायब सूबेदार भजन सिंह (जेसी-420451पी), 01 सितम्बर 2008

नायब सूबेदार रेशम लाल (जेसी-420463के), 01 सितम्बर 2008

नायब सूबेदार शिवा पुत्रप्पा इरप्पा (जेसी-419830वाई), 01 अक्टूबर 2008

नायब सूबेदार सत पॉल (जेसी-420200एल), 01 अक्टूबर 2008

नायब सूबेदार काले बालासाहेब संतराम (जेसी-420211एक्स), 01 अक्टूबर 2008

नायब सूबेदार रमन लाल दयाल (जेसी-420342एच), 01 अक्टूबर 2008

नायब सूबेदार विरपाल सिंह (जेसी-420380वाई), 01 अक्टूबर 2008

नायब सूबेदार पुरन सिंह गुरुंग (जेसी-420453ए), 03 अक्टूबर 2008*

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अगस्त 2008 से दी जाती है)

नायब सूबेदार सुसिल कुमार मधु कुमार वेदय (जेसी-420510डब्ल्यू), 01 अक्टूबर 2008

नायब सूबेदार थोथी राम समक्रिया (जेसी-420549एम), 01 अक्टूबर 2008

गार्डस ब्रिगेड

सूबेदार मेजर के रैंक में

सूबेदार भोला प्रसाद सिंहा (जेसी-402515एम), 01 सितम्बर 2008

सूबेदार राम देव (जेसी-402562के), 01 सितम्बर 2008

सूबेदार अनिल कुमार मिश्रा (जेसी-402869पी), 03 सितम्बर 2008*

*(सूबेदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2008 से दी जायेगी)

सूबेदार रघुबीर सिंह पुनीया (जेसी-402922पी), 01 अक्टूबर 2008

सूबेदार के रैंक में

नायब सूबेदार भगवती प्रसाद (जेसी-403637एच), 09 सितम्बर 2008*

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2008 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार सर्वेश्वर साकीया (जेसी-403803एल), 25 अक्टूबर 2008*

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 04 जून 2008 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार विनोद कुमार सिंह (जेसी-403201एक्स), 26 सितम्बर 2008*

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2008 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार एम श्रीनिवास राव (जेसी-403556एच), 01 जुलाई 2008

नायब सूबेदार नथू लाल (जेसी-403793एम), 17 अगस्त 2008*

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2008 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार धन बहादुर छेत्री (जेसी-403910एम), 25 सितम्बर 2008*

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2008 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार ससी एन (जेसी-403602एन), 20 जुलाई 2008

नायब सूबेदार एस बासकरन (जेसी-403769डब्ल्यू), 20 जुलाई 2008

नायब सूबेदार अशोक कुमार (जेसी-403822डब्ल्यू), 01 अगस्त 2008

नायब सूबेदार कुंज बिहारी परीदा (जेसी-404006एम), 01 अगस्त 2008

नायब सूबेदार चडा राम रामू (जेसी-403623एच), 15 अगस्त 2008

नायब सूबेदार बनारसी यादव (जेसी-403647एम), 21 सितम्बर 2008*

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 18 अगस्त 2008 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार मोहन ठाकुर (जेसी-403560एल), 24 अक्टूबर 2008*

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 20 अगस्त 2008 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार लालता प्रसाद (जेसी-403588एल), 01 सितम्बर 2008

नायब सूबेदार नेकराम सिंह सोगरवाल (जेसी-403674डब्ल्यू), 01 सितम्बर 2008

नायब सूबेदार कामेश्वर सिंह (जेसी-403683एक्स), 21 सितम्बर 2008*

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2008 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार पूरन चंद्र राय (जेसी-403732पी), 22 सितम्बर 2008*

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2008 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार बिद्या सिंह तिमूंग (जेसी-403775के), 11 अक्टूबर 2008*

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2008 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार अवधेश कुमार (जेसी-403890के), 21 सितम्बर 2008*

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2008 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार अशोक कुमार (जेसी-403935वाई), 23 सितम्बर 2008*

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2008 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार महिपाल सिंह (जेसी-403644वाई), 14 अक्टूबर 2008*

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2008 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार सतीश कुमार (जेसी-403694के), 03 अक्टूबर 2008*

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2008 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार राम कुमार शर्मा (जेसी-403720ए), 01 अक्टूबर 2008

नायब सूबेदार प्रदीप कुमार (जेसी-403754एन), 11 अक्टूबर 2008 *
*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2008 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार छत्तर पाल पाण्डे (जेसी-403759एम), 01 अक्टूबर 2008

नायब सूबेदार पूरन सिंह भण्डारी (जेसी-403865एल), 01 अक्टूबर 2008

नायब सूबेदार जोगा सिंह (जेसी-403938एम), 09 अक्टूबर 2008 *
*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2008 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार रामायण सिंह (जेसी-403651पी), 01 नवम्बर 2008

नायब सूबेदार रनबीर सिंह (जेसी-403761के), 01 नवम्बर 2008

नायब सूबेदार मान सिंह मकवाना (जेसी-403838एफ), 01 नवम्बर 2008

सूबेदार (क्लर्क) के रैंक में

नायब सूबेदार (क्लर्क) श्री कृष्ण (जेसी-403621एक्स), 01 अगस्त 2008

नायब सूबेदार (क्लर्क) गुलाब चंद (जेसी-403663के), 01 सितम्बर 2008

नायब सूबेदार (क्लर्क) राम प्रताप (जेसी-403743एफ), 01 नवम्बर 2008

नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार सुंदर सिंह भण्डारी (सं. 13688113ए अब जेसी-404302एक्स), 17 जुलाई 2008 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2008 से दी जायेगी)

हवलदार विनोद कुमार (सं. 13689590एन अब जेसी-404309एफ), 24 जुलाई 2008 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 04 जून 2008 से दी जायेगी)

हवलदार जग नारायण सिंह (सं. 13689836एफ अब जेसी-404310डब्ल्यू), 24 जुलाई 2008 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 06 जून 2008 से दी जायेगी)

हवलदार राकेश कुमार (सं. 13688392डब्ल्यू अब जेसी-404338डब्ल्यू), 11 जून 2008

हवलदार नरेंद्र सिंह (सं. 13690032वाई अब जेसी-404350एक्स), 29 जुलाई 2008

हवलदार वेनु गोपालन नायर पी के (सं. 13690687एल अब जेसी-404359एम), 29 जुलाई 2008

हवलदार संथोश कुमार एन (सं. 13692010वाई अब जेसी-404360एफ), 29 जुलाई 2008

हवलदार विनोद वो वी (सं. 13692994एफ अब जेसी-404361के), 29 जुलाई 2008

हवलदार पीरिक्ल्ला चंद्री नायडू (सं. 13693098ए अब जेसी-404362एम), 15 अगस्त 2008

हवलदार रामपाल भुम्बला (सं. 13690833ए अब जेसी-404365ए), 01 अक्टूबर 2008

हवलदार रघुबीर सिंह (सं. 13691339डब्ल्यू अब जेसी-404366एच), 01 अक्टूबर 2008

हवलदार शीश राम गुर्जर (सं. 13689818वाई अब जेसी-404367एल), 01 नवम्बर 2008

हवलदार ब्रिज श्याम तिवारी (सं. 13688148डब्ल्यू अब जेसी-404368एन), 01 नवम्बर 2008

हवलदार रघुनाथ एम (सं. 13690048के अब जेसी-404369डब्ल्यू), 01 नवम्बर 2008

हवलदार शिव बाली यादव (सं. 13693028एफ अब जेसी-404370एल), 01 नवम्बर 2008

नायब सूबेदार (क्लर्क) के रैंक में

हवलदार (क्लर्क) चंद्र कांत (सं. 13687605एम अब जेसी-404342वाई), 01 अगस्त 2008

हवलदार (क्लर्क) प्रेम धनी राम (सं. 13687639ए अब जेसी-404344के), 01 सितम्बर 2008

मैकानाइज्ड इम्प्लैन्टी रेजिमेंट

नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार सरबजीत सिंह (सं. 14912314ए अब जेसी-421051पी), 18 अगस्त 2008 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 06 जुलाई 2008 से दी जाती है)

हवलदार परमार नरुभा कर्नुभा (सं. 14915176पी अब जेसी-421052एक्स), 25 अगस्त 2008 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 24 जुलाई 2008 से दी जाती है)

हवलदार मोहन लाल गुज्जर (सं. 14912959एच अब जेसी-421053ए), 25 अगस्त 2008 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अगस्त 2008 से दी जाती है)

हवलदार सुरेश चंद (सं. 14914061पी अब जेसी-421054एच),
25 अगस्त 2008 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 अगस्त 2008 से दी जाती है)

हवलदार सुचा सिंह (सं. 14911873एक्स अब जेसी-421055एल),
01 अगस्त 2008

हवलदार सौलके दिगम्बर बापुराव (सं. 14914876डब्ल्यू अब जेसी-
421056एन), 02 सितम्बर 2008 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 अगस्त 2008 से दी जाती है)

हवलदार बिजेन्द्र सिंह (सं. 14915795एच अब जेसी-421057डब्ल्यू),
05 सितम्बर 2008 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 अगस्त 2008 से दी जाती है)

हवलदार सुरेश कुमार (सं. 14914327डब्ल्यू अब जेसी- 421058वाई),
08 सितम्बर 2008 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 अगस्त 2008 से दी जाती है)

हवलदार गंगावारापु तिरुपति राव (सं. 14914527एम अब जेसी-
421059एफ), 25 अगस्त 2008 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 अगस्त 2008 से दी जाती है)

हवलदार प्रफूल्ला चंद्र मोहन्ती (सं. 14914996पी अब जेसी-
421060डब्ल्यू), 25 अगस्त 2008 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 अगस्त 2008 से दी जाती है)

हवलदार इनामुल हक अंसारी (सं. 14915119एन अब जेसी-
421061वाई), 25 अगस्त 2008 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 अगस्त 2008 से दी जाती है)

हवलदार अरविन्द कुमार (सं. 14914082एल अब जेसी-
421062एफ), 25 अगस्त 2008 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 अगस्त 2008 से दी जाती है)

हवलदार कन्हैया लाल गुर्जर (सं. 14918629ए अब जेसी-
421063के), 01 अगस्त 2008

हवलदार मोनी ओमेन (सं. 14918669एफ अब जेसी-421064एम),
01 अगस्त 2008

हवलदार अनिल कुमार (सं. 14918673के अब जेसी-421065पी),
01 अगस्त 2008

हवलदार अली हुसैन (सं. 14912023ए अब जेसी-421066एक्स),
02 अगस्त 2008

हवलदार उदय सिंह (सं. 14915734एल अब जेसी-421067ए),
04 सितम्बर 2008 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 25 अगस्त 2008 से दी जाती है)

हवलदार बिरेंद्र दत्त (सं. 14910211एच अब जेसी-421068एच),
01 सितम्बर 2008

हवलदार नोबत सिंह (सं. 14909357के अब जेसी-421069एल),
09 सितम्बर 2008 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2008 से दी जाती है)

हवलदार प्रितम चंद (सं. 14912670ए अब जेसी-421070ए),
01 सितम्बर 2008

हवलदार राज देव सिंह यादव (सं. 14914553एन अब जेसी-
421071एच), 04 सितम्बर 2008 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2008 से दी जाती है)

हवलदार मनी के (सं. 14913426एम अब जेसी-421072एल),
01 सितम्बर 2008

हवलदार तेज पाल (सं. 14914644एक्स अब जेसी-421073एन),
01 सितम्बर 2008

हवलदार योगेन्द्र सिंह (सं. 14915681एक्स अब जेसी-
421074डब्ल्यू), 28 सितम्बर 2008 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2008 से दी जाती है)

हवलदार रामु प्रसाद (सं. 14914037वाई अब जेसी-421075वाई),
01 सितम्बर 2008

हवलदार हवा सिंह (सं. 14914263डब्ल्यू अब जेसी-421076एफ),
01 सितम्बर 2008

हवलदार गोविन्द सिंह (सं. 14914003एल अब जेसी-421077के),
01 सितम्बर 2008

हवलदार बीरबल (सं. 14913152एम अब जेसी-421078एम),
01 सितम्बर 2008

हवलदार जसमिन्द्र सिंह (सं. 14916206एन अब जेसी-421079पी),
05 सितम्बर 2008 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2008 से दी जाती है)

हवलदार किशोरी प्रसाद (सं. 14914271पी अब जेसी-421080के),
07 सितम्बर 2008 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2008 से दी जाती है)

हवलदार जय पाल (सं. 14916805एन अब जेसी-421081एम),
08 सितम्बर 2008 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2008 से दी जाती है)

हवलदार राम मुर्ति (सं. 14914174एक्स अब जेसी-421082पी),
01 सितम्बर 2008

हवलदार नर सिंह (सं. 14914260एच अब जेसी-421083एक्स),
01 सितम्बर 2008

हवलदार राम प्रकाश यादव (सं. 14915268एफ अब जेसी-
421084ए), 08 सितम्बर 2008 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2008 से दी जाती है)

हवलदार जय सिंह (सं. 14915157के अब जेसी-421085एच),
07 सितम्बर 2008 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2008 से दी जाती है)

हवलदार विनोद कुमार (सं. 14915214ए अब जेसी-421086एल),
07 सितम्बर 2008 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2008 से दी जाती है)

हवलदार महीपाल सिंह (सं. 14916164एम अब जेसी-421087एन),
04 सितम्बर 2008 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2008 से दी जाती है)

हवलदार पबु सिंह (सं. 2989512एफ अब जेसी-421088डब्ल्यू),
17 सितम्बर 2008 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 02 सितम्बर 2008 से दी जाती है)

हवलदार प्रकाश चंद (सं. 14907409डब्ल्यू अब जेसी-421089वाई),
30 सितम्बर 2008 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 03 सितम्बर 2008 से दी जाती है)

हवलदार सुरेन्द्र सिंह (सं. 14912906के अब जेसी-421090एन),
18 सितम्बर 2008 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 15 सितम्बर 2008 से दी जाती है)

क्वचित कोर

नायब रिसालदार के रैंक में

दफादार श्री कुमार एस (सं. 15464339पी अब जेसी-242943के),
19 जून 2008 *

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 मई 2008 से दी जाती है)

दफादार अशोक कुमार सिंह (सं. 1075047एच अब जेसी-
242991के), 01 जून 2008

दफादार शिव सिंह (सं. 1075343एन अब जेसी-242992एम),
02 जून 2008 *

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 जून 2008 से दी जाती है)

दफादार चन्न सिंह भाटी (सं. 1077023एक्स अब जेसी-242996एच),
01 जून 2008

दफादार बिरेंद्र सिंह कुशवाह (सं. 1077396एल अब जेसी-
243003एल), 02 जून 2008 *

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 जून 2008 से दी जाती है)

दफादार जाधव अप्पासो भाउसो (सं. 1077498एफ अब जेसी-
243005डब्ल्यू), 02 जून 2008 *

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 जून 2008 से दी जाती है)

दफादार सुनील कुमार पान्डे (सं. 1098841एम अब जेसी-
243007एफ), 09 जुलाई 2008 *

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 जून 2008 से दी जाती है)

दफादार बिजेन्द्र सिंह (सं. 1084848एल अब जेसी-243013पी),
01 जुलाई 2008

दफादार राज कुमार (सं. 1084059वाई अब जेसी-243023वाई),
03 जून 2008 *

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 12 फरवरी 2008 से दी जाती है)

दफादार रवीन्द्रन नायर एम (सं. 1085302एक्स अब जेसी-
243024एफ), 05 जून 2008 *

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 03 मार्च 2008 से दी जाती है)

दफादार बलविन्दर सिंह (सं. 1083283वाई अब जेसी-243025के),
09 जून 2008 *

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2008 से दी जाती है)

दफादार जसविन्दर सिंह (सं. 1084473एक्स अब जेसी-243026एम),
06 जून 2008 *

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2008 से दी जाती है)

दफादार सतनाम सिंह (सं. 1086018एन अब जेसी-243027पी),
13 जून 2008 *

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2008 से दी जाती है)

दफादार हिमाने मोहन हरिबा (सं. 1086802एफ अब जेसी-243028एक्स), 31 मई 2008*

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2008 से दी जाती है)

दफादार शिवदन सिंह हाडा (सं. 1084180एम अब जेसी-243029ए), 17 जून 2008*

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मई 2008 से दी जाती है)

दफादार नरदेश्वर सिंह (सं. 1084446एन अब जेसी-243030पी), 11 जून 2008*

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मई 2008 से दी जाती है)

दफादार शत्रुघ्न सिंह (सं. 1086887एच अब जेसी-243031एक्स), 04 जून 2008*

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 11 मई 2008 से दी जाती है)

दफादार शेख अब्दुल रजाक (सं. 1076299एफ अब जेसी-243033एच), 21 जून 2008*

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2008 से दी जाती है)

दफादार तिरलोक चन्द (सं. 1084307के अब जेसी-243032ए), 07 जून 2008*

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2008 से दी जाती है)

दफादार राज सिंह (सं. 1082628एच अब जेसी-243034एल), 19 जून 2008*

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2008 से दी जाती है)

दफादार शिवा प्रताप सिंह (सं. 1084694के अब जेसी-243036डब्ल्यू), 19 जून 2008*

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2008 से दी जाती है)

दफादार मंजीत सिंह (सं. 1079595एक्स अब जेसी-243037वाई), 17 जून 2008*

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2008 से दी जाती है)

दफादार ओम प्रकाश शर्मा (सं. 1082370ए अब जेसी-243038एफ), 04 जून 2008*

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2008 से दी जाती है)

दफादार जगरूप सिंह (सं. 1084503के अब जेसी-243039के), 17 जून 2008*

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2008 से दी जाती है)

दफादार राम कुमार (सं. 1085843वाई अब जेसी-243040वाई), 09 जून 2008*

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2008 से दी जाती है)

दफादार राम कुमार (सं. 1082393एफ अब जेसी-243041एफ), 04 जून 2008*

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2008 से दी जाती है)

दफादार कृष्ण कुमार सिंह (सं. 1084670ए अब जेसी-243042के), 17 जून 2008*

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2008 से दी जाती है)

दफादार जॉयमन जोसफ (सं. 1087397एफ अब जेसी-243043एम), 04 जून 2008*

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2008 से दी जाती है)

दफादार रनबीर सिंह (सं. 1086039के अब जेसी-243044पी), 09 जून 2008*

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2008 से दी जाती है)

दफादार सतीश कुमार (सं. 1082891एन अब जेसी-243045एक्स), 09 जून 2008*

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2008 से दी जाती है)

दफादार लेख राम (सं. 1084659एफ अब जेसी-243046ए), 11 जून 2008*

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2008 से दी जाती है)

दफादार एस महालिंगम (सं. 1085839डब्ल्यू अब जेसी-243047एच), 09 जून 2008*

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2008 से दी जाती है)

दफादार बलबीर सिंह (सं. 1088454के अब जेसी-243048एल), 09 जून 2008*

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2008 से दी जाती है)

दफादार दिलीप कुमार एम एस (सं. 15464626वाई अब जेसी-243049एन), 12 जून 2008 *

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2008 से दी जाती है)

दफादार मारीमुथु के (सं. 15464790एफ अब जेसी-243050एच), 12 जून 2008 *

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2008 से दी जाती है)

दफादार बच्चू सिंह (सं. 1082270पी अब जेसी-243051एल), 20 जून 2008 *

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 04 जून 2008 से दी जाती है)

दफादार कुलवन्त सिंह (सं. 1083896वाई अब जेसी-243054वाई), 01 जुलाई 2008

दफादार बलबीर सिंह (सं. 1084366डब्ल्यू अब जेसी-243055एफ), 24 जून 2008 *

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 2008 से दी जाती है)

दफादार अर्जुन सिंह (सं. 1081772एल अब जेसी-243057एम), 19 जून 2008 *

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 2008 से दी जाती है)

दफादार चरन सिंह (सं. 1086589एम अब जेसी-243058पी), 26 जून 2008 *

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 15 मार्च 2008 से दी जाती है)

दफादार रामबीर सिंह (सं. 1082886एच अब जेसी-243060एम), 23 जून 2008 *

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2008 से दी जाती है)

दफादार नील्फा मल्लुर (सं. 1086009एम अब जेसी-243061पी), 23 जून 2008 *

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मई 2008 से दी जाती है)

दफादार सविन्दर सिंह (सं. 1083961एन अब जेसी-243062एक्स), 20 जून 2008 *

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 16 मई 2008 से दी जाती है)

दफादार रामबीर सिंह (सं. 1082271एक्स अब जेसी-243063ए), 23 जून 2008 *

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2008 से दी जाती है)

दफादार गुरमीत सिंह (सं. 1089592एक्स अब जेसी-243064एच), 18 जून 2008 *

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2008 से दी जाती है)

दफादार यशपाल सिंह (सं. 1082969एन अब जेसी-243065एल), 18 जून 2008 *

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2008 से दी जाती है)

दफादार रामेश्वर लाल (सं. 1082283एम अब जेसी-243067डब्ल्यू), 12 जून 2008 *

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2008 से दी जाती है)

दफादार माने अशोक नारायण (सं. 1086511एफ अब जेसी-243068वाई), 02 जुलाई 2008 *

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2008 से दी जाती है)

दफादार भूपेन्द्र सिंह (सं. 1089040के अब जेसी-243069एफ), 20 जून 2008 *

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2008 से दी जाती है)

दफादार सुरेन्द्र सिंह (सं. 1079059पी अब जेसी-243071वाई), 01 जुलाई 2008 *

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2008 से दी जाती है)

दफादार ओम प्रकाश सिंह (सं. 1082881के अब जेसी-243072एफ), 30 जून 2008 *

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 07 जून 2008 से दी जाती है)

दफादार सुरेन्द्र कुमार (सं. 1082919एच अब जेसी-243073के), 27 जून 2008 *

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 18 जून 2008 से दी जाती है)

दफादार असगर अली (सं. 1086126एक्स अब जेसी-243074एम), 02 जुलाई 2008 *

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2008 से दी जाती है)

दफादार नरेन्द्र सिंह (सं. 1088940एफ अब जेसी-243075पी), 02 जुलाई 2008 *

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2008 से दी जाती है)

दफादार शेर सिंह (सं. 1085405डब्ल्यू अब जेसी-243081एच),
01 जुलाई 2008

दफादार सज्जन सिंह (सं. 1085404एन अब जेसी-243082एल),
01 जुलाई 2008

दफादार बिनोदश्वर सिंह (सं. 1084529वाई अब जेसी-243083एन),
09 जुलाई 2008 *

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 जुलाई 2008 से दी जाती है)

दफादार डेनियल एम (सं. 1085153पी अब जेसी-243084डब्ल्यू),
07 जुलाई 2008 *

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 जुलाई 2008 से दी जाती है)

दफादार बलकार सिंह (सं. 1085646डब्ल्यू अब जेसी-243085वाई),
02 जुलाई 2008 *

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 जुलाई 2008 से दी जाती है)

दफादार देवेन्द्र सिंह (सं. 1086703वाई अब जेसी-243086एफ),
01 जुलाई 2008

दफादार लाल सिंह (सं. 1085973एफ अब जेसी-243088एम),
02 जुलाई 2008 *

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 जुलाई 2008 से दी जाती है)

दफादार गोरख पाल (सं. 1084207वाई अब जेसी-243090के),
01 जुलाई 2008

दफादार परकाश चन्द (सं. 1079087एफ अब जेसी-243092पी),
04 जुलाई 2008 *

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 जुलाई 2008 से दी जाती है)

दफादार राज बहादुर पाल (सं. 1098935के अब जेसी-242656ए),
03 मई 2008 *

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 जनवरी 2008 से दी जाती है)

दफादार राजिन्दर सिंह (सं. 1083373ए अब जेसी-242735पी),
15 फरवरी 2008 *

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 जनवरी 2008 से दी जाती है)

दफादार चन्दन सिंह (सं. 1079449एक्स अब जेसी-242772एच),
15 मार्च 2008 *

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 जनवरी 2008 से दी जाती है)

दफादार स्वरूप राम (सं. 1088995एल अब जेसी-242782एम),
05 मार्च 2008 *

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 फरवरी 2008 से दी जाती है)

दफादार राज कुमार सिंह (सं. 1082993के अब जेसी-242788एन),
28 अप्रैल 2008 *

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 मार्च 2008 से दी जाती है)

दफादार सेरामन इरमबोराके (सं. 1085263के अब जेसी-
242809वाई), 22 अप्रैल 2008 *

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 फरवरी 2008 से दी जाती है)

दफादार रमेश चन्द (सं. 1082068एफ अब जेसी-242810एन),
13 अप्रैल 2008 *

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 फरवरी 2008 से दी जाती है)

दफादार नरेश कुमार (सं. 1080953के अब जेसी-242814के), 20
मार्च 2008 *

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 फरवरी 2008 से दी जाती है)

दफादार बुलु हजारीका (सं. 1075959एफ अब जेसी-242821ए),
12 अप्रैल 2008 *

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 मार्च 2008 से दी जाती है)

दफादार सनदोखु राम (सं. 1084379एन अब जेसी-242830एफ),
15 अप्रैल 2008 *

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 जनवरी 2008 से दी जाती है)

दफादार हीरा सिंह (सं. 1082906एल अब जेसी-242841एन),
29 मार्च 2008 *

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 मार्च 2008 से दी जाती है)

दफादार अर्जुन सिंह (सं. 1083483पी अब जेसी-242842डब्ल्यू),
01 अप्रैल 2008 *

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 मार्च 2008 से दी जाती है)

दफादार दिनेश सिंह (सं. 1081896ए अब जेसी-242843वाई),
11 अप्रैल 2008 *

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 मार्च 2008 से दी जाती है)

- दफादार मंगत राम (सं. 1084381एल अब जेसी-242845के),
03 अप्रैल 2008*
- *(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 21 मार्च 2008 से दी जाती है)
- दफादार तरसेम सिंह (सं. 1082412एफ अब जेसी-242846एम),
13 अप्रैल 2008*
- *(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2008 से दी जाती है)
- दफादार प्रताप सिंह (सं. 1080490ए अब जेसी-242855एन),
13 अप्रैल 2008*
- *(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2008 से दी जाती है)
- दफादार ब्रज राज सिंह (सं. 1083068एन अब जेसी-242869एन),
13 अप्रैल 2008*
- *(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2008 से दी जाती है)
- दफादार बलराज सिंह कौण्डल (सं. 1081217एक्स अब जेसी-242872एन), 15 अप्रैल 2008*
- *(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 07 जनवरी 2008 से दी जाती है)
- दफादार धर्माना सूर्यनारायण (सं. 1085660एच अब जेसी-242873डब्ल्यू), 26 अप्रैल 2008*
- *(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 2008 से दी जाती है)
- दफादार गजराज सिंह यादव (सं. 1083647ए अब जेसी-242878पी),
17 अप्रैल 2008*
- *(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2008 से दी जाती है)
- दफादार बलराज सिंह (सं. 1080137एन अब जेसी-242879एक्स),
26 अप्रैल 2008*
- *(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 2008 से दी जाती है)
- दफादार राजन इ के (सं. 1085715एफ अब जेसी-242880एम),
19 अप्रैल 2008*
- *(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 2008 से दी जाती है)
- दफादार गोविन्द सिंह चौधरी (सं. 1081613एन अब जेसी-242881पी),
12 अप्रैल 2008*
- *(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 04 मार्च 2008 से दी जाती है)
- दफादार राजपाल सिंह (सं. 1076437एक्स अब जेसी-242882एक्स),
04 अप्रैल 2008*
- *(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 16 मार्च 2008 से दी जाती है)
- दफादार हरदेव सिंह लाकुर (सं. 1086711एक्स अब जेसी-242883ए),
06 अप्रैल 2008*
- *(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 25 मार्च 2008 से दी जाती है)
- दफादार गुरनाम सिंह (सं. 1077399वाई अब जेसी-242884एच),
04 अप्रैल 2008*
- *(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2008 से दी जाती है)
- दफादार चरनजीत सिंह (सं. 1081256डब्ल्यू अब जेसी-242885एल),
28 अप्रैल 2008*
- *(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2008 से दी जाती है)
- दफादार शीश राम (सं. 1081807डब्ल्यू अब जेसी-242886एन),
28 अप्रैल 2008*
- *(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2008 से दी जाती है)
- दफादार दलबीर सिंह (सं. 1078677एन अब जेसी-242887डब्ल्यू),
15 अप्रैल 2008*
- *(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2008 से दी जाती है)
- दफादार तरलोक सिंह (सं. 1082813डब्ल्यू अब जेसी-242888वाई),
05 अप्रैल 2008*
- *(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2008 से दी जाती है)
- दफादार रमेश कुमार (सं. 1079407एल अब जेसी-242889एफ),
15 अप्रैल 2008*
- *(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2008 से दी जाती है)
- दफादार मुहम्मद अन्वर अली (सं. 1075752एफ अब जेसी-242890डब्ल्यू), 04 अप्रैल 2008*
- *(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2008 से दी जाती है)
- दफादार प्रफुल्ला मोहन (सं. 1075976एफ अब जेसी-242893के),
16 अप्रैल 2008*
- *(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2008 से दी जाती है)

दफादार सुखदेव सिंह (सं. 1083423ए अब जेसी-242895पी),
08 मई 2008 *

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2008 से दी जाती है)

दफादार इन्दर सिंह (सं. 1086100एच अब जेसी-242896वाई),
29 अप्रैल 2008 *

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2008 से दी जाती है)

दफादार कृष्ण सिंह (सं. 1084793एम अब जेसी-242897ए),
29 अप्रैल 2008 *

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2008 से दी जाती है)

दफादार बाबु लाल (सं. 1083050एक्स अब जेसी-242898एच),
20 अप्रैल 2008 *

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2008 से दी जाती है)

दफादार धरमबीर सिंह (सं. 1079955एच अब जेसी-242899एल),
11 अप्रैल 2008 *

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2008 से दी जाती है)

दफादार गौतम सिंह (सं. 1082211एच अब जेसी-242900पी),
29 अप्रैल 2008 *

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2008 से दी जाती है)

दफादार मनेजर सिंह (सं. 1082575पी अब जेसी-242901एक्स),
20 अप्रैल 2008 *

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2008 से दी जाती है)

दफादार कमल किशोर (सं. 1081872डब्ल्यू अब जेसी-242902ए),
07 मई 2008 *

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2008 से दी जाती है)

दफादार अशोक कुमार (सं. 1087259ए अब जेसी-242903एच),
10 अप्रैल 2008 *

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2008 से दी जाती है)

दफादार सिराजुद्दीन ए (सं. 1085557एक्स अब जेसी-242907वाई),
28 अप्रैल 2008 *

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2008 से दी जाती है)

दफादार मन्जीत सिंह (सं. 1086166वाई अब जेसी-242908एफ),
14 मई 2008 *

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2008 से दी जाती है)

दफादार शिव दत्त (सं. 1083149एन अब जेसी-242909के),
10 मई 2008 *

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2008 से दी जाती है)

दफादार सुखचैन सिंह (सं. 1084724डब्ल्यू अब जेसी-242911एफ),
07 अप्रैल 2008 *

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2008 से दी जाती है)

दफादार मेहेन्द्र सिंह खड्गा (सं. 1098749एन अब जेसी-242912के),
17 अप्रैल 2008 *

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2008 से दी जाती है)

दफादार रामेश्वर सिंह (सं. 1087366एफ अब जेसी-242913एम),
06 अप्रैल 2008 *

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2008 से दी जाती है)

दफादार रणधीर सिंह (सं. 1084819डब्ल्यू अब जेसी-242914पी),
04 अप्रैल 2008 *

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2008 से दी जाती है)

दफादार चमन लाल (सं. 1087429वाई अब जेसी-242917एच),
06 अप्रैल 2008 *

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2008 से दी जाती है)

दफादार अमर नाथ (सं. 1083251डब्ल्यू अब जेसी-242915एक्स),
07 मई 2008 *

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2008 से दी जाती है)

दफादार लखविन्दर सिंह (सं. 1083599एल अब जेसी-242916ए),
07 मई 2008 *

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2008 से दी जाती है)

दफादार पी जया शंकर (सं. 15464257एम अब जेसी-242918एल),
05 अप्रैल 2008 *

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2008 से दी जाती है)

दफादार रनवीर (सं. 1087741एफ अब जेसी-242919एन), 15 अप्रैल 2008 *

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2008 से दी जाती है)

दफादार मोहिन्दर सिंह (सं. 1082190एक्स अब जेसी-242921एल), 14 अप्रैल 2008 *

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2008 से दी जाती है)

दफादार कशमीर सिंह (सं. 1083724के अब जेसी-242922एन), 14 अप्रैल 2008 *

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2008 से दी जाती है)

दफादार गकेश सिंह (सं. 1080473ए अब जेसी-242923डब्ल्यू), 28 अप्रैल 2008 *

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2008 से दी जाती है)

दफादार मोहिन्दर सिंह (सं. 1083522एच अब जेसी-242924वाई), 12 अप्रैल 2008 *

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2008 से दी जाती है)

दफादार मनोहर सिंह (सं. 1086311एल अब जेसी-242925एफ), 14 मई 2008 *

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2008 से दी जाती है)

दफादार राजवन्त सिंह (सं. 1083514के अब जेसी-242926के), 28 अप्रैल 2008 *

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2008 से दी जाती है)

दफादार नवीन कुमार चौधरी (सं. 1079100ए अब जेसी-242927एम), 10 अप्रैल 2008 *

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2008 से दी जाती है)

दफादार बलबीर सिंह (सं. 1081574ए अब जेसी-242928पी), 02 मई 2008 *

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मई 2008 से दी जाती है)

दफादार सुलेमान कटाट (सं. 1080411ए अब जेसी-242929एक्स), 08 मई 2008 *

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मई 2008 से दी जाती है)

दफादार बी चन्द्र बाबू नायडू (सं. 1081853एल अब जेसी-242930एम), 10 मई 2008 *

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मई 2008 से दी जाती है)

दफादार योगेन्द्र सिंह यादव (सं. 1082614एच अब जेसी-242931पी), 08 मई 2008 *

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मई 2008 से दी जाती है)

दफादार नरेश चन्द्र यादव (सं. 1082672एम अब जेसी-242932एक्स), 08 मई 2008 *

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मई 2008 से दी जाती है)

दफादार रघवीर सिंह (सं. 1081634के अब जेसी-242933ए), 01 मई 2008

दफादार चवन शिवाजी राजा राम (सं. 1081302ए अब जेसी-242934एच), 01 मई 2008

दफादार नारायण गनपत कन्से (सं. 1082196वाई अब जेसी-242935एल), 01 मई 2008

दफादार सोम दत्त (सं. 1082630ए अब जेसी-242936एल), 01 मई 2008

दफादार कुलवन्त सिंह (सं. 1086501एक्स अब जेसी-242937डब्ल्यू), 01 मई 2008

दफादार बलबीर सिंह (सं. 1079157पी अब जेसी-242938वाई), 03 मई 2008 *

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मई 2008 से दी जाती है)

दफादार देश राज सिंह (सं. 1082928के अब जेसी-242939एफ), 12 मई 2008 *

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मई 2008 से दी जाती है)

दफादार मदन लाल (सं. 1078485डब्ल्यू अब जेसी-242940डब्ल्यू), 10 मई 2008 *

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मई 2008 से दी जाती है)

दफादार हरी सरन (सं. 1086665एन अब जेसी-242941वाई), 03 मई 2008 *

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मई 2008 से दी जाती है)

दफादार बोटू राम (सं. 1083875एच अब जेसी-242942एफ),
02 मई 2008 *

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 मई 2008 से दी जाती है)

दफादार सुरैन सिंह (सं. 1083812ए अब जेसी-242944एम), 07 मई
2008 *

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 मई 2008 से दी जाती है)

दफादार वीर सिंह (सं. 1085241एल अब जेसी-242945पी), 05 मई
2008 *

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 मई 2008 से दी जाती है)

दफादार बेद राम (सं. 1085861एफ अब जेसी-242946एक्स),
03 मई 2008 *

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 मई 2008 से दी जाती है)

दफादार सुख देव सिंह (सं. 1083198डब्ल्यू अब जेसी-242947ए),
07 मई 2008 *

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 मई 2008 से दी जाती है)

दफादार बलजीत सिंह (सं. 1083346डब्ल्यू अब जेसी-242948एच),
05 मई 2008 *

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 मई 2008 से दी जाती है)

दफादार दीनू खान (सं. 1086494एम अब जेसी-242949एल),
12 मई 2008 *

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 मई 2008 से दी जाती है)

दफादार केशो दास (सं. 1087120एच अब जेसी-242950ए), 12 मई
2008 *

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 मई 2008 से दी जाती है)

दफादार सुरिन्दर सिंह (सं. 1084453के अब जेसी-242951एच),
01 मई 2008

दफादार राकेश कुमार (सं. 1083073वाई अब जेसी-242952एल),
10 मई 2008 *

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 मई 2008 से दी जाती है)

दफादार रघुबीर सिंह (सं. 1078554एफ अब जेसी-242892एफ),
14 अप्रैल 2008 *

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2008 से दी जाती है)

दफादार प्रमोद कुमार (सं. 1078015एल अब जेसी-242874वाई),
01 मई 2008 *

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 17 अक्टूबर 2007 से दी जाती है)

दफादार दशरथ सिंह राठौड़ (सं. 1084466एफ अब जेसी-242833पी),
19 अप्रैल 2008 *

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 जनवरी 2008 से दी जाती है)

दफादार करनैल सिंह (सं. 1081501एन अब जेसी-242826वाई),
10 मार्च 2008 *

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 मार्च 2008 से दी जाती है)

दफादार शमशेर सिंह (सं. 1083371पी अब जेसी-242748एम),
14 फरवरी 2008 *

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 फरवरी 2008 से दी जाती है)

दफादार श्याम कुमार ओझा (सं. 1077924के अब जेसी-
242803एक्स), 13 मई 2008 *

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 जनवरी 2008 से दी जाती है)

दफादार सुरजीत सिंह (सं. 1084197ए अब जेसी-242862के),
23 मई 2008 *

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2008 से दी जाती है)

दफादार रामालो राम (सं. 1078556एम अब जेसी-242877एम),
12 मई 2008 *

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 फरवरी 2008 से दी जाती है)

दफादार हवा सिंह (सं. 1079938एच अब जेसी-242891वाई),
13 मई 2008 *

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2008 से दी जाती है)

दफादार रविन्दर (सं. 1082922एच अब जेसी-242894एम),
29 अप्रैल 2008 *

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2008 से दी जाती है)

दफादार रंजित सिंघा (सं. 1082236पी अब जेसी-242910वाई),
12 मई 2008 *

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2008 से दी जाती है)।

दफादार परदीप कुमार (सं. 1083157एम अब जेसी-242920एच),
19 मई 2008 *

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2008 से दी जाती है)।

दफादार प्रदीप कुमार (सं. 1083481के अब जेसी-242953एन),
12 मई 2008 *

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मई 2008 से दी जाती है)।

दफादार बाबु सिंह (सं. 1083484एक्स अब जेसी-242954डब्ल्यू),
12 मई 2008 *

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मई 2008 से दी जाती है)।

दफादार जगतार सिंह (सं. 1082173एक्स अब जेसी-242969वाई),
23 मई 2008 *

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 03 मार्च 2008 से दी जाती है)।

दफादार कृष्णन के (सं. 1085708एल अब जेसी-242970एन),
26 मई 2008 *

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 2008 से दी जाती है)।

दफादार विजयपाल सिंह (सं. 1085495एच अब जेसी-242973एफ),
30 मई 2008 *

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2008 से दी जाती है)।

दफादार रामवचन सिंह (सं. 1081580एन अब जेसी-242974के),
17 मई 2008 *

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2008 से दी जाती है)।

दफादार गंगना एच (सं. 1086472एन अब जेसी-242975एम),
19 मई 2008 *

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2008 से दी जाती है)।

दफादार विजय पाल सिंह चौहान (सं. 1086730एच अब जेसी-242976पी), 29 मई 2008 *

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2008 से दी जाती है)।

दफादार विष्णु कुमार सिंह (सं. 1082203के अब जेसी-242977एक्स),
29 मई 2008 *

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2008 से दी जाती है)।

दफादार जुगराज सिंह (सं. 1084149ए अब जेसी-242979एच),
16 मई 2008 *

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मई 2008 से दी जाती है)।

दफादार श्री कुमार पी वी (सं. 1085766पी अब जेसी-242980एक्स),
26 मई 2008 *

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मई 2008 से दी जाती है)।

दफादार गांधी गुल्लीपल्ली (सं. 1546386के अब जेसी-242981ए),
27 मई 2008 *

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मई 2008 से दी जाती है)।

दफादार सुखविन्दर सिंह (सं. 1084570पी अब जेसी-242982एच),
27 मई 2008 *

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मई 2008 से दी जाती है)।

दफादार मेघ सिंह राजपूत (सं. 1086889एन अब जेसी-242983एल),
21 मई 2008 *

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मई 2008 से दी जाती है)।

दफादार हरभजन सिंह (सं. 1085895पी अब जेसी-242984एन),
10 जून 2008 *

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मई 2008 से दी जाती है)।

दफादार हरजीत सिंह (सं. 1082011एम अब जेसी-242985डब्ल्यू),
25 मई 2008 *

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 05 मई 2008 से दी जाती है)।

दफादार सोम दत्त यादव (सं. 1082067वाई अब जेसी-242986वाई),
26 मई 2008 *

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 14 मई 2008 से दी जाती है)।

दफादार दलपत सिंह (सं. 1098668एन अब जेसी-242987एफ),
10 जून 2008 *

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 14 मई 2008 से दी जाती है)।

दफादार सैतान सिंह (सं. 1087545एफ अब जेसी-242988के),
01 जून 2008

दफादार अतिराज सिंह (सं. 1080239के अब जेसी-242989एम),
05 जून 2008*

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 जून 2008 से दी जाती है)।

दफादार लक्ष्मी चंद (सं. 1082273एच अब जेसी-242993पी),
02 जून 2008*

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 जून 2008 से दी जाती है)।

दफादार गुरमेल सिंह (सं. 1087106डब्ल्यू अब जेसी-242997एल),
03 जून 2008*

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 जून 2008 से दी जाती है)।

दफादार मदन लाल डाका (सं. 1080038एल अब जेसी-
242999डब्ल्यू), 07 जून 2008*

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 जून 2008 से दी जाती है)।

दफादार राशिद मोहम्मद (सं. 1077183एक्स अब जेसी-
243000एक्स), 07 जून 2008*

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 जून 2008 से दी जाती है)।

दफादार जय सिंह यादव (सं. 1082686एम अब जेसी-243001ए),
06 जून 2008*

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 जून 2008 से दी जाती है)।

दफादार जय सिंह (सं. 1083103एल अब जेसी-243002एच),
06 जून 2008*

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 जून 2008 से दी जाती है)।

दफादार हरि प्रसाद यादव (सं. 1078016एन अब जेसी-243004एन),
01 जून 2008

दफादार करम वीर (सं. 1083392एल अब जेसी-243006वाई),
06 जून 2008*

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 जून 2008 से दी जाती है)।

दफादार श्री भगवान (सं. 1084849एन अब जेसी-243008के),
01 जून 2008

दफादार जय भगवान (सं. 1083348एफ अब जेसी-243009एम),
02 जून 2008*

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 जून 2008 से दी जाती है)।

दफादार भगवान सिंह (सं. 1087666एच अब जेसी-243011के),
02 जून 2008*

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 जून 2008 से दी जाती है)।

दफादार सुरेश (सं. 1088311के अब जेसी-243012एम), 02 जून
2008*

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 जून 2008 से दी जाती है)।

जे राय चौधरी
अवर सचिव

सं. 120, दिनांक 12 फरवरी 2009--राष्ट्रपति, निम्नलिखित पदोन्नतियाँ
करते हैं :--

नियमित सेना

इन्फैंट्री

डोगरा रेजिमेन्ट

सूबेदार मेजर के रैंक में

सूबेदार बख्शी राम (जेसी-519255एक्स), 20 अगस्त 2008+

+(सूबेदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 जुलाई 2008 से)।

सूबेदार दिनेश सिंह (जेसी-519461एफ), 02 सितम्बर 2008+

+(सूबेदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 अगस्त 2008 से)।

सूबेदार के रैंक में

नायब सूबेदार सुरेश कुमार (जेसी-520228ए), 08 अगस्त 2008+

+(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता
01 जनवरी 2008 से)।

नायब सूबेदार रक्षपाल सिंह (जेसी-520212पी), 04 मई 2008+

+(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता
01 फरवरी 2008 से)।

नायब सूबेदार रतन लाल बंसल (जेसी-520240एफ), 08 अगस्त
2008+

+(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता
01 फरवरी 2008 से)।

नायब सूबेदार नरपत राम (जेसी-520320वाई), 19 अगस्त 2008+
+(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता
29 मई 2008 से)।

नायब सूबेदार रमेश कुमार (जेसी-520148एच), 02 अगस्त 2008+
+(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता
01 जून 2008 से)।

नायब सूबेदार सिद्धार्थ कुमार (जेसी-520349एफ), 04 जुलाई 2008+
+(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता
01 जून 2008 से)।

नायब सूबेदार ध्रुव सिंह (जेसी-520333डब्ल्यू), 11 अगस्त 2008+
+(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता
01 जून 2008 से)।

नायब सूबेदार चमन लाल (जेसी-520334वाई), 25 अगस्त 2008+
+(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता
01 जून 2008 से)।

नायब सूबेदार खेम चन्द (जेसी-520315एन), 31 अगस्त 2008+
+(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता
01 जून 2008 से)।

नायब सूबेदार राकेश कुमार (जेसी-520356एक्स), 31 अगस्त 2008+
+(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता
01 जून 2008 से)।

नायब सूबेदार नरेन्द्र सिंह (जेसी-520346एन), 22 सितम्बर 2008+
+(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता
01 जून 2008 से)।

नायब सूबेदार प्रताप सिंह (जेसी-520321एफ), 04 अगस्त 2008+
+(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता
01 जून 2008 से)।

नायब सूबेदार अशोक कुमार (जेसी-520359एल), 31 अगस्त 2008+
+(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता
01 जून 2008 से)।

नायब सूबेदार बलदेव राम (जेसी-520366एफ), 04 सितम्बर 2008+
-(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता
01 जून 2008 से)।

नायब सूबेदार अजित लाल (जेसी-520371एम), 29 अगस्त 2008+
+(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता
01 जून 2008 से)।

नायब सूबेदार रविन्द्र प्रकाश (जेसी-520394एन), 16 अगस्त 2008+
+(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता
01 जून 2008 से)।

नायब सूबेदार मेहर सिंह (जेसी-520381डब्ल्यू), 04 सितम्बर 2008+
+(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता
01 जून 2008 से)।

नायब सूबेदार रोमेश सिंह (जेसी-520383एफ), 10 अगस्त 2008+
+(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता
01 जून 2008 से)।

नायब सूबेदार बलवन्त सिंह (जेसी-520398के), 03 अगस्त 2008+
+(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता
01 जून 2008 से)।

नायब सूबेदार राज कुमार (जेसी-520423एक्स), 16 अगस्त 2008+
+(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता
01 जून 2008 से)।

नायब सूबेदार सुरेन्द्र सिंह (जेसी-520431डब्ल्यू), 10 अगस्त 2008+
+(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता
01 जून 2008 से)।

नायब सूबेदार प्रितम चन्द (जेसी-520448के), 22 अगस्त 2008+
+(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता
01 जून 2008 से)।

नायब सूबेदार बसंत सिंह (जेसी-520490एच), 13 अगस्त 2008+
+(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता
01 जून 2008 से)।

नायब सूबेदार प्रेम चन्द (जेसी-520444एन), 09 अगस्त 2008+
+(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता
27 जून 2008 से)।

नायब सूबेदार चिन्त राम (जेसी-519904एक्स), 02 सितम्बर 2008+
+(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता
01 जुलाई 2008 से)।

नायब सूबेदार हुकम चन्द (जेसी-520200ए), 20 सितम्बर 2008+
+(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता
01 सितम्बर 2008 से)।

नायब सूबेदार नन्द लाल (जेसी-520412एल), 01 सितम्बर 2008
सूबेदार लिपिक के रैंक में

नायब सूबेदार लिपिक रोमेश चन्द (जेसी-520220एन), 26 जुलाई
2008+

+(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता
01 जुलाई 2008 से)।

कुमाऊँ रेजिमेन्ट

सूबेदार मेजर के पद में

सूबेदार चंचल सिंह, एससी (जेसी-539054ए), 02 अप्रैल 2008+
01 अप्रैल 2008*

*(सूबेदार मेजर के पद में ज्येष्ठता, वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले
बिना 01 अप्रैल 2008 से दी गई है)।

सूबेदार रघबीर सिंह (जेसी-538859एल), 04 सितम्बर 2008/
01 सितम्बर 2008 *

*(सूबेदार मेजर के पद में ज्येष्ठता, वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना 01 सितम्बर 2008 से दी गई है)

सूबेदार राजेन्द्र सिंह अधिकारी (जेसी-539233ए), 02 सितम्बर
2008/01 सितम्बर 2008 *

*(सूबेदार मेजर के पद में ज्येष्ठता, वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना 01 सितम्बर 2008 से दी गई है)

सूबेदार देविन्द्र सिंह (जेसी-539223डब्ल्यू), 03 अक्टूबर 2008/
01 अक्टूबर 2008 *

*(सूबेदार मेजर के पद में ज्येष्ठता, वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना 01 अक्टूबर 2008 से दी गई है)

दि राजपूत रेजिमेन्ट

सूबेदार मेजर के रूप में

सूबेदार मेजर कप्तान सिंह (जेसी-478836एक्स), 02 सितम्बर 2008

सूबेदार मेजर श्याम बाबू सिंह (जेसी-478961एफ), 08 अक्टूबर
2008

सूबेदार मेजर मोहन पाल (जेसी-478692ए), 11 अक्टूबर 2008

सूबेदार लिपिक के रूप में

सूबेदार लिपिक बैशाख लाल (जेसी-479718डब्ल्यू), 01 अक्टूबर
2008

सूबेदार के रूप में

सूबेदार मोहन कुमार सिंह (जेसी-479528के), 01 दिसम्बर 2006

सूबेदार बेद पाल (जेसी-479564पी), 01 अगस्त 2007

सूबेदार चतराराम (जेसी-479433के), 01 सितम्बर 2007

सूबेदार परवेश कुमार (जेसी-479614पी), 01 दिसम्बर 2007

सूबेदार दिला राम (जेसी-479684एन), 01 जनवरी 2008

सूबेदार गोकुल राम (जेसी-479378वाई), 01 फरवरी 2008

सूबेदार महेश पाल (जेसी-479696एच), 01 फरवरी 2008

सूबेदार महावीर सिंह (जेसी-479711एम), 01 फरवरी 2008

सूबेदार करन सिंह (जेसी-479734एन), 01 फरवरी 2008

सूबेदार गिरधारी सिंह (जेसी-479749डब्ल्यू), 01 फरवरी 2008

सूबेदार महेन्द्र सिंह (जेसी-479573डब्ल्यू), 01 मार्च 2008

सूबेदार सूरज मल (जेसी-479623डब्ल्यू), 01 अप्रैल 2008

सूबेदार नरेन्द्र सिंह (जेसी-479631पी), 01 अप्रैल 2008

सूबेदार भरत सिंह (जेसी-479656वाई), 01 अप्रैल 2008

सूबेदार तीर्थ पाल सिंह (जेसी-479616ए), 01 जून 2008

सूबेदार साधू राम वर्मा (जेसी-479624वाई), 01 जून 2008

सूबेदार करन सिंह (जेसी-479761एक्स), 01 जून 2008

सूबेदार महेन्द्र (जेसी-479762ए), 01 जून 2008

सूबेदार रसाल सिंह कसाना (जेसी-479763एच), 01 जून 2008

सूबेदार राम फल सिंह (जेसी-479780एच), 01 जून 2008

सूबेदार पृथ्वी सिंह राठौर (जेसी-479798वाई), 01 जून 2008

सूबेदार महाराज सिंह (जेसी-479805के), 01 जून 2008

सूबेदार दया निधान द्विवेदी (जेसी-479822के), 01 जून 2008

सूबेदार राजेन्द्र सिंह भदौरिया (जेसी-479840एम), 01 जून 2008

सूबेदार बलबीर सिंह (जेसी-479842एक्स), 01 जून 2008

सूबेदार वासुदेव (जेसी-479864डब्ल्यू), 01 जून 2008

सूबेदार सत्य कुमार नागर (जेसी-479865वाई), 01 जून 2008

सूबेदार राजेन्द्र सिंह (जेसी-479873एक्स), 01 जून 2008

सूबेदार ओम प्रकाश (जेसी-479885एम), 01 जून 2008

सूबेदार बलदेव राज शर्मा (जेसी-479886पी), 01 जून 2008

सूबेदार धर्मपाल गुर्जर (जेसी-479897एफ), 01 जून 2008

सूबेदार ओम प्रकाश (जेसी-479625एफ), 01 जुलाई 2008

सूबेदार रविन्द्र सिंह (जेसी-479632एक्स), 01 जुलाई 2008

सूबेदार महावीर प्रसाद (जेसी-479726पी), 01 जुलाई 2008

सूबेदार बीरेन्द्र सिंह यादव (जेसी-479736वाई), 01 जुलाई 2008

सूबेदार हरकेश कुमार (जेसी-479751एन), 01 जुलाई 2008

सूबेदार दयाराम यादव (जेसी-479773एम), 01 जुलाई 2008

सूबेदार हमिद हसन (जेसी-479776ए), 01 जुलाई 2008

सूबेदार बल सिंह (जेसी-479811के), 01 जुलाई 2008

सूबेदार मोहम्मद जमाल खान (जेसी-479813एच), 01 जुलाई 2008

सूबेदार सरवेश सिंह (जेसी-479837एम), 01 जुलाई 2008

सूबेदार महेन्द्र कुमार (जेसी-479856एक्स), 18 जुलाई 2008

सूबेदार गोरधन लाल (जेसी-479714ए), 01 अगस्त 2008

सूबेदार छविनाथ सिंह (जेसी-479764एल), 01 अगस्त 2008

सूबेदार हुकम सिंह (जेसी-479800एल), 01 अगस्त 2008

सूबेदार अमर सिंह (जेसी-479858एच), 01 अगस्त 2008

सूबेदार महेश सिंह (जेसी-479652एल), 10 अगस्त 2008

सूबेदार बृज पाल सिंह (जेसी-479756एम), 01 सितम्बर 2008

सूबेदार श्याम पाल सिंह (जेसी-479770वाई), 01 सितम्बर 2008

सूबेदार राजबीर सिंह (जेसी-479807पी), 01 सितम्बर 2008
 सूबेदार यशपाल सिंह (जेसी-479871एम), 01 सितम्बर 2008/
 01 जुलाई 2007
 (ज्येष्ठता 01 जुलाई 2007 से वेतन तथा भत्ते पर प्रभाव डाले बिना)
 सूबेदार बिजेन्द्र वीर सिंह (जेसी-479904एम), 01 सितम्बर 2008
 सूबेदार राजा राम (जेसी-479906एक्स), 01 सितम्बर 2008
 सूबेदार इमराल इमरान अहमद खान (जेसी-479663एक्स),
 01 अक्टूबर 2008
 सूबेदार मोहम्मद महरूफ एस सी (जेसी-479667एन), 01 अक्टूबर
 2008

सिख रेजिमेंट

सूबेदार मेजर के रैंक में

सूबेदार जसवंत सिंह (जेसी-498693के), 01 अक्टूबर 2008
 सूबेदार सुखविंदर सिंह (जेसी-498699एल), 01 अक्टूबर 2008

सूबेदार के रैंक में

नायब सूबेदार बलविंदर सिंह (जेसी-499699एक्स), 01 अक्टूबर
 2008
 (सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता
 01 अप्रैल 2008)
 नायब सूबेदार गुरमल सिंह (जेसी-499625एच), 22 सितम्बर 2008
 (सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता
 01 जून 2008)
 नायब सूबेदार सुबेग सिंह (जेसी-499544एच), 08 सितम्बर 2008
 (सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता
 01 जुलाई 2008)
 नायब सूबेदार सविंदर सिंह (जेसी-499662डब्ल्यू), 08 सितम्बर 2008
 (सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता
 01 जुलाई 2008)
 नायब सूबेदार बलवीर सिंह (जेसी-499725एन), 08 सितम्बर 2008
 (सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता
 01 जुलाई 2008)
 नायब सूबेदार मोहबत सिंह (जेसी-499730वाई), 03 अक्टूबर 2008
 (सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता
 01 जुलाई 2008)
 नायब सूबेदार बृट सिंह (जेसी-499597एफ), 22 सितम्बर 2008
 (सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता
 01 अगस्त 2008)

नायब सूबेदार संजीव सिंह (जेसी-499577एन), 21 सितम्बर 2008
 (सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता
 22 अगस्त 2008)
 नायब सूबेदार परमजीत सिंह (जेसी-499355एल), 24 सितम्बर 2008
 (सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता
 01 सितम्बर 2008)
 नायब सूबेदार शमशेर सिंह (जेसी-499366एल), 22 सितम्बर 2008
 (सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता
 01 सितम्बर 2008)
 नायब सूबेदार समित्त सिंह (जेसी-499750एम), 03 अक्टूबर 2008
 (सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता
 01 सितम्बर 2008)

सूबेदार लिपिक के रैंक में

नायब सूबेदार लिपिक अकाश अली मोलिक (जेसी-499506एम),
 01 सितम्बर 2008
 नायब सूबेदार लिपिक यादविंदर सिंह (जेसी-499539एक्स),
 01 सितम्बर 2008
 नायब सूबेदार लिपिक मोहिंदर कुमार (जेसी-499529एन), 01 अक्टूबर
 2008
 नायब सूबेदार लिपिक विरेंद्र प्रकाश शर्मा (जेसी-499561एच),
 01 अक्टूबर 2008

जाट रेजिमेंट

सूबेदार के रैंक में

नायब सूबेदार राम विरेश (जेसी-489306एच), 01 जनवरी 2007
 नायब सूबेदार निरंजन सिंह (जेसी-489345एफ), 26 जनवरी 2007 *
 *(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता
 01 जनवरी 2007 से दी जाएगी)
 नायब सूबेदार नन्द राम यादव (जेसी-489353ए), 01 जनवरी 2007
 नायब सूबेदार देवेन्द्र कुमार (जेसी-489365पी), 01 जनवरी 2007
 नायब सूबेदार बनवारी लाल जाट (जेसी-489457एफ), 01 जनवरी
 2007
 नायब सूबेदार सूखा राम (जेसी-489439वाई), 06 मार्च 2007 *
 *(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता
 01 जनवरी 2007 से दी जाएगी)
 नायब सूबेदार चाँदवीर सिंह (जेसी-489446पी), 01 जनवरी 2007
 नायब सूबेदार मंगला राम (जेसी-489470एल), 01 जनवरी 2007
 नायब सूबेदार विजय सिंह, एस एम (जेसी-489505डब्ल्यू), 01 जनवरी
 2007

नायब सूबेदार बलशेर (जेसी-489544पी), 20 फरवरी 2007 *

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2007 से दी जाएगी)

नायब सूबेदार महिपाल सिंह (जेसी-489574एम), 01 जनवरी 2007

नायब सूबेदार रामफल सिंह (जेसी-489557एम), 01 जनवरी 2007

नायब सूबेदार धरमवीर सिंह (जेसी-489629एल), 01 जनवरी 2007

नायब सूबेदार सुरेन्द्र सिंह (जेसी-489630ए), 01 जनवरी 2007

नायब सूबेदार बलबीर सिंह (जेसी-489639पी), 20 जनवरी 2007 *

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2007 से दी जाएगी)

नायब सूबेदार अमर कुमार (जेसी-489657एक्स), 01 जनवरी 2007

नायब सूबेदार उमेद सिंह (जेसी-489458के), 01 फरवरी 2007

नायब सूबेदार मौंगा राम (जेसी-489461के), 12 जून 2007 *

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 2007 से दी जाएगी)

नायब सूबेदार पुरखा राम (जेसी-489507एफ), 01 फरवरी 2007

नायब सूबेदार बलजीत सिंह (जेसी-489582एल), 01 फरवरी 2007

नायब सूबेदार विजय सिंह (जेसी-489590के), 21 मई 2007 *

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 2007 से दी जाएगी)

नायब सूबेदार जरमन लाल (जेसी-489619एफ), 01 फरवरी 2007

नायब सूबेदार जय सिंह (जेसी-489642पी), 01 फरवरी 2007

नायब सूबेदार सुखबीर (जेसी-489644ए), 01 जून 2007 *

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 2007 से दी जाएगी)

नायब सूबेदार बिरमा राम (जेसी-489645एच), 01 जून 2007 *

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 2007 से दी जाएगी)

नायब सूबेदार ओमप्रकाश वर्मा (जेसी-489646एल), 01 जून 2007 *

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 2007 से दी जाएगी)

नायब सूबेदार गुनपाल (जेसी-489659एच), 01 जून 2007 *

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 2007 से दी जाएगी)

नायब सूबेदार दुली चन्द (जेसी-489677एल), 18 सितम्बर 2007 *

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 2007 से दी जाएगी)

नायब सूबेदार ईश्वर सिंह (जेसी-489685के), 01 जून 2007 *

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 2007 से दी जाएगी)

नायब सूबेदार बहादुर सिंह (जेसी-489591एम), 11 मार्च 2007 *

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 03 फरवरी 2007 से दी जाएगी)

नायब सूबेदार तारा चन्द चौधरी (जेसी-489623के), 05 जुलाई 2007 *

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 21 फरवरी 2007 से दी जाएगी)

नायब सूबेदार झाबरमल पवाडिया (जेसी-489372एल), 01 मार्च 2007

नायब सूबेदार गुरनाम सिंह (जेसी-489516एच), 20 अप्रैल 2007 *

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 2007 से दी जाएगी)

नायब सूबेदार जगदीश प्रसाद (जेसी-489545एक्स), 01 मार्च 2007

नायब सूबेदार भिक्की सिंह (जेसी-489508के), 01 मार्च 2007

नायब सूबेदार कप्तान सिंह हन्सावत (जेसी-489595एच), 01 मार्च 2007

नायब सूबेदार कवर सैन (जेसी-489568वाई), 09 जुलाई 2007 *

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 2007 से दी जाएगी)

नायब सूबेदार वीर सिंह (जेसी-489584डब्ल्यू), 01 मार्च 2007

नायब सूबेदार रूपेन्द्र सिंह (जेसी-489585वाई), 01 मार्च 2007

नायब सूबेदार वजीर सिंह (जेसी-489558पी), 01 मार्च 2007

नायब सूबेदार रामदीन चौधरी (जेसी-489569एफ), 01 मार्च 2007

नायब सूबेदार नारायण लाल चौधरी (जेसी-489627ए), 01 मार्च 2007

नायब सूबेदार जले सिंह (जेसी-489690पी), 01 जून 2007 *

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 2007 से दी जाएगी)

नायब सूबेदार राजेन्द्र कुमार सिंह (जेसी-489667एफ), 01 जून 2007 *

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 2007 से दी जाएगी)

नायब सूबेदार बीरबल सिंह (जेसी-489660एक्स), 01 जून 2007 *

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 2007 से दी जाएगी)

नायब सूबेदार मदन सिंह (जेसी-489702वाई), 18 अक्टूबर 2007 *

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 2007 से दी जाएगी)

नायब सूबेदार उत्तम सिंह (जेसी-489739ए), 01 जून 2007 *

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 2007 से दी जाएगी)

नायब सूबेदार राम सिंह (जेसी-489597एन), 14 मई 2007 *

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 11 मार्च 2007 से दी जाएगी)

सूबेदार (लिपिक) के रैंक में

नायब सूबेदार (लिपिक) राधा कृष्णन नायर जे (जेसी-489361वाई), 01 मार्च 2008

नायब सूबेदार (लिपिक) महावीर प्रसाद यादव (जेसी-489362एफ), 01 मार्च 2008

नायब सूबेदार (लिपिक) रणधीर सिंह (जेसी-489449एच), 01 अप्रैल 2008

पंजाब रजिमेंट

सूबेदार मेजर के रैंक में

सूबेदार रोमेश सिंह (जेसी-428902वाई), 01 अक्टूबर 2008

सूबेदार सुखदेव चौहान (जेसी-429191डब्ल्यू), 01 अक्टूबर 2008

सूबेदार देविन्दर कुमार परिदा (जेसी-429117पी), 01 नवम्बर 2008

सूबेदार के रैंक में

नायब सूबेदार सुच्चा सिंह (जेसी-429986के), 01 जून 2008

नायब सूबेदार हन्स राज (जेसी-430074एक्स), 01 जून 2008

नायब सूबेदार सुभाष चंद (जेसी-430132डब्ल्यू), 01 जून 2008

नायब सूबेदार मोहन लाल (जेसी-429931ए), 24 जून 2008

नायब सूबेदार जंग बहादुर सिंह (जेसी-429865एच), 01 अक्टूबर 2008

नायब सूबेदार नरिन्दर सिंह (जेसी-429892एम), 01 अक्टूबर 2008

नायब सूबेदार सतपाल सिंह (जेसी-429964एल), 01 अक्टूबर 2008

नायब सूबेदार सुरिन्दर सिंह (जेसी-429991पी), 01 अक्टूबर 2008

सूबेदार गोपाल सिंह, एस एम (जेसी-429187एन), 01 अक्टूबर 2008

सूबेदार के रैंक में

नायब सूबेदार जगदीश सिंह (जेसी-429824वाई), 01 दिसम्बर 2007

नायब सूबेदार चरन सिंह (जेसी-430051डब्ल्यू), 01 जून 2008

नायब सूबेदार नथू राम (जेसी-430024एम), 01 अगस्त 2008

नायब सूबेदार बलबीर सिंह (जेसी-429895ए), 01 अक्टूबर 2008

नायब सूबेदार कन्चन कुमार (जेसी-429977एच), 01 अक्टूबर 2008

नायब सूबेदार तेन सिंह (जेसी-429990एम), 01 अक्टूबर 2008

नायब सूबेदार हरमेश कुमार (जेसी-430069एम), 01 अक्टूबर 2008

नायब सूबेदार हरबन्स सिंह (जेसी-429590ए), 26 सितम्बर 2008

नायब सूबेदार सरबन सिंह (जेसी-430016एन), 01 अक्टूबर 2008

नायब सूबेदार हीरा लाल (जेसी-430125ए), 01 अक्टूबर 2008

सूबेदार मेजर के रैंक में

सूबेदार सतीश कुमार (जेसी-428977डब्ल्यू), 01 नवम्बर 2008

सूबेदार रूप लाल (जेसी-429298एल), 01 नवम्बर 2008

सूबेदार सकल्लर सिंह (जेसी-429234ए), 01 नवम्बर 2008

सूबेदार के रैंक में

नायब सूबेदार हरपिन्दर सिंह (जेसी-429687एल), 01 अक्टूबर 2008

नायब सूबेदार शमशेर सिंह (जेसी-429773डब्ल्यू), 01 अक्टूबर 2008

नायब सूबेदार परगट सिंह (जेसी-429975एक्स), 01 नवम्बर 2008

नायब सूबेदार कुलदीप चन्द (जेसी-430038एम), 01 नवम्बर 2008

नायब सूबेदार जसदेव सिंह नागरा (जेसी-430101डब्ल्यू), 01 नवम्बर 2008

नायब सूबेदार (लिपिक) के रैंक में

हवलदार (लिपिक) टाटे बजरंग कृष्णा (सं. 2479800एक्स अब जेसी-430414पी), 01 अगस्त 2008

हवलदार (लिपिक) सुरेश चन्द्रा वर्मा (सं. 2479816एच अब जेसी-430429एक्स), 01 अक्टूबर 2008

हवलदार (लिपिक) अजित कुमार करमाकर (सं. 2479823वाई अब जेसी-430440डब्ल्यू), 01 अक्टूबर 2008

हवलदार (लिपिक) राज सिंह (सं. 2479883एन अब जेसी-430415एक्स), 01 अक्टूबर 2008

हवलदार (लिपिक) बलबीर सिंह (सं. 2480615डब्ल्यू अब जेसी-430441वाई), 01 नवम्बर 2008

नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार मनजीत सिंह (सं. 2480057ए अब जेसी-430450ए), 20 अक्टूबर 2008

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन तथा भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2008 से दी जाती है)

हवलदार सन्त राम (सं. 2481224एक्स अब जेसी-430451एच), 07 नवम्बर 2008

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन तथा भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2008 से दी जाती है)

हवलदार मलकीत सिंह (सं. 2479386के अब जेसी-430452एल), 01 नवम्बर 2008

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन तथा भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 15 अक्टूबर 2008 से दी जाती है)

हवलदार मलकीयत सिंह (सं. 2480112एल अब जेसी-430453एन),
01 नवम्बर 2008

हवलदार प्यारा सिंह (सं. 2478510एन अब जेसी-430442एफ),
20 अक्टूबर 2008

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन तथा भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता
01 फरवरी 2008 से दी जाती है)

हवलदार जसविन्दर सिंह (सं. 2479915एल अब जेसी-430443के),
29 अक्टूबर 2008

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन तथा भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता
01 अक्टूबर 2008 से दी जाती है)

हवलदार सुखविन्दर सिंह (सं. 2481343एन अब जेसी-430444एम),
19 अक्टूबर 2008

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन तथा भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता
01 अक्टूबर 2008 से दी जाती है)

हवलदार जसविन्दर सिंह (सं. 2479881एच अब जेसी-430445पी),
29 अक्टूबर 2008

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन तथा भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता
01 अक्टूबर 2008 से दी जाती है)

हवलदार लाल मन (सं. 2481215डब्ल्यू अब जेसी-430446एक्स),
11 अक्टूबर 2008

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन तथा भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता
01 अक्टूबर 2008 से दी जाती है)

हवलदार किशन सिंह (सं. 2478745ए अब जेसी-430447ए),
01 नवम्बर 2008

हवलदार सुखदेव सिंह (सं. 2479999के अब जेसी-430448एच),
01 नवम्बर 2008

हवलदार गुलशन कुमार (सं. 2478060एफ अब जेसी-430449एल),
01 नवम्बर 2008

सूबेदार मेजर (लिपिक) के रैंक में

सूबेदार (लिपिक) बाल कृष्ण (जेसी-428957एच), 01 अगस्त 2008

सूबेदार (लिपिक) के रैंक में

नायब सूबेदार (लिपिक) गुरनायब सिंह (जेसी-429925एम), 01 जुलाई
2008

नायब सूबेदार (लिपिक) सवरन सिंह (जेसी-429926पी), 01 जुलाई
2008

नायब सूबेदार (लिपिक) अश्वनी कुमार शर्मा (जेसी-429927एक्स),
01 अगस्त 2008

नायब सूबेदार (लिपिक) राजबीर सिंह दुहान (जेसी-430201एफ),
01 अक्टूबर 2008

नायब सूबेदार (लिपिक) राम सिंह (जेसी-429928ए), 01 अक्टूबर
2008

मराठा लाईट इन्फैन्ट्री

नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार महाडीक संतोष अर्जुन (सं. 2788373एम अब जेसी-
459909के), 25 अगस्त 2008+

+(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन तथा भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 04 फरवरी 2008 से दी जाती है)

हवलदार पांढवले रतन अंबादास (सं. 2785392एम अब जेसी-
459910वाई), 10 सितम्बर 2008+

+(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन तथा भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 19 मई 2008 से दी जाती है)

हवलदार मेठे शंकर रंगराव (सं. 2785321एल अब जेसी-459911एफ),
09 अगस्त 2008+

+(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन तथा भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 19 मई 2008 से दी जाती है)

हवलदार रमेश एच एस (सं. 2785028एन अब जेसी-459912के),
09 सितम्बर 2008+

+(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन तथा भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 जून 2008 से दी जाती है)

हवलदार कुडेकर सुभाष लक्ष्मण (सं. 2787355एक्स अब
जेसी-459913एम), 19 अगस्त 2008+

+(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन तथा भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 29 जून 2008 से दी जाती है)

हवलदार देसाई सयाजीराव कुंडलिक (सं. 2789294के अब
जेसी-459914पी), 24 अगस्त 2008+

+(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन तथा भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 जुलाई 2008 से दी जाती है)

हवलदार दलवी संजय नारायण (सं. 2786084वाई अब जेसी-
459915एक्स), 12 सितम्बर 2008+

+(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन तथा भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 31 जुलाई 2008 से दी जाती है)

हवलदार भोसले महादेव विष्णु (सं. 2783532पी अब जेसी-459916ए),
20 सितम्बर 2008+

+(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन तथा भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 अगस्त 2008 से दी जाती है)

हवलदार विठ्ठल नारायण मदने (सं. 2781585पी अब जेसी-
459917एच), 04 अक्टूबर 2008+

+(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन तथा भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 अगस्त 2008 से दी जाती है)

हवलदार थोरात बाबा साहेब मरगू (सं. 2786102डब्ल्यू अब जेसी-459918एल), 29 अगस्त 2008+

+(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन तथा भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अगस्त 2008 से दी जाती है)

हवलदार आठवले समीर मधुकर (सं. 2787396एफ अब जेसी-459919एन), 16 अगस्त 2008+

+(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन तथा भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अगस्त 2008 से दी जाती है)

हवलदार माने रामदास मानासिंग (सं. 2785400ए अब जेसी-459920एच), 30 सितम्बर 2008+

+(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन तथा भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 10 अगस्त 2008 से दी जाती है)

हवलदार घोड़के भाऊ साहेब भालूबा (सं. 2785874एफ अब जेसी-459921एल), 30 सितम्बर 2008+

+(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन तथा भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 10 अगस्त 2008 से दी जाती है)

हवलदार शिगवण अनिल तुकाराम (सं. 2786272ए अब जेसी-459922एन), 30 सितम्बर 2008+

+(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन तथा भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2008 से दी जाती है)

हवलदार पाटील नागोजी मारुती (सं. 2785324वाई अब जेसी-459925एफ), 24 सितम्बर 2008+

+(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन तथा भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2008 से दी जाती है)

हवलदार लोहार विठ्ठल बापू (सं. 2784810के अब जेसी-459926के), 04 अक्टूबर 2008+

+(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन तथा भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2008 से दी जाती है)

हवलदार देसाई प्रकाश वसंतराव (सं. 2785786एल अब जेसी-459927एम), 01 सितम्बर 2008

हवलदार पाटील अनिल रायभान (सं. 2784463डब्ल्यू अब जेसी-459928पी), 06 सितम्बर 2008+

+(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन तथा भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2008 से दी जाती है)

नायब सूबेदार (लिपिक) के रैंक में

हवलदार (लिपिक) रवींद्र सिंह (सं. 2783206एम अब जेसी-459923डब्ल्यू), 01 सितम्बर 2008

हवलदार (लिपिक) निर्मल कुमार सिंह (सं. 2789265पी अब जेसी-459924वाई), 01 सितम्बर 2008

कुमाऊँ रेजिमेंट

नायब सूबेदार के पद में

हवलदार मोहन सिंह (सं. 4180522पी अब जेसी-540453डब्ल्यू), 07 अगस्त 2008/02 अगस्त 2008 *

*(नायब सूबेदार के पद में ज्येष्ठता, वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना 02 अगस्त 2008 से दी गई है)

हवलदार हरीश चन्द्र सिंह (सं. 4184855वाई अब जेसी-540454वाई), 14 अगस्त 2008/01 अगस्त 2008 *

*(नायब सूबेदार के पद में ज्येष्ठता, वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना 01 अगस्त 2008 से दी गई है)

हवलदार गिरीश चन्द्रा (सं. 4183031के अब जेसी-540455एफ), 16 अगस्त 2008/01 जुलाई 2008 *

*(नायब सूबेदार के पद में ज्येष्ठता, वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना 01 जुलाई 2008 से दी गई है)

हवलदार हरीराज सिंह (सं. 4181200एफ अब जेसी-540456के), 16 अगस्त 2008/02 जुलाई 2008 *

*(नायब सूबेदार के पद में ज्येष्ठता, वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना 02 जुलाई 2008 से दी गई है)

हवलदार सेवताज सिंह (सं. 4180291के अब जेसी-540457एम), 01 सितम्बर 2008

हवलदार सुरेन्द्र सिंह (सं. 4177954वाई अब जेसी-540458पी), 01 सितम्बर 2008

हवलदार हरीश चन्द्र सिंह (सं. 4178882एम अब जेसी-540459एक्स), 01 सितम्बर 2008

हवलदार कुंवर सिंह (सं. 4179091एफ अब जेसी-540460एम), 01 सितम्बर 2008

हवलदार सतीश कुमार (सं. 4181140एक्स अब जेसी-540461पी), 01 सितम्बर 2008

हवलदार गणेश दत्त (सं. 4183126के अब जेसी-540462वाई), 01 सितम्बर 2008

हवलदार लोकपाल सिंह (सं. 4181252एक्स अब जेसी-540463ए), 02 सितम्बर 2008/01 सितम्बर 2008 *

*(नायब सूबेदार के पद में ज्येष्ठता, वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना 01 सितम्बर 2008 से दी गई है)

हवलदार बीर सिंह (सं. 4179601एक्स अब जेसी-540464एच), 15 सितम्बर 2008/02 अगस्त 2008 *

*(नायब सूबेदार के पद में ज्येष्ठता, वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना 02 अगस्त 2008 से दी गई है)

हवलदार प्रताप सिंह (सं. 4181502एन अब जेसी-540465एल),
16 सितम्बर 2008/07 जुलाई 2008 *

*(नायब सूबेदार के पद में ज्येष्ठता, वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना 07 जुलाई 2008 से दी गई है)

हवलदार अर्जुन सिंह (सं. 4180622ए अब जेसी-540466एन),
18 सितम्बर 2008/01 सितम्बर 2008 *

*(नायब सूबेदार के पद में ज्येष्ठता, वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना 01 सितम्बर 2008 से दी गई है)

हवलदार सत्य प्रकाश (सं. 4181279पी अब जेसी-540467डब्ल्यू),
22 सितम्बर 2008/02 अगस्त 2008 *

*(नायब सूबेदार के पद में ज्येष्ठता, वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना 02 अगस्त 2008 से दी गई है)

हवलदार हयात सिंह (सं. 4181305एल अब जेसी-540468वाई),
25 सितम्बर 2008/02 अगस्त 2008 *

*(नायब सूबेदार के पद में ज्येष्ठता, वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना 02 अगस्त 2008 से दी गई है)

हवलदार जगत सिंह (सं. 4180086एच अब जेसी-540469एफ),
26 सितम्बर 2008/01 सितम्बर 2008 *

*(नायब सूबेदार के पद में ज्येष्ठता, वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना 01 सितम्बर 2008 से दी गई है)

हवलदार नारायण सिंह नयाल (सं. 4183140डब्ल्यू अब जेसी-540470डब्ल्यू), 26 सितम्बर 2008/01 सितम्बर 2008 *

*(नायब सूबेदार के पद में ज्येष्ठता, वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना 01 सितम्बर 2008 से दी गई है)

हवलदार बाबु लाल यादव (सं. 4181780एफ अब जेसी-540471वाई),
29 सितम्बर 2008/01 अगस्त 2008 *

*(नायब सूबेदार के पद में ज्येष्ठता, वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना 01 अगस्त 2008 से दी गई है)

हवलदार बाबु लाल यादव (सं. 4181125पी अब जेसी-540472एफ),
29 सितम्बर 2008/26 अगस्त 2008 *

*(नायब सूबेदार के पद में ज्येष्ठता, वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना 26 अगस्त 2008 से दी गई है)

हवलदार जगदीश चन्द्रा सिंह (सं. 4179759ए अब जेसी-540473के),
01 अक्टूबर 2008/01 सितम्बर 2008 *

*(नायब सूबेदार के पद में ज्येष्ठता, वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना 01 सितम्बर 2008 से दी गई है)

हवलदार गोविन्द प्रसाद (सं. 4181021एफ अब जेसी-540474एम),
01 अक्टूबर 2008/01 सितम्बर 2008 *

*(नायब सूबेदार के पद में ज्येष्ठता, वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना 01 सितम्बर 2008 से दी गई है)

हवलदार जगदेव यादव (सं. 4180740एन अब जेसी-540475पी),
11 अक्टूबर 2008/26 अगस्त 2008 *

*(नायब सूबेदार के पद में ज्येष्ठता, वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना 26 अगस्त 2008 से दी गई है)

हवलदार जीवन सिंह (सं. 4178285एक्स अब जेसी-540476वाई),
16 अक्टूबर 2008/01 अक्टूबर 2008 *

*(नायब सूबेदार के पद में ज्येष्ठता, वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना 01 अक्टूबर 2008 से दी गई है)

हवलदार बलवन्त सिंह (सं. 4179810पी अब जेसी-540477ए),
18 अक्टूबर 2008/01 अक्टूबर 2008 *

*(नायब सूबेदार के पद में ज्येष्ठता, वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना 01 अक्टूबर 2008 से दी गई है)

हवलदार पुष्कर सिंह (सं. 4179877एन अब जेसी-540478एच),
18 अक्टूबर 2008/01 अक्टूबर 2008 *

*(नायब सूबेदार के पद में ज्येष्ठता, वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना 01 अक्टूबर 2008 से दी गई है)

नागा रेजिमेन्ट

हवलदार नृगंशितेमजेन (सं. 14702149एच अब जेसी-590221एन),
24 अगस्त 2008/01 अगस्त 2008 *

*(नायब सूबेदार के पद में ज्येष्ठता, वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना 01 अगस्त 2008 से दी गई है)

हवलदार केशव दत्त (सं. 14701223एम अब जेसी-590222डब्ल्यू),
24 अगस्त 2008/02 अगस्त 2008 *

*(नायब सूबेदार के पद में ज्येष्ठता, वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना 02 अगस्त 2008 से दी गई है)

गढ़वाल राईफल्स

नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार सुलतान सिंह (सं. 4069152एल अब जेसी-530562पी),
02 अक्टूबर 2008 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2008 से दी जाती है)

हवलदार ताजबर सिंह (सं. 4071569के अब जेसी-530564ए),
22 अगस्त 2008 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अगस्त 2008 से दी जाती है)

हवलदार विक्रम सिंह (सं. 4067978ए अब जेसी-530565एच),
27 सितम्बर 2008 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 08 अगस्त 2008 से दी जाती है)

हवलदार धेपड़ सिंह (सं. 4068878एफ अब जेसी-530566एल),
03 सितम्बर 2008 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 22 अगस्त 2008 से दी जाती है)

हवलदार रमेश चन्द्र नौटियाल (सं. 4069659एम अब जेसी-530567एन), 24 अगस्त 2008

हवलदार धर्मेन्द्र सिंह (सं. 4070804एल अब जेसी-530569वाई),
01 सितम्बर 2008

हवलदार अत्तर सिंह (सं. 4067144एन अब जेसी-530570एन),
15 सितम्बर 2008 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2008 से दी जाती है)

हवलदार धर्मा नन्द (सं. 4067329पी अब जेसी-530571डब्ल्यू),
01 सितम्बर 2008

हवलदार नन्दन सिंह नेगी (सं. 4068772पी अब जेसी-530572वाई),
26 सितम्बर 2008 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2008 से दी जाती है)

हवलदार जगदीश प्रसाद (सं. 4071274एन अब जेसी-530573एफ),
24 सितम्बर 2008 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2008 से दी जाती है)

हवलदार उत्तम सिंह (सं. 4070508ए अब जेसी-530574के),
02 सितम्बर 2008 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2008 से दी जाती है)

हवलदार नरेन्द्र सिंह (सं. 4070791वाई अब जेसी-530575एम),
18 सितम्बर 2008 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2008 से दी जाती है)

हवलदार विक्रम सिंह (सं. 4069534पी अब जेसी-530576पी),
08 सितम्बर 2008 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2008 से दी जाती है)

हवलदार राम सिंह (सं. 4068495पी अब जेसी-530577एक्स),
05 सितम्बर 2008 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2008 से दी जाती है)

हवलदार रोशन लाल (सं. 4068541वाई अब जेसी-530578ए),
06 सितम्बर 2008

हवलदार विवेका नन्द (सं. 4069354एम अब जेसी-530579एच),
03 अक्टूबर 2008 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 14 सितम्बर 2008 से दी जाती है)

नायब सूबेदार (लिपिक) के रैंक में

हवलदार (लिपिक) राजेन्द्र सिंह नेगी (सं. 4068119एफ अब जेसी-530563एक्स), 19 अगस्त 2008 *

*(नायब सूबेदार (लिपिक) के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अगस्त 2008 से दी जाती है)

हवलदार (लिपिक) राधा प्रसाद भट्ट (सं. 4068305एक्स अब जेसी-530568डब्ल्यू), 01 सितम्बर 2008

राजपूताना राईफल्स

नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार बहादुर सिंह (सं. 2883087डब्ल्यू अब जेसी-470322एल),
01 जुलाई 2008

हवलदार अनिल कुमार (सं. 2879924ए अब जेसी-470323एल),
01 जुलाई 2008

हवलदार सुरेंद्र सिंह (सं. 2882263डब्ल्यू अब जेसी-470324डब्ल्यू),
03 अक्टूबर 2008/01 जुलाई 2008 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2008 दी जाएगी)

हवलदार मोरध्वज सिंह (सं. 2884469एम अब जेसी-470325वाई),
04 जुलाई 2008/01 जुलाई 2008 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2008 दी जाएगी)

हवलदार अभय सिंह (सं. 2883120एच अब जेसी-470326एफ),
07 जुलाई 2008/01 जुलाई 2008 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2008 दी जाएगी)

हवलदार शिवपाल सिंह शेखावत (सं. 2884881ए अब जेसी-470327के), 01 जुलाई 2008

हवलदार धर्मवीर सिंह (सं. 2880694के अब जेसी-470328एम),
01 सितम्बर 2008/01 जुलाई 2008 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2008 दी जाएगी)

हवलदार श्रीपाल (सं. 2882418ए अब जेसी-470329पी), 18 जुलाई 2008/01 जुलाई 2008 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2008 दी जाएगी)

हवलदार रंजीत सिंह कालेर (सं. 2887135एच अब जेसी-470330के),
07 जुलाई 2008/01 जुलाई 2008 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 जुलाई 2008 दी जाएगी)

हवलदार आज़ाद सिंह (सं. 2883418एम अब जेसी-470331एम),
17 अक्टूबर 2008/01 जुलाई 2008 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 जुलाई 2008 दी जाएगी)

हवलदार राम गोपाल सिंह (सं. 2883051एक्स अब जेसी-470332पी),
01 जुलाई 2008

हवलदार सुरेश कुमार (सं. 2885089ए अब जेसी-470333एक्स),
16 अगस्त 2008/01 जुलाई 2008 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 जुलाई 2008 दी जाएगी)

हवलदार महिपाल सिंह (सं. 2885535डब्ल्यू अब जेसी-470334ए),
07 जुलाई 2008/01 जुलाई 2008 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 जुलाई 2008 दी जाएगी)

हवलदार कमल सिंह (सं. 2884146के अब जेसी-470335एच),
11 जुलाई 2008/01 जुलाई 2008 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 जुलाई 2008 दी जाएगी)

हवलदार शिव राज सिंह शेखावत (सं. 2884234ए अब जेसी-
470336एल), 11 जुलाई 2008/01 जुलाई 2008 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 जुलाई 2008 दी जाएगी)

हवलदार मुरालीधर सिंह (सं. 2882450पी अब जेसी-470337एन),
24 जुलाई 2008/01 जुलाई 2008 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 जुलाई 2008 दी जाएगी)

हवलदार प्रताप सिंह (सं. 2884118एक्स अब जेसी-470338डब्ल्यू),
01 जुलाई 2008

हवलदार राजपाल (सं. 2884361पी अब जेसी-470339वाई),
01 जुलाई 2008

हवलदार क्रिशन कुमार (सं. 3990479एक्स अब जेसी-470340एन),
10 जुलाई 2008/01 जुलाई 2008 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 जुलाई 2008 दी जाएगी)

हवलदार काली चरन (सं. 2883625वाई अब जेसी-470341डब्ल्यू),
10 जुलाई 2008/01 जुलाई 2008 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 जुलाई 2008 दी जाएगी)

हवलदार धारा सिंह (सं. 2885612ए अब जेसी-470342वाई),
10 जुलाई 2008/01 जुलाई 2008 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 जुलाई 2008 दी जाएगी)

हवलदार धर्मा राम खोजा (सं. 2883605एल अब जेसी-470343एफ),
12 सितम्बर 2008/11 जुलाई 2008 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 11 जुलाई 2008 दी जाएगी)

हवलदार श्याम सिंह (सं. 2880200पी अब जेसी-470344के),
24 जुलाई 2008/20 जुलाई 2008 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 20 जुलाई 2008 दी जाएगी)

हवलदार हफिज अली खान (सं. 2884339के अब जेसी-470345एम),
11 अगस्त 2008/30 जुलाई 2008 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 30 जुलाई 2008 दी जाएगी)

हवलदार फतेह सिंह (सं. 2887981डब्ल्यू अब जेसी-470346पी),
01 अक्टूबर 2008/01 अगस्त 2007 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 अगस्त 2007 से दी जायेगी)।

हवलदार इंदर पाल (सं. 16015729डब्ल्यू अब जेसी-470347एक्स),
24 अक्टूबर 2008/19 अक्टूबर 2007 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 19 अक्टूबर 2007 से दी जायेगी)।

हवलदार लिपिक शिव राज सिंह (सं. 2882740एम अब जेसी-
470348ए), 01 अगस्त 2008

हवलदार लिपिक लीला राम गुर्जर (सं. 3178030एफ अब जेसी-
470349एच), 01 अगस्त 2008

हवलदार लिपिक दर्शन पाल सिंह (सं. 2881536एफ अब जेसी-
470350एक्स), 01 अगस्त 2008

हवलदार लिपिक अत्तर सिंह पूनिया (सं. 2881744डब्ल्यू अब जेसी-
470351ए), 01 अगस्त 2008

हवलदार लिपिक देवेंद्र सिंह (सं. 2881762वाई अब जेसी-
470353एच), 01 अगस्त 2008

हवलदार लिपिक कुश पाल सिंह (सं. 2882755पी अब जेसी-
470353एल), 01 अगस्त 2008

हवलदार लिपिक भरत सिंह (सं. 2882117डब्ल्यू अब जेसी-
470354एन), 01 अगस्त 2008

हवलदार लिपिक शिव सिंह (सं. 2882150एन अब जेसी-
470355डब्ल्यू), 01 अगस्त 2008

हवलदार रोहिताश कुमार (सं. 2883378पी अब जेसी-470356वाई),
03 अक्टूबर 2008/01 अगस्त 2008 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अगस्त 2008 से दी जायेगी)।

हवलदार उदय सिंह (सं. 2882312एन अब जेसी-470357एफ),
01 अगस्त 2008

हवलदार राजेन्द्र सिंह (सं. 2882925एन अब जेसी 470358के),
06 नवम्बर 2008/01 अगस्त 2008 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अगस्त 2008 से दी जायेगी)।

हवलदार रियाज़ खान (सं. 2880757एफ अब जेसी-470359एम),
03 सितम्बर 2008/03 अगस्त 2008 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 03 अगस्त 2008 से दी जायेगी)।

हवलदार भीम सिंह (सं. 2883607डब्ल्यू अब जेसी 470360एफ),
08 सितम्बर 2008/04 अगस्त 2008 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 04 अगस्त 2008 से दी जायेगी)।

हवलदार कप्तान सिंह राजपूत (सं. 2881355डब्ल्यू अब जेसी-470361के), 27 अगस्त 2008/10 अगस्त 2008 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 10 अगस्त 2008 से दी जायेगी)।

हवलदार दिलबाग सिंह (सं. 2887745पी अब जेसी-470362एम),
03 नवम्बर 2008/28 अगस्त 2008 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 28 अगस्त 2008 से दी जायेगी)।

सिख रेजिमेन्ट

नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार सुखविंदर सिंह (सं. 3390295एफ अब जेसी-500057एक्स),
06 अक्टूबर 2008

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 2008)

हवलदार तरलोक सिंह (सं. 3390563ए अब जेसी-500058ए),
30 सितम्बर 2008

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 08 अप्रैल 2008)

हवलदार कुलविंदर सिंह (सं. 3390588एम अब जेसी-500059एच),
30 सितम्बर 2008

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मई 2008)

हवलदार सतनाम सिंह (सं. 3390593एक्स अब जेसी-500060एक्स),
30 सितम्बर 2008

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2008)

हवलदार बचन सिंह (सं. 3387170वाई अब जेसी-500061ए),
16 अगस्त 2008

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2008)

हवलदार केवल सिंह (सं. 3387855एक्स अब जेसी-500062एच),
08 सितम्बर 2008

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2008)

हवलदार रेशम सिंह (सं. 3387182एन अब जेसी-500063एल),
23 अगस्त 2008

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2008)

हवलदार दलबीर सिंह (सं. 3385888के अब जेसी-500064एन),
08 सितम्बर 2008

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2008)

हवलदार कुलदीप सिंह (सं. 3389951एल अब जेसी-500065डब्ल्यू),
01 सितम्बर 2008

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2008)

हवलदार संतोख सिंह (सं. 3390496ए अब जेसी-500066वाई),
18 सितम्बर 2008

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 25 जुलाई 2008)

हवलदार बलदेव सिंह (सं. 3389687एच अब जेसी-500067एफ),
01 अक्टूबर 2008

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2008)

हवलदार हरजिंदर सिंह (सं. 3388327ए अब जेसी-500068के),
20 सितम्बर 2008

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 11 सितम्बर 2008)

हवलदार भुपिंदर सिंह (सं. 3389501एन अब जेसी-500069एम),
09 अक्टूबर 2008

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2008)

हवलदार रामफल सिंह (सं. 3390502एच अब जेसी-500070एफ),
01 अक्टूबर 2008

हवलदार लखविंदर सिंह (सं. 3389065एफ अब जेसी-500071के),
04 अक्टूबर 2008

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2008)

हवलदार रघुपाल सिंह (सं. 3389612एल अब जेसी-500072एम),
04 अक्टूबर 2008

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2008)

हवलदार कुलबीर सिंह (सं. 3389648के अब जेसी-500073पी),
04 अक्टूबर 2008

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2008)

नायब सूबेदार लिपिक के रैंक में

हवलदार लिपिक शिंदे घनेश्वर ब्रमदेव (सं. 3390363के अब जेसी-
500074एक्स), 01 अक्टूबर 2008

हवलदार लिपिक बिजय कुमार प्रधान (सं. 3390399एच अब जेसी-
500075ए), 02 अक्टूबर 2008

(नायब सूबेदार लिपिक के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले
बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2008)

हवलदार लिपिक वी शिवा शंकर (सं. 3390129एन अब
जेसी-500076एच), 01 अक्टूबर 2008

नायब सूबेदार/जीडी के रैंक में

हवलदार पीतम थापा (सं. 5751926एच अब जेसी-623821वाई),
31 जनवरी 2008*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 21 अक्टूबर 2007 से दी जाएगी)

हवलदार नंदा बहादुर पुन (सं. 5751988एच अब जेसी-623841एम),
26 मई 2008*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 मई 2008 से दी जाएगी)

हवलदार नर बहादुर थापा (सं. 5752200एम अब जेसी-623842पी),
18 जून 2008*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 03 मई 2008 से दी जाएगी)

हवलदार दुर्गा बहादुर प्रधान (सं. 5752142एन अब जेसी-
623843एक्स), 22 जून 2008*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 20 मई 2008 से दी जाएगी)

हवलदार तारा प्रसाद श्रेष्ठ (सं. 5752219एल अब जेसी-623844ए),
01 जून 2008*

हवलदार किरन कुमार गुरुंग (सं. 5751733एच अब जेसी-
623852वाई), 01 जून 2008*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2008 से दी जाएगी)

हवलदार नरेंद्र बहादुर थापा (सं. 5752109डब्ल्यू अब जेसी-
623853एफ), 09 जुलाई 2008*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 08 अप्रैल 2008 से दी जाएगी)

हवलदार पूरना बहादुर गुरुंग (सं. 5752225वाई अब जेसी-
623854के), 26 जुलाई 2008*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 जून 2008 से दी जाएगी)

हवलदार धन बहादुर थापा (सं. 5752124एल अब जेसी-623855एम),
18 जुलाई 2008*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 जुलाई 2008 से दी जाएगी)

हवलदार आशिष कुमार छेत्री (सं. 5751420के अब जेसी-623856पी),
01 जुलाई 2008

हवलदार बखत बहादुर रखल (सं. 5752034के अब जेसी-
623836एफ), 18 जून 2008*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 अगस्त 2007 से दी जाएगी)

हवलदार मिम प्रसाद गुरुंग (सं. 5752077वाई अब जेसी-623837के),
18 जून 2008*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2007 से दी जाएगी)

हवलदार राम बहादुर तमंग (सं. 5752028डब्ल्यू अब जेसी-
623838एम), 18 जून 2008*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 08 अप्रैल 2008 से दी जाएगी)

हवलदार दुर्गा बहादुर गुरुंग (सं. 5752237एन अब जेसी-623839पी),
18 जून 2008*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 08 अप्रैल 2008 से दी जाएगी)

हवलदार राजेश थापा (सं. 5752087एच अब जेसी-623840के),
18 जून 2008*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 08 अप्रैल 2008 से दी जाएगी)

बिहार रेजिमेन्ट

नायब सूबेदार (जी डी) के रैंक में

हवलदार प्रमोद पाठक (सं. 4265827एम अब जेसी-560079ए),
03 अक्टूबर 2008/01 मई 2008(ज्येष्ठता)×

×(वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना नायब सूबेदार के रैंक में
ज्येष्ठता दिनांक 01 मई 2008 से दी जाती है)

हवलदार बसंता कुमार पात्रा (सं. 4268200एक्स अब जेसी-560080पी),
16 अक्टूबर 2008/23 जून 2008(ज्येष्ठता)×

×(वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना नायब सूबेदार के रैंक में
ज्येष्ठता दिनांक 23 जून 2008 से दी जाती है)

हवलदार सुनील कुमार सिंह (सं. 4267543एफ अब
जेसी-560081एक्स), 23 अक्टूबर 2008/01 जुलाई 2008(ज्येष्ठता)×

×(वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना नायब सूबेदार के रैंक में
ज्येष्ठता दिनांक 01 जुलाई 2008 से दी जाती है)

कम्पनी हवलदार मेजर सतेंद्र पांडे (सं. 4262759वाई अब
जेसी-560082ए), 20 अक्टूबर 2008/26 जुलाई 2008(ज्येष्ठता)×

×(वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना नायब सूबेदार के रैंक में
ज्येष्ठता दिनांक 26 जुलाई 2008 से दी जाती है)

कम्पनी हवलदार मेजर बासिल लकडा (सं. 4265104एक्स अब
जेसी-560083एच), 13 अक्टूबर 2008/01 सितम्बर 2008(ज्येष्ठता)×

×(वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना नायब सूबेदार के रैंक में
ज्येष्ठता दिनांक 01 सितम्बर 2008 से दी जाती है)

हवलदार विनोद कुमार राम (सं. 4265681के अब जेसी-560084एल),
15 अक्टूबर 2008/01 सितम्बर 2008(ज्येष्ठता)×

×(वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना नायब सूबेदार के रैंक में
ज्येष्ठता दिनांक 01 सितम्बर 2008 से दी जाती है)

हवलदार माल्लु तिकी (सं. 4267365के अब जेसी-560085एन),
13 अक्टूबर 2008/01 सितम्बर 2008(ज्येष्ठता)×

×(वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना नायब सूबेदार के रैंक में
ज्येष्ठता दिनांक 01 सितम्बर 2008 से दी जाती है)

कम्पनी हवलदार मेजर मार्कस बैक (सं. 4266070एफ अब
जेसी-560086डब्ल्यू), 22 अक्टूबर 2008/01 अक्टूबर 2008(ज्येष्ठता)×

×(वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना नायब सूबेदार के रैंक में
ज्येष्ठता दिनांक 01 अक्टूबर 2008 से दी जाती है)

हवलदार सोमनाथ मोहंती (सं. 4268881एल अब जेसी-560087वाई),
06 अक्टूबर 2008/01 अक्टूबर 2008(ज्येष्ठता)×

×(वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना नायब सूबेदार के रैंक में
ज्येष्ठता दिनांक 01 अक्टूबर 2008 से दी जाती है)

कम्पनी हवलदार मेजर सुखदेव प्रसाद (सं. 8031119एच अब
जेसी-560088एफ), 27 अक्टूबर 2008/01 अक्टूबर 2008(ज्येष्ठता)×

×(वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना नायब सूबेदार के रैंक में
ज्येष्ठता दिनांक 01 अक्टूबर 2008 से दी जाती है)

एस अशरफ
अवर सचिव

2009 (अपराह) से सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त करते हैं।

के मुरली
अवर सचिव

सेना शाखा

सं. 122, दिनांक 12 फरवरी 2009--राष्ट्रपति, निम्नलिखित अधिकारियों
को उनके नाम के आगे दी गई तारीख से उनके द्वारा सेवानिवृत्ति का साधारण
आयु प्राप्त कर लेने से पूर्व उनके अनुरोध पर व्यक्तिगत कारणों से सेना सेवा
से निवृत्त होने की अनुमति प्रदान करते हैं:--

नियमित सेना

स्थायी कमीशन

(आई सी-31056) कर्नल ए के चौधरी, आर्मी ए बी एन, 30 अप्रैल
2007(अपराह)

(आई सी-38905) कर्नल एस के गुप्ता, आर्टी, 09 जुलाई 2008
(अपराह)

(आई सी-38329) कर्नल एस सी चमोली, आर्टी, 12 जुलाई 2008
(अपराह)

(आई सी-39289) कर्नल एस बेनर्जी, आर्टी, 18 जुलाई 2008
(पूर्वाह)

(आई सी-40684) कर्नल संजीव सहगल, इंजीनियर्स, 22 अप्रैल
2008(अपराह)

(आई सी-34830) कर्नल अजीत थॉमस, एओसी, 18 दिसम्बर
2007(अपराह)

(आई सी-41851) ले. कर्नल जगदेव सिंह, एओसी, 01 जुलाई
2008(अपराह)

(आई सी-43378) ले. कर्नल बिपिन कुमार त्रिवेदी, सिग्नल्स, 13 मई
2008(अपराह)

(आई सी-30743) कर्नल आर के सिंह, सिग्नल्स, 30 जून 2007
(अपराह)

(आई सी-44927) ले. कर्नल एम पी सेन, सिग्नल्स, 10 अक्टूबर
2007(अपराह)

(आई सी-40333) कर्नल मिक्की उबेराय, इंजीनियर्स, 19 अगस्त
2007(पूर्वाह)

(आई सी-41850) ले. कर्नल सुनील प्रेम, इंजीनियर्स, 30 सितम्बर
2007(अपराह)

(आई सी-34381) कर्नल के एस एस डडवाल, एओसी, 30 सितम्बर
2007(अपराह)

(आई सी-38507) कर्नल(टी एस) के एल शांताराम, एओसी,
30 मार्च 2007(अपराह)

(आई सी-41260) ले. कर्नल ए बी तलपल्लीकर, सिग्नल्स,
30 अप्रैल 2008(अपराह)

सं. 121, दिनांक 12 फरवरी 2009--राष्ट्रपति, रक्षा मंत्रालय में उप
सचिव, श्री वाई डी मेहता को अधिवर्षिता की आयु पूरी करने पर 31 जनवरी

(आई सी-44043) ले. कर्नल एस एम भारद्वाज, इंजीनियर्स, 22 जून 2008(अपराह)

(आई सी-44662) ले. कर्नल पंकज कुमार, इन्फैन्ट्री, 08 जुलाई 2008(अपराह)

(आई सी-39490) कर्नल वी एस शेखावत, इन्फैन्ट्री, 01 जुलाई 2008(अपराह)

(आई सी-42970) ले. कर्नल एन के एस शेखावत, इन्फैन्ट्री, 31 अक्टूबर 2007(अपराह)

(आई सी-40416) कर्नल धीरेन्द्र सिंह, इन्फैन्ट्री, 31 जनवरी 2008 (अपराह)

(आई सी-42791) ले. कर्नल अश्वनी चौमा, इन्फैन्ट्री, 31 जनवरी 2008(अपराह)

(आई सी-43391) कर्नल संदीप कुमार दत्ता, इन्फैन्ट्री, 12 मार्च 2008(अपराह)

(आई सी-39642) कर्नल नायर मोहन के जी नायर, इन्फैन्ट्री, 01 मई 2008

(आई सी-39150) कर्नल (टी एस) मुकेश तरेहन, सिग्नल्स, 15 अप्रैल 2007(अपराह)

एस के चक्रवर्ती
संयुक्त निदेशक
एम एस/पी आर

सेना शाखा

सं. 123, दिनांक 12 फरवरी 2009--राष्ट्रपति, निम्नलिखित अधिकारी को सेवा निवृत्त होने पर अपना बनाये रखने और वर्दी पहने की अनुमति प्रदान करते हैं:--

प्रादेशिक सेना

सेवा निवृत्त

ले. कर्नल शाम लाल सिंहला, टी ए (एम) 1158, (ए. एम. सी. टीए), 28 मई 2008 (एफ एन)

कैप्टन एस पी जखवाल, टी ए (एन टी) 1173, (ए. एम. सी. टीए), 28 मई 2008

जय राज
अवर सचिव

सेना शाखा

शुद्धि पत्र

सं. 124, दिनांक 13 फरवरी 2009--भारत सरकार रक्षा मंत्रालय के राजपत्र दिनांक 27 जनवरी 2007 में नियमित सेना स्थायी कमीशन ले. जनरल शीर्षक के अंतर्गत यथा परिवर्तन किया जाता है:--

के लिए:--

क्र.सं., रैंक, नाम, आईसी, आर्म, ले. जनरल के मूल रैंक की प्रभावी तिथि

3. मेजर जनरल के एस डोगरा, ए वी एस एम**, वी एस एम, (आई सी-28805), एएडी, 01 फरवरी 2006 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 01 जनवरी 2006 से दी जाएगी।

पढ़ें:--

क्र.सं., रैंक, नाम, आईसी, आर्म, ले. जनरल के मूल रैंक की प्रभावी तिथि

3. मेजर जनरल के एस डोगरा, ए वी एस एम**, वी एस एम, (आई सी-28805), एएडी, 01 जनवरी 2006।

भारत सरकार रक्षा मंत्रालय के राजपत्र में नियमित सेना स्थायी कमीशन, ले. जनरल के मूल रैंक में दिनांक 23 दिसम्बर 2006 के शीर्षक में यथा परिवर्तन किया जाता है:--

के लिए:--

क्र.सं., रैंक, नाम, आईसी, आर्म, ले. जनरल के मूल रैंक की प्रभावी तिथि

5. मेजर जनरल जे एस लीडुर, यू वाई एस एम, ए वी एस एम, (आई सी-23295), ग्रेन., 03 जनवरी 2006।

पढ़ें:--

क्र.सं., रैंक, नाम, आईसी, आर्म, ले. जनरल के मूल रैंक की प्रभावी तिथि

5. मेजर जनरल जे एस लीडुर, यू वाई एस एम, ए वी एस एम, (आई सी-23295), ग्रेन., 01 फरवरी 2006 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 03 जनवरी 2006 से दी जाएगी।

एन के फूकन
निदेशक/एम एस (एक्स)

MINISTRY OF DEFENCE

New Delhi, the 28th February 2009

No. 108, dated 9th February 2009.—The President is pleased to appoint **Shri** Paramjit Singh Walia, CSS, Section Officer borne on the strength of the Ministry of Finance, Department of Economic Affairs to Grade-I (Under Secretary) of CSS on ad-hoc basis in the Ministry of Defence w.e.f. 30.12.2008 (FN), until further orders in terms of DOP&T Order No. 5/20/2007-CS-I (Desk) dated the 16th January, 2008.

The appointment of the above officer as Under Secretary (ad-hoc) is subject to following conditions :—

The ad-hoc promotion shall not confer any right to continue in the grade indefinitely or for inclusion in the Select List for regular appointment or to claim seniority in the Grade I (Under Secretary) of CSS.

Ad-hoc appointment may be terminated at any point of time without giving any reason therefor.

The aforesaid appointment shall further be subject to the order, dated 11.01.2007 of the Central Administrative Tribunal, Principal Bench, New Delhi, in M.A. No. 2170/2006, O.A. No. 2793/2005, M.A. No. 2710/2005.

The President is pleased to extend the appointment of **Shri** Sohan Lal Jugran, Deputy Director (OL) (ad-hoc), Ministry of Defence as Deputy Director (OL) on ad-hoc basis in the same Ministry w.e.f. 19.04.2008 to 18.10.2009, in terms of Deptt. of Official Language Office Order No. 5/8/2006-OL (Ser), dated the 5th December, 2008.

The appointment of the above officer as Deputy Director (OL) is subject to following conditions :—

The ad-hoc promotion shall not confer any right to continue in the grade indefinitely or for inclusion in the Select List for regular appointment or to claim seniority in the Deputy Director (OL) grade of Department of Official Language Cadre.

The President is pleased to appoint **Shri** Satyender Singh Rawat, Senior Hindi Translator, Ministry of Commerce & Industry, Department of Commerce (Supply Division) as Assistant Director (OL) in the Ministry of Defence on ad-hoc basis for a period of nine months with effect from 15.12.2008 (FN) or till regular officer becomes available, whichever is earlier, in the pay scale of Rs. 9,300-34,800 + Rs. 5,400/- (Grade Pay) in Pay Band-3. The appointment is purely on ad-hoc basis and confers no right to claim seniority, etc. in the grade of Assistant Director (OL).

The President is pleased to appoint **Shri** B. Gangadhar, Junior Assistant, Executive Engineer, Godavari Head Works Division, Government of Andhra Pradesh, Dowlaiswaram, as Assistant Private Secretary to Raksha Rajya Mantri (**Shri** M. M. Pallam Raju) in the pay scale of Rs. 9,300-34,800 + Rs. 4,200/- (Grade Pay) in Pay Band-2

with effect from 17.12.2008 (FN) till the Minister demits office or until further orders, whichever is earlier.

The President is pleased to appoint **Ms.** Dhanwanti Sehgal, Assistant, borne on the CSS cadre of Ministry of Defence as Section Officer on ad-hoc basis same Ministry in the PB-2 Rs. 9,300-34,800/- + Rs. 4,800/- (Grade Pay), w.e.f. 7.10.2008 (FN) for a period upto 31.12.2008 or until further orders, whichever is earlier.

The above appointment will be subject to the following conditions :—

The ad-hoc appointments shall not confer on her any right to continue in the grade indefinitely or for inclusion in the Select List of Section Officers for regular appointment or to claim seniority in the Section Officers grade of CSS.

She will be reverted to the Assistants' Grade on availability of regular Section Officer through normal channels of recruitment as prescribed in the CSS Rules.

Consequent on inclusion of his name in the Select List (Seniority Quota) of Stenographers Grade 'A&B' (Merged) (Private Secretary) of CSSS for the year 2005, the President is pleased to appoint **Shri** Ishwer Singh, Stenographer Grade 'C' borne on the cadre of Department of Animal Husbandry, Dairying & Fisheries, Ministry of Agriculture and officiating as PS in that Ministry on ad-hoc basis, to the post of Stenographer Grade 'A&B' (Merged) of CSSS in the Ministry of Defence with effect from the forenoon of 1st January, 2009.

K MURALI
Under Secy.

CORPS OF ELECTRONICS AND MECHANICAL
ENGINEERS BRANCH

No. 109, dated 9th February 2009.—The President is pleased to make the following appointments :—

REGULAR ARMY
SPECIAL LIST

To be Nb Sub (Religious Teachers)

Jasbir Singh (JC-760886Y), 06 Nov 2006

Lakhvinder Singh (JC-761089A), 07 Apr 2007

N K KASHMIRA
Under Secy.

AIR HEADQUARTERS

No. 110, dated 9th February 2009.—The President is pleased to appoint undermentioned Jt Dirs of AFHQ Civil

Service as officiating Dirs, (Group 'A' Gazetted) under Rule 7(8) of AFHQ Civil Services Rule 2001 in the pay scale of Rs. 14,300—18,300/- (pre-revised) for the period as shown against their names or till regular incumbent become available, whichever is earlier :—

Name	Date of Appointment	
	From	To
(Sh./Smt.)		
Uma Bhattacharyya	03 Apr 2008	03 Apr 2009
V. Shanmugum	19 Aug 2008	18 Feb 2009
S K Singh	08 Oct 2008	03 Apr 2009

The appointment of the above named officers is subject to the following conditions :—

These appointments are made purely as stopgap arrangement and can be terminated without notice for administrative reasons or on availability of suitable incumbents.

The officers shall have no claim for regular appointment on the basis of temporary promotion granted now. The period of such appointment shall not count towards seniority in the grade of Dir.

SHANKAR SINGH
Dir (S)

DEFENCE RESEARCH AND DEVELOPMENT ORGANIZATION

No. 111, dated 9th February 2009.—The President is pleased to make the following appointments :—

The undermentioned individual(s) to be temporary Scientist(s) 'C' (Group 'A') in the Defence Research and Development Service on probation for a period of one year with effect from the date shown against their names in the Pay Scale of Rs. 10,000-325-15,200/- (Pre-revised) :—

Name, Estt./Lab & Date of Joining

Sh. P Ramalingam, ADE, Bangalore, 10 Dec 2001

Shri A Suresh, DIPR, Delhi, 08 Apr 2008

Dr. Rashmi Rekha Devi, DMSRDE, Kanpur, 01 May 2008

Ms Anshoo Gautam, DRDE, Gwalior, 16 Jun 2008

Dr. Richa, IAM, Bangalore, 24 Dec 2007

Ms Gaur Savita Jwalaprasad, IAM, Bangalore, 22 Aug 2008

Shri Dhanwantri Ravi Raja A, MSC, Pune, 15 Mar 2005

Ms S Jayasudha, SPIC, Delhi, 21 Jan 2008

Dr. M Sudhanshu Shekhar, SASE, Chandigarh, 10 Aug 2006

The undermentioned individual(s) to be temporary Scientist(s) 'B' (Group 'A') in the Defence Research and Development Service on probation for a period of two years with effect from the date shown against their names in the Pay Scale of Rs. 8,000-275-13,500/- (Pre-revised) :—

Name, Estt./Lab & Date of Joining

Shri Manoj Kumar, ADE, Bangalore, 01 Apr 2008

Shri Harsahay Meena, DARL, Pithoragarh, 28 Feb 2008

Ms Sakshi Bansal, DEBEL, Bangalore, 28 May 2008

Ms Parameswari B, DFRL, Mysore, 10 Apr 2008

Shri Somen Acharya, DIHAR, Leh, 06 Aug 2008

Shri Anand Kumar Katiyar, DIHAR, Leh, 08 Jan 2008

Shri Kaushik Halder, DIPAS, Delhi, 30 Jan 2008

Shri Tirthankar Chatterjee, DIPAS, Delhi, 18 Feb 2008

Ms Jyoti Sharma, DLJ, Jodhpur, 18 Jul 2008

Shri Chandan Kummar, DLRL, Hyderabad, 02 Nov 2006

Shri Raut Amitkumar Mangaldas, DMSRDE, Kanpur, 28 Apr 2008

Shri Deepankar Singh, DMSRDE, Kanpur, 16 Jun 2008

Shri Uttam Saha, DMSRDE, Kanpur, 10 Mar 2008

Shri Sandeep Kumar, DMSRDE, Kanpur, 28 Aug 2006

Shri M Silambarasan, INMAS, Delhi, 27 Mar 2008

Shri Shravan Kumar Singh, INMAS, Delhi, 19 Feb 2008

Shri Amit Alok, INMAS, Delhi, 30 Jan 2008

Shri Lalit Mohan Gupta, ISSA, Delhi, 23 May 2007

Shri Anand Kumar, NSTL, Vishakhapatnam, 22 Sep 2005

Shri Chandra Bhushan Kumar, RCI, Hyderabad, 28 Aug 2003

Ms Akansha Rani, SCC, Bhopal, 10 Aug 2006

Shri Manish Badwani, SFC, Jajdalpur, 02 Nov 2006

Shri Khan Wasiuddin Salauddin, VRDE, Ahmednagar, 31 Mar 2008

Shri G Allwinson Paul, VRDE, Ahmednagar, 06 Feb 2008

Shri Kamran Hashmi, VRDE, Ahmednagar, 31 Mar 2008

Shri Suresh Kumar Sharma, WESEE, Delhi, 23 May 2007

T ABDURRASSAK
Jt Dir (Pers)

AIR BRANCH

No. 112, dated 10th February 2009.—The President is pleased to terminate the provisional Short Service Commission granted to the undermentioned officers and

grant them Short Service Commission (on probation) wef the date mentioned against their names under the provisions of Govt. of India, Ministry of Defence letter No. Air HQ/24745/4/PP(O)/PC-I/184/DS/D(Air-III) dated 23 Apr 2001 in the rank of Flying Officer.

INDIAN AIR FORCE

AERONAUTICAL ENGINEERING (MECHANICALS)

Fg Offr N Karthik Babu (29396), Sangeeta Patra (29398) wef 28 Dec 07.

AERONAUTICAL ENGINEERING (ELECTRONICS)

Fg Offr Manvi Bali (29166), Bipinchandra Pravinlal Patel (29397), Vidhu Singh (29399), Ankur Patial (29400), Monika Lakshkar (29401), Neha Chauhan (29402), Sandhya Tripathi (29403), Shefali Gupta (29404), Shilpa Puri (29405), Peeyush Sharma (29406), Gaurika Suhag (29407), Neha Gathania (29408), Snigdha Rai (29409), Manisha Pathak (29410) wef 28 Dec 2007.

Ex-Flt Cds to be Fg Offr

EDUCATION BRANCH

Fg Offr Shruti Yadav (29325) wef 15 Dec 06.

AERONAUTICAL ENGINEERING (MECHANICALS)

Fg Offr N Karthik Babu (29396), Sangeeta Patra (29398) wef 02 Jan 07.

AERONAUTICAL ENGINEERING (ELECTRONICS)

Fg Offr Vidhu Singh (29399), Ankur Patial (29400), Monika Lakshkar (29401), Neha Chauhan (29402), Sandhya Tripathi (29403), Shefali Gupta (29404), Shilpa Puri (29405), Peeyush Sharma (29406), Gaurika Suhag (29407), Neha Gathania (29408), Snigdha Rai (29409), Manisha Pathak (29410) wef 02 Jan 07.

Bipinchandra Pravinlal Patel (29397) wef 03 Jan 07.

Ex-Flt Cds to be Fg Offrs

ADMINISTRATIVE BRANCH

Fg Offr Megha Punia (29302), Pookkoottil Sija Unnikrishnan (29303), Uvena Fernandes (29304), Tenneti Arpana (29305), Prerana Baburao Desai (29306), Shaleha Memon (29307), Anuradha Dahiya (29308), Munmun Hazary (29309), Rashmi Singh (29310), Priya Sachan (29311), Pooja Kashyap (29312), Preodhi (29313) wef 15 Dec 06.

LOGISTICS BRANCH

Fg Offr Harika Bandaru (29314), Kalpana Mishra (29315), Sadhana (29316), Yogita Raina (29317), Praveen Arya (29318), Supriya Chaturvedi (29319) wef 15 Dec 06.

ACCOUNTS BRANCH

Fg Offr Shubhra Sharma (29320), Praveen Kaur (29321), Deepti Singh (29322) wef 15 Dec 06.

EDUCATION BRANCH

Fg Offr Amandeep Kaur (29323), Nafees Fatima (29324), Amit Chauhan (29326) wef 15 Dec 06.

Ex-Flt Cds to be Fg Offrs

ADMINISTRATIVE BRANCH

Fg Offr Jai Prakash (29292), Manish Kumar Shukla (29293) wef 15 Dec 06.

LOGISTICS BRANCH

Fg Offr Pandarakalathil Sreedharan Pradeep (29294), Ashvini Tyagi (29295), Ganesh Gulab Yewale (29296), Yashu Bhardwaj (29298) wef 15 Dec 06.

ACCOUNTS BRANCH

Fg Offr Deepender Gupta (29299) wef 15 Dec 06.

EDUCATION BRANCH

Fg Offr P Makeshwar (29300), Anirban Mukhopadhyay (29301) wef 15 Dec 06.

The President is pleased to grant Provisional Short Service Commission and Wings to the undermentioned officers in the rank of Fg Offr wef the dates mentioned against their names under the provisions of Govt. of India, Ministry of Defence letter No. Air HQ/S 24745/4/PP(O)/PC-I/184/DS/D(Air-III) dated 23 Apr 01. These officer are eligible for flying pay wef the dates of grant of PSSC & Wings i.e. 15 Dec 06.

FLYING (PILOT) BRANCH

Ex-Flight Cadets to be Flying Officers

Fg Offr Deepika Misra (29283), Mona Jakhar (29284), Neha Jaiswal (29285), Ila Anoop (29287), Swapna Balyan (29288), Ekta Gandhi (29289), Nisha Raghuvanshi (29290), Alka Shukla (29291), Fg Offr Debolina Das (29286), wef 15 Dec 06.

The President is pleased to award Permanent Commission and Brevets (On Probation) to the undermentioned flight cadets in the rank of Fg Offr under the provisions of AFO 59/98. These officers will be eligible for grant of flying pay with effect from the date of grant of PC & Brevets (On Probation) i.e. 15 Dec 06.

FLYING (NAVIGATOR) BRANCH

Ex-Flight Cadets to be Flying Officers

Fg Offr Meghshyam B Walunj (29177), Avi Arya (29233), Iftikhar Anwar (29246) wef 15 Dec 06.

FLYING (PILOT) BRANCH

Fg Offr Ranvir Singh Dehal (29187) wef 15 Dec 06.

Fg Offr Ajit Pal Singh Saini (29174), K Varun Prakash (29175), Naveen Kajla (29176), Rahul Basoya (29178),

Sushant Jasrotia (29179), Sangram Singh (29180), P Nandagopan (29181), Gurpreet Singh Vasan (29182), Manorath Singh Sabharwal (29183), Shivkumar N Pohare (29184), Ghormade Charudutt Suresh (29185), Vivek Harishchandra Reddy (29186), Karni Singh Rathore (29188), S Krishnaprasad (29189), Rakesh Parija (29190), Jeetu Yadav (29191), Nitin Upadhyay (29192), Pranshu Sharma (29193), Sandeep Singh (29194), Raveendran Maya Gopi Krishnan Nair (29195), Parveen Bishnoi (29196), Manish Vyas (29197), Kunai (29198), Parijat Agashe (29199), Muneet Dogra (29200), A Ajay Kumar (29201), Pannikote Vikas Menon (29202), Ankit Pareek (29203), Momin Mohammed Hafeezulla (29204), Anand Sharma (29205), Sachin Mehta (29206), Abhinav Singh (29207), Prashant Singhal (29208), Vinay Kumar Sharma (29209), Varun Kumar (29210), Sameer Dagar (29211), Dheeraj Kumar Sharma (29212) wef 15 Dec 06.

The President is pleased to award Permanent Commission and Wings (On Probation) to the undermentioned flight cadets in the rank of Fg Offr under the provisions of AFO 59/98. These officers will be eligible for grant of flying pay with effect from the date of grant of PC & Wings (On Probation) i.e. 15 Dec 06 & 30 Dec 06 respectively.

FLYING (PILOT) BRANCH

Fg. Offr Manoj Kumar Gautam (29213), Sumit Kumar Dash (29214), Manish Das (29215), Akash Yadav (29216), Abhinav Sharma (29217), Anurag Pandey (29218), Kumar Vikas (29219), Ravi Kant Sharma (29220), Vibhav Chaturvedi (29221), Kaushik Mishra (29222), Satyajit Gorakh Limkar (29223), Sethuraman Senthil Kumar (29224), Anshul Dogra (29225), Rahul Poonia (29226), Manu Rajagopal (29227), Asish Gangadharan Santhamma (29228), Milind Londhe (29229), Koustubh Sharma (29230), Raveesh Kumar (29231), Siddharath Pandey (29232), Rajat Kasana (29234), Akash Godbole (29235), Nitin Chaudhary (29236), Samir Alve (29237), Vivek Joshi (29238), Kartikeya Singh (29239), Prateek J Bhatnagar (29240), Maneesh Singh (29241), Praveen Virupaxappa Basetti (29242), Pradeep A Hariharan (29243), Rustom J Irani (29244), Ankit Trivedi (29245), Amit Verma (29248), Divyansh Jain (29249), Shishir Kumar Pandey (29250), Manoj Rana (29251), Abhilash PR (29252) wef 15 Dec 06. Samya Ratan Ganguly (29253) wef 30 Dec 06.

The President is pleased to grant Permanent Commission (On Probation) to the undermentioned Flt Cds in the rank of Fg Offr wef the dates mentioned against their names under the provisions of AFI 20/76.

AERONAUTICAL ENGINEERING (ELECTRONICS) BRANCH

Fg Offr Manajit Singh (29674) wef 28 Dec 2007

The President is pleased to terminate the Short Service Commission (on probation) granted to the undermentioned officers and grant them Permanent Commission (On Probation) in the rank of Fg Offr wef the dates mentioned against

their names under the provisions of AFO 59/98 and AFI 2/73 a/a by Corr 10/84.

AERONAUTICAL ENGINEERING (ELECTRONICS) BRANCH

Ankur Ahlawat (29151), Nitinchandra Madhusudhan Kamath (29351), Ashwani Jain (29352), Rajesh Mukhi (29353), Aashish Anand (29354), Vineet Sharma (29355), Praneeth Kumar Tanugula (29356), Anurag Singh Sachan (29357), Anmol Rattan (29358), Avinash Kumar (29359), Gaurav Rai (29360), Amit Kumar Srivastava (29361), Amit Kumar Khullar (29362), Gautam Kumar Yadav (29363), Abhishek Dixit (29364), Naveen Kumar Sharma (29365), Amit Kumar Prasad (29367), Sachin Tiwari (29368), Vivek Singh (29369), Chetan Soni (29370), Brij Lal (29371), Varun Gaurav (29372), Sanjay Kaushik (29373), Kishore Yadav (29374), Ajitesh Kumar (29375), Vikas Dagar (29376), Pawan Kumar Verma (29377), Navneet Raina (29378), Dheeraj Datta (29379), Vijit Singh Chauhan (29380), Venkitesh Chandran R (29381), V Senthil (29382), Vineesh V Nair (29383), Punit Singhal (29384), Keshav Sharma (29385), Pankaj Bhati (29386), Gurvinder Singh Randhawa (29387), Satyapriya Rathore (29388), Yogendra Chhetri (29389), Ashok Rawat (29390), Karan Chrungu (29391), Konark Pratap Singh (29392), Bhawani Singh (29393), Sunil Sharma (29394), Praveen Bhorla (29395), wef 28 Dec 2007

The President is pleased to terminate the Short Service Commission (on probation) granted to the undermentioned officers and grant them Permanent Commission (On Probation) in the rank of Fg Offr wef the dates mentioned against their names under the provisions of AFO 59/98 and AFI 2/73 a/a by Corr 10/84.

AERONAUTICAL ENGINEERING (MECHANICAL) BRANCH

Fg Offr Inderjeet Singh Yadav (29333), Rohan Anand (29334), Jindo Francis (29335), Malay Dixit (29336), Sachin Kumar Tyagi (29337), Sudipto Paul (29338), Nikhil Kumar (29339), Sumant Kumar (29340), Rakesh Sharma (29341), Syed Sameeuddin (29342), Anshuman (29343), Vikram Singh Rathore (29344), Om Prakash (29345), Sachin Sehrawat (29346), Robin Singh (29347), Alok Kumar Yadav (29348), Neeraj Saraswat (29349), Jitendra Yadav (29350) wef 28 Dec 2007.

The President is pleased to grant Short Service Commission (On Probation) to the undermentioned officers in the rank of Fg Offr wef the dates mentioned against their names under the provisions of AFO 59/98.

AERONAUTICAL ENGINEERING (ELECTRONICS) BRANCH

Nitinchandra Madhusudhan Kamath (29351), Ashwani Jain (29352), Rajesh Mukhi (29353), Aashish Anand (29354), Vineet Sharma (29355), Praneeth Kumar Tanugula (29356), Anurag Singh Sachan (29357), Anmol Rattan (29358),

Avinash Kumar (29359), Gaurav Rai (29360), Amit Kumar Srivastava (29361), Amit Kumar Khullar (29362), Gautam Kumar Yadav (29363), Abhishek Dixit (29364), Naveen Kumar Sharma (29365), Amit Kumar Prasad (29367), Sachin Tiwari (29368), Vivek Singh (29369), Brij Lal (29371), Varun Gaurav (29372), Sanjay Kaushik (29373), Kishore Yadav (29374), Ajitesh Kumar (29375), Vikas Dagar (29376), Pawan Kumar Verma (29377), Navneet Raina (29378), Dheeraj Datta (29379), Vijit Singh Chauhan (29380), Venkitesh Chandran R (29381), V Senthil (29382), Vineesh V Nair (29383), Punit Singhal (29384), Keshav Sharma (29385), Pankaj Bhati (29386), Gurvinder Singh Randhawa (29387), Satyapriya Rathore (29388), Yogendra Chhetri (29389), Ashok Rawat (29390), Karan Chrungu (29391), Konark Pratap Singh (29392), Bhawani Singh (29393), Sunil Sharma (29394), Praveen Bhorla (29395) wef 02 Jan 2007

Chetan Soni (29370) wef 03 Jan 2007

AERONAUTICAL ENGINEERING (MECHANICAL) BRANCH

Fg Offr Inderjeet Singh Yadav (29333), Jindo Francis (29335), Malay Dixit (29336), Sachin Kumar Tyagi (29337), Sudipto Paul (29338), Nikhil Kumar (29339), Sumant Kumar (29340), Rakesh Sharma (29341), Syed Sameeuddin (29342), Anshuman (29343), Sachin Sehrawat (29346), Robin Singh (29347), Alok Kumar Yadav (29348), Neeraj Saraswat (29349), Jitendra Yadav (29350) wef 02 Jan 2007

Rohan Anand (29334), Vikram Singh Rathore (29344), Om Prakash (29345) wef 03 Jan 2007

N VIJAY KUMAR
Wg Cdr
IDPO-3(D)

ARMY BRANCH

No. 113, dated 10th February 2009.—The President is pleased to Re-employ the undermentioned JCOs on the active list in the rank date specified :

REGULAR ARMY DEFENCE SECURITY CORPS

To be Subedar Major (GD)

Sub Maj S Jothi Raj (JC-193493L), Formerly Arty Regt, 07 Jan 2008

Sub Maj S Thillai Chidambaram (JC-438200N), Formerly Madras Regt, 07 Jan 2008

To be Subedar (GD)

Sub Uma Chetry (JC-724792W), Formerly Ordnance Corps, 07 Oct 2007

Sub Jagpal Singh (JC-219694K), Formerly Rajput Regt, 07 Jan 2008

Sub Asok Kumar S (JC-221541Y), Formerly Arty Regt, 07 Jan 2008

Sub Sham Lal (JC-259388X), Formerly Arty Regt, 07 Jan 2008

Sub Prakram Chand (JC-448839H), Formerly Grenadiers, 07 Jan 2008

Sub Ram Niwas Chaudhary (JC-468901Y), Formerly Raj Rif, 07 Jan 2008

Sub Harbhej Singh (JC-260597F), Formerly Arty Regt, 07 Jan 2008

Sub Ram Sukh (JC-237703H), Formerly Armd Corps, 07 Jan 2008

To be Naib Subedar (GD)

Nb Sub Raja Kishore Sahu (JC-558722A), Formerly Bihar Regt, 08 Apr 2007

Nb Sub Pancha Kanar (JC-558610A), Formerly Bihar Regt, 07 Oct 2007

Nb Sub Dharam Singh (JC-498454P), Formerly Sikh Regt, 07 Jan 2008

Nb Sub Romel Chand (JC-449037Y), Formerly Grenadiers, 07 Jan 2008

Nb Sub Chanchal Singh (JC-266754Y), Formerly Arty Regt, 07 Jan 2008

Nb Sub Badam Singh (JC-469691W), Formerly Raj Rif, 07 Jan 2008

Nb Sub Raj Kumar Rai (JC-634130M), Formerly 11GR, 10 Jan 2008

PRADEEP KUMAR
Under Secy

ARMY BRANCH

No. 114, dated 10th February 2009.—The President is pleased to confirm the undermentioned officer in the Permanent Commission on successful completion of probationary period of two years in terms of AI 37/78 as amended.

REGULAR ARMY (ARMY DENTAL CORPS) PERMANENT COMMISSION

CONFIRMATION

DR-10597F Maj Vijaya Kumar R, 10 Jul 2006

The President is pleased to confirm the undermentioned officers in the Short Service Commission on successful completion of probationary period of one year in terms of AI 15/79 as amended.

REGULAR ARMY (ARMY DENTAL CORPS) SHORT SERVICE COMMISSION

CONFIRMATION

DS-12124F Capt Pravin Prathip J, 20 Sep 2004

DS-12129A Capt Chander Prakash, 21 Oct 2004

DS-12168F Capt Girish S, 14 Jun 2005

DS-12177A Capt (Ms) Rajinder Kaur Bhullar, 02 Mar 2006

DS-12192P Capt Vinod Paul K, 13 Mar 2006

DS-12204Y Capt Narendra Kumar, 19 Mar 2006

DS-12196L Capt (Ms) Banita Dhillon, 16 Mar 2006

DS-12203W Capt Nitin Singh Parihar, 19 Mar 2006

DS-12240K Capt (Ms) Sapna Parmar, 23 Mar 2007

DS-12243X Capt B K Chavadar, 26 Mar 2007

DS-12246L Capt (Ms) Priyanka Banga, 10 May 2007

D K TANEJA

Maj Gen

Addl DGDS

MILITARY SECRETARY'S BRANCH

No. 115, dated 10th February 2009—The President is pleased to make Substantive promotion of Lt General to the following officers :—

REGULAR ARMY PERMANENT COMMISSION

To be Substantive Lt Gen

IC No., Rank, Name, Arm and Date of Sub Rank

IC-25135 Maj Gen V K Chaturvedi, AVSM, SM, Arty, 22 Aug 2008

IC-25189 Maj Gen Gautam Banerjee, YSM, Engrs, 01 Sep 2008

The President is pleased to make substantive promotions of Major General to the following Corps of Engrs officers seconded to Survey of India :—

REGULAR ARMY PERMANENT COMMISSION

To be Substantive Maj Gen

IC No., Rank, Name, Arms, Date of Sub Maj Gen

IC-31242 Brig Manoj Tayal, Engrs, 27 Feb 2008

IC-31243 Brig C S Bewli, Engrs, 26 Feb 2008

IC-31597 Brig K S Kali Prasad, Engrs, 25 Feb 2008

IC-31938 Brig S V Chinnawar, Engrs, 10 Mar 2008

IC-34717 Brig P K Choudhary, Engrs, 10 Mar 2008

IC-34721 Brig Alok Kumar, Engrs, 22 Feb 2008

The President is pleased to make substantive promotions of Major General to the following officers :—

REGULAR ARMY PERMANENT COMMISSION

To be Substantive Maj Gen

IC No., Rank, Name, Arm, Date of Subs Maj Gen

IC-27761 Brig C Prakash, Arty(GC), 29 Mar 2008 with seniority from 23 Feb 2007 without effect on pay and pension

IC-27793 Brig Jatinder Singh, Guards, 08 Dec 2007 with seniority from 01 Mar 2007 without effect on pay and pension

IC-27945 Brig T M Mahisale, EME, 19 Dec 2007 with seniority from 01 May 2007 without effect on pay and pension

IC-30126 Brig S K Dhawan, Sigs, 01 Oct 2008 with seniority from 03 Jun 2007 without effect on pay and pension

To be Substantive Brigadier

IC-34424 Col S K Gadeock, Mech Inf, 07 Mar 2008 with seniority from 19 Jan 2007 without effect on pay and pension

N K PHUKAN
Dir/MS(X)

ARMY BRANCH

No. 116, dated 11th February 2009—The President is pleased to make the following promotion :—

TERRITORIAL ARMY TERRITORIAL COMMISSION

To be Lt Col

Maj M K Hussain (TA-42418), Inf, 14 Jan 2005

Maj A K Tewari (TA-41994) Engr, 16 Dec 2004

Maj Dinesh Kumar (TA-41822) Engr, 16 Dec 2004

JAI RAJ
Under Secy

ARMY BRANCH

No. 117, dated 11th February 2009—The President is pleased to make the following promotions :—

REGULAR ARMY PERMANENT COMMISSION

Capt to be Major

IC No., Name, Arm and Subs Maj wef

IC-54486 Manish Baunthyal, ASC, 16 Dec 2004

IC-61539 Ravi Navin, Inf, 08 Dec 2007	IC-65569 Jadhav Mahesh Vaishnu, AC
IC-62096 Vilas Ghosh, Mech Inf, 08 Jun 2008	IC-65570 Karan Vasisht, Inf
IC-62375 Aiyappa B M, Engrs, 08 Jun 2008	IC-65571 Rohit Chauhan, Inf
IC-62411 Raghuram, Vemuganty, Engrs, 08 Sep 2008	IC-65573 Sidaray Patil, Engrs
IC-65049 Aman Sharma, Inf, 02 May 2007	IC-65574 Sunil Kumar, Mech Inf
IC-65533 Prem Singh Bisht, Arty	IC-65577 Virmani Manu Chandermohan, Inf
IC-65534 Pankaj Maithani, Mech Inf	IC-65578 Hemant Lohan, Arty
IC-65535 Ashwani Kumar, Arty	IC-65579 Rajiv Ranjan Thakur, Sigs
IC-65537 Amit Mehta, Inf	IC-65580 M Babu, Inf
IC-65538 Zorawar Singh, Inf	IC-65581 Krishna Kumar Charan, Arty
IC-65539 Suresh Kumar Pandit, Engrs	IC-65583 Imtiaz Mansuri, AAD
IC-65540 Longjam Jimkelly Meetei, Inf	IC-65584 Dinesh Singh Bhandari, EME
IC-65541 Sandeep K Thapa, EME	IC-65585 Sachin Sharma, AOC
IC-65542 Aditya Wali, Inf	IC-65586 Amardeep Yadav, Mech Inf
IC-65543 Fernandes Johnny Rocky, Int	IC-65588 Vikas Khanna, Arty
IC-65544 Deepak V Sharma, AOC	IC-65589 Dig Vijay Singh Shekhawat, EME
IC-65545 Ajit Kumar Rajguru Misra, Inf	IC-65590 Mishra Rahul Bal, Inf
IC-65546 Kaushik Tarun Mahesh, AC	IC-65591 Biju Krishnan, Arty
IC-65547 Arun Dev Singh Jasrotia, Inf	IC-65592 Ramandeep Sandhu, AC
IC-65548 Ramit Chauhan, Sigs	IC-65593 Vikas Ramachandra Patil (Ghare), Sigs
IC-65549 Pratap Ranjan Mohanty, Inf	IC-65594 Pawan Kumar Uniyal, Inf
IC-65550 Mridul Mishra, Inf	IC-65595 Sukhwant Singh Dhindsa, Inf
IC-65551 Manjeet Sangwan, ASC	IC-65596 Rohit Solanki, Inf
IC-65552 Vishal Singh Sanga, Mech Inf	IC-65597 Birendra Kumar Pushkar, Arty
IC-65553 Akshay Kumar, Arty	IC-65598 Vikram Singh Bora, Inf
IC-65554 Sandeep Kumar, Inf	IC-65599 Md Anwaaruddin Sheriff, Inf
IC-65555 Aditya Singh Rathore, AC	IC-65600 Badal Kaushik, AAD
IC-65556 Shivinder Pratap Singh Kanwar, Inf	IC-65601 M V Vipin, ASC
IC-65557 Arthur Agay Founing, Inf	IC-65603 Mahendra Kumar Joshi, ASC
IC-65558 Anand, EME	IC-65604 Bisht Abhay Bhuwan Chandra, AOC
IC-65559 Bhanu Pratap Singh, AOC	IC-65605 Neeraj Kumar, Inf
IC-65560 Prem Kumar Tomar, Sigs	IC-65606 Rajiv Menon, Inf
IC-65561 Brijendra Singh B Shekhawat, AC	IC-65608 Shiv Kumar, EME
IC-65562 Sugandhit Vikas Bali, Engrs	IC-65609 Saurabh Rawat, Inf
IC-65563 Sherap Dorjee Bhutia, Inf	IC-65610 Ajay Kumar, Inf
IC-65565 Amarinder Brar, AC	IC-65614 Thongbam Dijen Singh, Inf
IC-65566 Partha Pratita Dutta, Engrs	IC-65617 Vikrant Mankotia, EME
IC-65567 Vivek Chaudhary, Arty	IC-65618 Ramesh Kumar, Inf
IC-65568 Jadhav Santoshkumar Rangrao, Inf	IC-65621 Prashant Jhala, Inf

IC-65622 Asif Abbas, Inf	SS-40823 Sunil Yadav, Sigs, 17 Sep 2002, SSC-21 (T), 17 Oct 2002/17 Oct 2008
IC-65623 Martand Misra, Arty	SS-40830 Dharmender B Jadeja, Engrs, 17 Sep 2002, SSC-21 (T), 17 Oct 2002/17 Oct 2008
IC-65624 Dinesh Singh Thakur, Inf	SS-40837 Mayank Gautam, Sigs, 17 Sep 2002, SSC-21 (T), 17 Oct 2002/17 Oct 2008
IC-65625 Gajender Singh Shekhawat, Inf	SS-40841 Niranjan E K, Engrs, 17 Sep 2002, SSC-21 (T), 17 Oct 2002/17 Oct 2008
IC-65626 Vinod Joshi, Inf	SS-40845 Shanmughanathan VB, Sigs, 17 Sep 2002, SSC-21 (T), 17 Oct 2002/17 Oct 2008
IC-65628 Shailendra Singh Shekhawat, AC	SS-40852 Amit Lohan, Engrs, 17 Sep 2002, SSC-21 (T), 17 Oct 2002/17 Oct 2008
IC-65629 Anuraj Sharma, Sigs	SS-40855 Amanjot Singh, Engrs, 17 Sep 2002, SSC-21 (T), 17 Oct 2002/17 Oct 2008
IC-65630 Siddharth Virmani, Sigs	SS-40860 Kishore Thampi UC, Engrs, 17 Sep 2002, SSC-21 (T), 17 Oct 2002/17 Oct 2008
IC-65631 Man Singh, Engrs	SS-40861 Dharmendra Singh, Engrs, 17 Sep 2002, SSC-21 (T), 17 Oct 2002/17 Oct 2008
IC-65632 Fakir Abbas, AC	SS-40863 Sandeep Kumar Ranaut, Sigs, 17 Sep 2002, SSC-21 (T), 17 Oct 2002/17 Oct 2008
IC-65633 Vishwas P, Engrs	
IC-65634 Madhvendra Singh, EME	
IC-65635 Rakesh Sharma, AAD	
IC-65636 Mayank Tiwari, Mech Inf	
IC-65637 Sanjeet S Giani, Inf	
IC-65638 Vikas Tyagi, ASC	

—02 Nov 2008

SHORT SERVICE COMMISSION (MEN)

Capt to be Major

SS No., Name, Arm, DOS, Course, Revised date of Seniority for promotion and Major wef

SS-39589 Sanjeev Kumar Dogra, ASC, 02 Mar 2002, SSC-73 (NT), 02 Nov 2002/02 Nov 2008

SS-39590 Anurag Aiery, Inf, 02 Mar 2002, SSC-73 (NT), 02 Nov 2002/02 Nov 2008

SS-39600 Adarsh Nayak, Inf, 02 Mar 2002, SSC-73 (NT), 02 Nov 2002/02 Nov 2008

SS-39607 Brijesh Thapa, Inf, 02 Mar 2002, SSC-73 (NT), 02 Nov 2002/02 Nov 2008

SS-39632 Tapan Singh Tomar, Mech, 02 Mar 2002, SSC-73 (NT), 02 Nov 2002/02 Nov 2008

SS-39650 P Prabh Raj, Arty, 02 Mar 2002, SSC-73 (NT), 02 Nov 2002/02 Nov 2008

SS-39651 Ajay Singh, Inf, 02 Mar 2002, SSC-73 (NT), 02 Nov 2002/02 Nov 2008

SS-39655 Ashish Jhingan, Inf, 02 Mar 2002, SSC-73 (NT), 02 Nov 2002/02 Nov 2008

SS-39656 Gourav Arora, Arty, 02 Mar 2002, SSC-73 (NT), 02 Nov 2002/02 Nov 2008

SS-39695 Ranjit H S, Inf, 02 Mar 2002, SSC-73 (NT), 02 Nov 2002/02 Nov 2008

PERMANENT COMMISSION

Lt to be Capt

IC No., Name, Arm and Date of Subs Capt

IC-56526 Anurag Sharma, Arty, 16 Dec 2004

IC-64532 Rahul Pandey, Arty, 10 Dec 2006

IC-65798 Gagandeep Singh, EME, 16 Dec 2004

IC-65852 Anil Jakhar, Inf, 08 Nov 2005

IC-65890 Aubrey L Bird, ASC, 08 Nov 2005

IC-65902 Supinder Singh Sethi, Engrs, 16 Dec 2004

IC-65905 Pawan Yadav, EME, 16 Dec 2004

SHORT SERVICE COMMISSION (MEN)

Lt to be Capt

SS No., Name, Arm, Date of Seniority, Course, Revised date of Seniority for promotion and Date of grant of Subs rank of Capt

SS-41810 Cheba Parag Vimalkumar, Inf, 18 Mar 2006, SSC-81 (NT), 18 Oct 2006/18 Oct 2008

SS-41816 Anil Kumar, Arty, 18 Mar 2006, SSC-81 (NT), 18 Oct 2006/18 Oct 2008

SS-41817 Suraj R Jakanur, Inf, 18 Mar 2006, SSC-81 (NT), 18 Oct 2006/18 Oct 2008

SS-41820 Babbar Bhan, Arty, 18 Mar 2006, SSC-81 (NT), 18 Oct 2006/18 Oct 2008

SS-41821 Krishan Pal Singh Shekhawat, Inf, 18 Mar 2006, SSC-81 (NT), 18 Oct 2006/18 Oct 2008

SS-41823 Sandeep Kurup, Inf, 18 Mar 2006, SSC-81 (NT), 18 Oct 2006/18 Oct 2008

SS-41827 Ch Suaneilal Aimol, Inf, 18 Mar 2006, SSC-81 (NT), 18 Oct 2006/18 Oct 2008

SS-41834 Kishore Kumar, Arty, 18 Mar 2006, SSC-81 (NT), 18 Oct 2006/18 Oct 2008

SS-41844 Akoijam Chinglemba Meitei, Inf, 18 Mar 2006, SSC-81 (NT), 18 Oct 2006/18 Oct 2008

SS-41847 Jaishankar Singh, Inf, 18 Mar 2006, SSC-81 (NT), 18 Oct 2006/18 Oct 2008

SS-41848 Pradeep Kumar, Inf, 18 Mar 2006, SSC-81 (NT), 18 Oct 2006/18 Oct 2008

SS-41850 Amos Hungyo, Arty, 18 Mar 2006, SSC-81 (NT), 18 Oct 2006/18 Oct 2008

SS-41852 Zakievilhou Zinyu, Int, 18 Mar 2006, SSC-81 (NT), 18 Oct 2006/18 Oct 2008

SS-41867 Gurusiddagoud Patil, Inf, 18 Mar 2006, SSC-81 (NT), 18 Oct 2006/18 Oct 2008

SS-41883 Shastry Sumeet Shashi, Arty, 18 Mar 2006, SSC-81 (NT), 18 Oct 2006/18 Oct 2008

SS-41886 Neelabh Joshi, AOC, 18 Mar 2006, SSC-81 (NT), 18 Oct 2006/18 Oct 2008

SS-41887 Ugale Ghansham Chandrakant, Inf, 18 Mar 2006, SSC-81 (NT), 18 Oct 2006/18 Oct 2008

SS-41889 Kuldeepak Rana, AAD, 18 Mar 2006, SSC-81 (NT), 18 Oct 2006/18 Oct 2008

SS-41890 Robbin Sangwan, Inf, 18 Mar 2006, SSC-81 (NT), 18 Oct 2006/18 Oct 2008

SS-41900 Desai Dhanaji Chandrakant, Inf, 18 Mar 2006, SSC-81 (NT), 18 Oct 2006/18 Oct 2008

SS-41913 Manish Shrestha, Inf, 18 Mar 2006, SSC-81 (NT), 18 Oct 2006/18 Oct 2008

SS-41933 Udhishteer Khaldania, ASC, 18 Mar 2006, SSC-81 (NT), 18 Oct 2006/18 Oct 2008

SS-41937 Rajat Singh, AOC, 18 Mar 2006, SSC-81 (NT), 18 Oct 2006/18 Oct 2008

SS-41943 Lotos Spalges, Inf, 18 Mar 2006, SSC-81 (NT), 18 Oct 2006/18 Oct 2008

SS-41952 Thounaojam Nongpokuganbu, Inf, 18 Mar 2006, SSC-81 (NT), 18 Oct 2006/18 Oct 2008

SS-41953 Ishwar Singh Purohit, AOC, 18 Mar 2006, SSC-81 (NT), 18 Oct 2006/18 Oct 2008

SS-41959 Upmanyu Singh, AC, 18 Mar 2006, SSC-81 (NT), 18 Oct 2006/18 Oct 2008

SS-41960 Atin Gupta, AAD, 18 Mar 2006, SSC-81 (NT), 18 Oct 2006/18 Oct 2008

SS-41962 Tribhuwan Kant Sharma, AAD, 18 Mar 2006, SSC-81 (NT), 18 Oct 2006/18 Oct 2008

SS-41965 D'souza Stanley John Victor Ronald, Arty, 18 Mar 2006, SSC-81 (NT), 18 Oct 2006/18 Oct 2008

SS-41967 Jadhav Sachinkumar Rajaram, Arty, 18 Mar 2006, SSC-81 (NT), 18 Oct 2006/18 Oct 2008

SS-41970 Snehal Nair, AOC, 18 Mar 2006, SSC-81 (NT), 18 Oct 2006/18 Oct 2008

SS-41973 Amit Kumar, Mech, 18 Mar 2006, SSC-81 (NT), 18 Oct 2006/18 Oct 2008

SS-41977 Abhishek Banerjee, Inf, 18 Mar 2006, SSC-81 (NT), 18 Oct 2006/18 Oct 2008

SS-41978 Deepak Rathor, AAD, 18 Mar 2006, SSC-81 (NT), 18 Oct 2006/18 Oct 2008

SS-41982 N Prasanna, Arty, 18 Mar 2006, SSC-81 (NT), 18 Oct 2006/18 Oct 2008

SS-41983 Dhruvashree Das, Inf, 18 Mar 2006, SSC-81 (NT), 18 Oct 2006/18 Oct 2008

SS-41987 Regil Raj Abraham, Arty, 18 Mar 2006, SSC-81 (NT), 18 Oct 2006/18 Oct 2008

SS-41989 Vartak Hrishikesh Sudhanshu, Arty, 18 Mar 2006, SSC-81 (NT), 18 Oct 2006/18 Oct 2008

SS-41991 Deepak Choudhary, AAD, 18 Mar 2006, SSC-81 (NT), 18 Oct 2006/18 Oct 2008

SS-41994 Ramakanth R, Arty, 18 Mar 2006, SSC-81 (NT), 18 Oct 2006/18 Oct 2008

SS-41998 Prasobh K R, Int, 18 Mar 2006, SSC-81 (NT), 18 Oct 2006/18 Oct 2008

SS-42001 Mahesh Raja, Arty, 18 Mar 2006, SSC-81 (NT), 18 Oct 2006/18 Oct 2008

JASWANT SINGH

Jt Dir

MS-8C

ARMY BRANCH

No. 118, dated 11th February 2009—The President is pleased to make the following promotions :—

TERRITORIAL ARMY TERRITORIAL COMMISSION

To be Capt

Lt C Surendra Babu (TA-42165), Engr, 16 Dec 2004

Lt M C S Premdas (TA-42298), Engr, 16 Dec 2004

Lt S N Paunikar (TA-42299), Engr, 16 Dec 2004

Lt I H Zuberi (TA-42357), Engr, 17 Feb 2004
 Lt S M Farouq (TA-42380), Engr, 16 Dec 2004
 Lt Lajja Ram Suman (TA-42403), Engr, 16 Dec 2004
 Lt Saroj Kumar (TA-42404), Engr, 16 Dec 2004
 Lt P K Asleti (TA-42119), Engr, 17 Feb 2004
 Lt V M Thomas (TA-42392), Engr, 14 Sep 2004
 Lt A B Kush (TA-42401), Engr, 12 Oct 2004
 Lt D K Sharma (TA-42393), Engr, 12 Oct 2004
 Lt N K Sidhu (TA-42400), Engr, 12 Oct 2004

JAI RAJ
 Under Secy

ARMY BRANCH

No. 119, dated 11th February 2009—The President is pleased to make the following promotions :—

REGULAR ARMY INFANTRY

The Mechanised Infantry Regiment

To be Substantive Subedar Major (GD)

Sub Dighe Parmeshwar Bajrang (JC-418392P), 01 Sep 2008

Sub Chanchal Singh (JC-418864A), 04 Oct 2008*

*(Granted seniority in the rank of Substantive Subedar wef 01 Oct 2008 without effect on pay and allowances)

Sub Umed Singh (JC-418894X), 01 Oct 2008

Sub Unni K Kumaran Nair K (JC-418440K), 01 Oct 2008

Sub Balbir Singh (JC-419407Y), 01 Oct 2008

To be Substantive Subedar (GD)

Nb Sub Sudama Prasad (JC-420057K), 15 Sep 2008*

*(Granted seniority in the rank of Substantive Subedar wef 01 Feb 2008 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Sinam Bimon Singh (JC-420143P), 01 Apr 2008

Nb Sub Maya Dhari (JC-420127X), 01 Jun 2008

Nb Sub Sri Narendra Singh Tomar (JC-420147L), 09 Jul 2008*

*(Granted seniority in the rank of Substantive Subedar wef 01 Jul 2008 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Bharat Singh (JC-420195L), 02 Jul 2008*

*(Granted seniority in the rank of Substantive Subedar wef 01 Jul 2008 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Subhash Chand (JC-420073F), 05 Sep 2008*

*(Granted seniority in the rank of Substantive Subedar wef 01 Aug 2008 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Raj Kumar Singh (JC-420105Y), 18 Aug 2008*

*(Granted seniority in the rank of Substantive Subedar wef 01 Aug 2008 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Purkha Ram (JC-420268M), 01 Sep 2008*

*(Granted seniority in the rank of Substantive Subedar wef 01 Aug 2008 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Hari Shankar (JC-420352M), 22 Sep 2008*

*(Granted seniority in the rank of Substantive Subedar wef 01 Aug 2008 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Surjeet Singh (JC-420557F), 11 Sep 2008*

*(Granted seniority in the rank of Substantive Subedar wef 01 Aug 2008 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Ashok Kumar Patial (JC-419907W), 30 Sep 2008*

*(Granted seniority in the rank of Substantive Subedar wef 01 Sep 2008 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Jagmal Singh (JC-419932P), 01 Sep 2008

Nb Sub Babu Lal (JC-419959M), 01 Sep 2008

Nb Sub Vish Ram (JC-420005N), 07 Sep 2008*

*(Granted seniority in the rank of Substantive Subedar wef 01 Sep 2008 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Kundan Lal (JC-419989K), 25 Sep 2008*

*(Granted seniority in the rank of Substantive Subedar wef 01 Sep 2008 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Prithwi Singh Bhatia (JC-419996A), 01 Sep 2008

Nb Sub Ghanshyam Sharma (JC-420020H), 07 Sep 2008*

*(Granted seniority in the rank of Substantive Subedar wef 01 Sep 2008 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Sunder Kumar (JC-420074K), 03 Sep 2008*

*(Granted seniority in the rank of Substantive Subedar wef 01 Sep 2008 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Bhulon Ghosh (JC-420065H), 01 Sep 2008

Nb Sub Chet Ram (JC-420066L), 01 Sep 2008

Nb Sub Hari Singh Rawat (JC-420138K), 01 Sep 2008

Nb Sub Ranjit Singh (JC-420097L), 01 Sep 2008

Nb Sub Lachhman Dev (JC-420121W), 01 Sep 2008

Nb Sub Dilwar Singh (JC-420144X), 01 Sep 2008

Nb Sub Jagannath Prasad (JC-420272P), 01 Sep 2008

Nb Sub Ram Naresh (JC-420315Y), 29 Sep 2008*

*(Granted seniority in the rank of Substantive Subedar wef 01 Sep 2008 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Rambir Singh (JC-420382K), 01 Sep 2008

Nb Sub Jag Bahadur Gurung (JC-420448P), 11 Sep 2008*

*(Granted seniority in the rank of Substantive Subedar wef 01 Sep 2008 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Ashok Bahadur (JC-420450M), 01 Sep 2008

Nb Sub Bhajan Singh (JC-420451P), 01 Sep 2008

Nb Sub Resham Lal (JC-420463K), 01 Sep 2008

Nb Sub Shiva Putrappa Irappa (JC-419830Y), 01 Oct 2008

Nb Sub Sat Paul (JC-420200L), 01 Oct 2008

Nb Sub Kale Balasaheb Santaram (JC-420211X), 01 Oct 2008

Nb Sub Raman Lal Dayal (JC-420342H), 01 Oct 2008

Nb Sub Virpal Singh (JC-420380Y), 01 Oct 2008

Nb Sub Puran Singh Gurung (JC-420453A), 03 Oct 2008*

*(Granted seniority in the rank of Substantive Subedar wef 01 Oct 2008 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Susil Kumar Madhu Kumar Vaidya (JC-420510W), 01 Oct 2008

Nb Sub Thothi Ram Samkria (JC-420549M), 01 Oct 2008

BRIGADE OF THE GUARDS

To be Subedar Major

Sub Bhola Prasad Sinha (JC-402515M), 01 Sep 2008

Sub Ram Dev (JC-402562K), 01 Sep 2008

Sub Anil Kumar Mishra (JC-402869P), 03 Sep 2008*

*(Granted seniority in the rank of Subedar Major wef 01 Sep 2008 without effect on pay and allowances)

Sub Raghuvir Singh Punia (JC-402922P), 01 Oct 2008

To be Subedar

Nb Sub Bhagwati Prasad (JC-403637H), 09 Sep 2008*

*(Granted seniority in the rank of Subedar wef 01 Jun 2008 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Sarbeswar Sakia (JC-403803L), 25 Oct 2008*

*(Granted seniority in the rank of Subedar wef 04 Jun 2008 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Binod Kumar Singh (JC-403201X), 26 Sep 2008*

*(Granted seniority in the rank of Subedar wef 01 Jul 2008 without effect on pay and allowances)

Nb Sub M Srinivas Rao (JC-403556H), 01 Jul 2008

Nb Sub Nathu Lal (JC-403793M), 17 Aug 2008*

*(Granted seniority in the rank of Subedar wef 01 Jul 2008 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Dhan Bahadur Chhettri (JC-403910M), 25 Sep 2008*

*(Granted seniority in the rank of Subedar wef 01 Jul 2008 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Sasi N (JC-403602N), 20 Jul 2008

Nb Sub S Baskaran (JC-403769W), 20 Jul 2008

Nb Sub Ashok Kumar (JC-403822W), 01 Aug 2008

Nb Sub Kunja Bihari Parida (JC-404006M), 01 Aug 2008

Nb Sub Chada Ram Ramu (JC-403623H), 15 Aug 2008

Nb Sub Banarasi Yadav (JC-403647M), 21 Sep 2008*

*(Granted seniority in the rank of Subedar wef 18 Aug 2008 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Mohan Thakur (JC-403560L), 24 Oct 2008*

*(Granted seniority in the rank of Subedar wef 20 Aug 2008 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Lalta Prasad (JC-403588L), 01 Sep 2008

Nb Sub Nekram Singh Sogarwal (JC-403674W), 01 Sep 2008

Nb Sub Kameshwar Singh (JC-403683X), 21 Sep 2008*

*(Granted seniority in the rank of Subedar wef 01 Sep 2008 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Purna Ch Ray (JC-403732P), 22 Sep 2008*

*(Granted seniority in the rank of Subedar wef 01 Sep 2008 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Bidya Singh Tamang (JC-403775K), 11 Oct 2008*

*(Granted seniority in the rank of Subedar wef 01 Sep 2008 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Awadhesh Kumar (JC-403890K), 21 Sep 2008*

*(Granted seniority in the rank of Subedar wef 01 Sep 2008 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Ashok Kumar (JC-403935Y), 23 Sep 2008*

*(Granted seniority in the rank of Subedar wef 01 Sep 2008 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Mahipal Singh (JC-403644Y), 14 Oct 2008*

*(Granted seniority in the rank of Subedar wef 01 Oct 2008 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Satish Kumar (JC-403694K), 03 Oct 2008*

*(Granted seniority in the rank of Subedar wef 01 Oct 2008 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Ram Kumar Sharma (JC-403720A), 01 Oct 2008

Nb Sub Pradeep Kumar (JC-403754N), 11 Oct 2008*

*(Granted seniority in the rank of Subedar wef 01 Oct 2008 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Chattar Pal Pandey (JC-403759M), 01 Oct 2008

Nb Sub Puran Singh Bhandari (JC-403865L), 01 Oct 2008

Nb Sub Joga Singh (JC-403938M), 09 Oct 2008*

*(Granted seniority in the rank of Subedar wef 01 Oct 2008 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Ramayan Singh (JC-403651P), 01 Nov 2008

Nb Sub Ranbir Singh (JC-403761K), 01 Nov 2008

Nb Sub Man Singh Makwana (JC-403838F), 01 Nov 2008

To be Subedar (Clerk)

Nb Sub (Clk) Shri Krishan (JC-403621X), 01 Aug 2008

Nb Sub (Clk) Gulab Chand (JC-403663K), 01 Sep 2008

Nb Sub (Clk) Ram Pratap (JC-403743F), 01 Nov 2008

To be Nb Sub

Hav Sundra Singh Bhandari (No. 13688113A now JC-44302X), 17 Jul 2008*

*(Granted seniority in the rank of Naib Subedar wef 01 Jun 2008 without effect on pay and allowances)

Hav Vinod Kumar (No. 13689590N now JC-404309F), 24 Jul 2008*

*(Granted seniority in the rank of Naib Subedar wef 04 Jun 2008 without effect on pay and allowances)

Hav Jag Narayan Singh (No. 13689836F now JC-404310W), 24 Jul 2008*

*(Granted seniority in the rank of Naib Subedar wef 06 Jun 2008 without effect on pay and allowances)

Hav Rakesh Kumar (No. 13688392W now JC-404338W), 11 Jun 2008

Hav Narendra Singh (No. 13690032Y now JC-404350X), 29 Jul 2008

Hav Venu Gopalan Nair PK (No. 13690687L now JC-404359M), 29 Jul 2008

Hav Santhosh Kumar N (No. 13692010Y now JC-404360F), 29 Jul 2008

Hav Vinod V V (No. 13692994F now JC-404361K), 29 Jul 2008

Hav Peerikatla Chandri Naidu (No. 13693098A now JC-404362M), 15 Aug 2008

Hav Rampal Bhumbla (No. 13690833A now JC-404365A), 01 Oct 2008

Hav Raghubir Singh (No. 13691339W now JC-404366H), 01 Oct 2008

Hav Sheesh Ram Gujar (No. 13689818Y now JC-404367L), 01 Nov 2008

Hav Brij Shyam Tiwari (No. 13688148W now JC-404368N), 01 Nov 2008

Hav Raghunatha M (No. 13690048K now JC-404369W), 01 Nov 2008

Hav Shiv Bali Yadav (No. 13693028F now JC-404370L), 01 Nov 2008

To be Nb Sub (Clerk)

Hav (Clk) Chandra Kant (No. 13687605M now JC-404342Y), 01 Aug 2008

Hav (Clk) Prem Dhani Ram (No. 13687639A now JC-404344K), 01 Sep 2008

RECORDS THE MIR

To be Nb Sub

Hav (DVRAFV) Sarbjeet Singh (No. 14912314A now JC-421051P), 18 Aug 2008*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 06 Jul 2008 without effect on pay and allowances)

Hav (GNRPT) Parmar Narubha Karnubha (No. 14915176P now JC-421052X), 25 Aug 2008*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 24 Jul 2008 without effect on pay and allowances)

Hav (DVRAFV) Mohan Lal Gujjar (No. 14912959H now JC-421053A), 25 Aug 2008*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Aug 2008 without effect on pay and allowances)

Hav (GNRPT) Suresh Chand (No. 14914061P now JC-421054H), 25 Aug 2008*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Aug 2008 without effect on pay and allowances)

Hav (GNRPT) Sucha Singh (No. 14911873X now JC-421055L), 01 Aug 2008*

Hav (GNRPT) Solanke Digamber Bapu Rao (No. 14914876W now JC-421056N), 02 Sep 2008*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Aug 2008 without effect on pay and allowances)

Hav (OW AFV) Bijender Singh (No. 14915795H now JC-421057W), 05 Sep 2008*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Aug 2008 without effect on pay and allowances)

Hav (DVRAFV) Suresh Kumar (No. 14914327W now JC-421058Y), 08 Sep 2008*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Aug 2008 without effect on pay and allowances)

Hav (DVRAFV) Ganna Varapu Tirupati Rao (No. 14914527M now JC-421059F), 25 Aug 2008*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Aug 2008 without effect on pay and allowances)

Hav (DVRAFV) Prafulla Chandra Mohant (No. 14914996P now JC-421060W), 25 Aug 2008*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Aug 2008 without effect on pay and allowances)

Hav (DVRAFV) Enamul Haque Ansari (No. 14915119N now JC-421061Y), 25 Aug 2008*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Aug 2008 without effect on pay and allowances)

Hav (OW AFV) Arvind Kumar (No. 14914082L now JC-421062F), 25 Aug 2008*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Aug 2008 without effect on pay and allowances)

Hav (DVRAFV) Kanhiya Lal Gurjar (No. 14918629A now JC-421063K), 01 Aug 2008

Hav (DVRAFV) Moni Oommen (No. 14918669F now JC-421064M), 01 Aug 2008

Hav (GNRPT) Anil Kumar (No. 14918673K now JC-421065P), 01 Aug 2008

Hav (GNRPT) Ali Hussain (No. 14912023A now JC-421066X), 02 Aug 2008

Hav (DVRAFV) Uday Singh (No. 14915734L now JC-421067A), 04 Sep 2008*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 25 Aug 2008 without effect on pay and allowances)

Hav (GNRPT) Birendar Datt (No. 14910211H now JC-421068H), 01 Sep 2008

Hav (DVRAFV) Nobat Singh (No. 14909357K now JC-421069L), 09 Sep 2008*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Sep 2008 without effect on pay and allowances)

Hav (DVRAFV) Pritam Chand (No. 14912670A now JC-421070H), 01 Sep 2008

Hav (DVRAFV) Raj Deo Singh Yadav (No. 14914553N now JC-421071H), 04 Sep 2008*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Sep 2008 without effect on pay and allowances)

Hav (DVRAFV) Mani K (No. 14913426M now JC-421072L), 01 Sep 2008

Hav (GNRPT) Tej Pal (No. 14914644X now JC-421073N), 01 Sep 2008

Hav (DVRAFV) Yogender Singh (No. 14915681X now JC-421074W), 28 Sep 2008*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Sep 2008 without effect on pay and allowances)

Hav (GNRPT) Ramu Prasad (No. 14914037Y now JC-421075Y), 01 Sep 2008

Hav (OW AFV) Hawa Singh (No. 14914263W now JC-421076F), 01 Sep 2008

Hav (OW AFV) Govind Singh (No. 14914003L now JC-421077K), 01 Sep 2008

Hav (DVRAFV) Beer Val (No. 14913152M now JC-421078M), 01 Sep 2008

Hav (DVRAFV) Jasminder Singh (No. 14916206N now JC-421079P), 05 Sep 2008*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Sep 2008 without effect on pay and allowances)

Hav (OW AFV) Kishori Prasad (No. 14914271P now JC-421080K), 07 Sep 2008*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Sep 2008 without effect on pay and allowances)

Hav (DVRAFV) Jai Pal (No. 14916805N now JC-421081M), 08 Sep 2008*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Sep 2008 without effect on pay and allowances)

Hav (GNRPT) Ram Murti (No. 14914174X now JC-421082P), 01 Sep 2008

Hav (DVRAFV) Nar Singh (No. 14914260H now JC-421083X), 01 Sep 2008

Hav (OW AFV) Ram Prakash Yadav (No. 14915268F now JC-421084A), 08 Sep 2008*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Sep 2008 without effect on pay and allowances)

Hav (GNRPT) Jai Singh (No. 14915157K now JC-421085H), 07 Sep 2008*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Sep 2008 without effect on pay and allowances)

Hav (GNRPT) Vinod Kumar (No. 14915214A now JC-421086L), 07 Sep 2008*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Sep 2008 without effect on pay and allowances)

Hav (GNRPT) Mahipal Singh (No. 14916164M now JC-421087N), 04 Sep 2008*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Sep 2008 without effect on pay and allowances)

Hav (DVRAFV) Pabu Singh (No. 2989512F now JC-421088W), 17 Sep 2008*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 02 Sep 2008 without effect on pay and allowances)

Hav (DVRAFV) Prakash Chand (No. 14907409W now JC-421089Y), 30 Sep 2008*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Sep 2008 without effect on pay and allowances)

Hav (OW AFV) Surendar Singh (No. 14912906K now JC-421090N), 18 Sep 2008*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 15 Sep 2008 without effect on pay and allowances)

ARMoured CORPS

To be Naib Risaldar

Dfr Sree Kumar S (No. 15464339P now JC-242943K), 19 Jun 2008*

*(Granted seniority in the rank of Nb Ris wef 01 May 2008 without effect on pay and allowances)

Dfr Ashok Kumar Singh (No. 10750471I now JC-242991K), 01 Jun 2008

Dfr Shiv Singh (No. 1075343N now JC-242992M), 02 Jun 2008*

*(Granted seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Jun 2008 without effect on pay and allowances)

Dfr Chanan Singh Bhati (No. 1077023X now JC-242996H), 01 Jun 2008

Dfr Birendra Singh Kushwah (No. 1077396L now JC-243003L), 02 Jun 2008*

*(Granted seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Jun 2008 without effect on pay and allowances)

Dfr Jadhav Appaso Bhauso (No. 1077498F now JC-243005W), 02 Jun 2008*

*(Granted seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Jun 2008 without effect on pay and allowances)

Dfr Sunil Kumar Pandey (No. 1098841M now JC-243007F), 09 Jul 2008*

*(Granted seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Jun 2008 without effect on pay and allowances)

Dfr Bijender Singh (No. 1084848L now JC-243013P), 01 Jul 2008

Dfr Raj Kumar (No. 1084059Y now JC-243023Y), 03 Jun 2008*

*(Granted seniority in the rank of Nb Ris wef 12 Feb 2008 without effect on pay and allowances)

Dfr Raveendran Nair M (No. 1085302X now JC-243024F), 05 Jun 2008*

*(Granted seniority in the rank of Nb Ris wef 03 Mar 2008 without effect on pay and allowances)

Dfr Balwinder Singh (No. 1083283Y now JC-243025K), 09 Jun 2008*

*(Granted seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Apr 2008 without effect on pay and allowances)

Dfr Jaswinder Singh (No. 1084473X now JC-243026M), 06 Jun 2008*

*(Granted seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Apr 2008 without effect on pay and allowances)

Dfr Satnam Singh (No. 1086018N now JC-243027P), 13 Jun 2008*

*(Granted seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Apr 2008 without effect on pay and allowances)

Dfr Himane Mohan Hariba (No. 1086802F now JC-243028X), 31 May 2008*

*(Granted seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Apr 2008 without effect on pay and allowances)

Dfr Shivdan Singh Hada (No. 1084180M now JC-243029A), 17 Jun 2008*

*(Granted seniority in the rank of Nb Ris wef 01 May 2008 without effect on pay and allowances)

Dfr Nardeshwar Singh (No. 1084446N now JC-243030P), 11 Jun 2008*

*(Granted seniority in the rank of Nb Ris wef 01 May 2008 without effect on pay and allowances)

Dfr Satrugan Singh (No. 1086887H now JC-243031X), 04 Jun 2008*

*(Granted seniority in the rank of Nb Ris wef 11 May 2008 without effect on pay and allowances)

Dfr Shaik Abdul Rajak (No. 1076299F now JC-243033H), 21 Jun 2008*

*(Granted seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Jun 2008 without effect on pay and allowances)

Dfr Tirlok Chand (No. 1084307K now JC-243032A), 07 Jun 2008*

*(Granted seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Jun 2008 without effect on pay and allowances)

Dfr Raj Singh (No. 1082628H now JC-243034L), 19 Jun 2008*

*(Granted seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Jun 2008 without effect on pay and allowances)

Dfr Shiva Pratap Singh (No. 1084694K now JC-243036W), 19 Jun 2008*

*(Granted seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Jun 2008 without effect on pay and allowances)

Dfr Manjit Singh (No. 1079595X now JC-243037Y), 17 Jun 2008*

*(Granted seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Jun 2008 without effect on pay and allowances)

Dfr Om Prakash Sharma (No. 1082370A now JC-243038F), 04 Jun 2008*

*(Granted seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Jun 2008 without effect on pay and allowances)

Dfr Jagroop Singh (No. 1084503K now JC-243039K), 17 Jun 2008*

*(Granted seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Jun 2008 without effect on pay and allowances)

Dfr Ram Kumar (No. 1085843Y now JC-243040Y), 09 Jun 2008*

*(Granted seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Jun 2008 without effect on pay and allowances)

Dfr Ram Kumar (No. 1082393F now JC-243041F), 04 Jun 2008*

*(Granted seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Jun 2008 without effect on pay and allowances)

Dfr Krishana Kumar Singh (No. 1084670A now JC-243042K), 17 Jun 2008*

*(Granted seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Jun 2008 without effect on pay and allowances)

Dfr Joymon Joseph (No. 1087397F now JC-243043M),
04 Jun 2008*

*(Granted seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Jun 2008 without effect on pay and allowances)

Dfr Ranbir Singh (No. 1086039K now JC-243044P),
09 Jun 2008*

*(Granted seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Jun 2008 without effect on pay and allowances)

Dfr Satish Kumar (No. 1082891N now JC-243045X),
09 Jun 2008*

*(Granted seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Jun 2008 without effect on pay and allowances)

Dfr Lekh Ram (No. 1084659F now JC-243046A),
11 Jun 2008*

*(Granted seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Jun 2008 without effect on pay and allowances)

Dfr S Mahalingam (No. 1085839W now JC-243047H),
09 Jun 2008*

*(Granted seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Jun 2008 without effect on pay and allowances)

Dfr Balbir Singh (No. 1088454K now JC-243048L),
09 Jun 2008*

*(Granted seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Jun 2008 without effect on pay and allowances)

Dfr Dileep Kumar MS (No. 15464626Y now JC-243049N), 12 Jun 2008*

*(Granted seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Jun 2008 without effect on pay and allowances)

Dfr Marimuthu K (No. 15464790F now JC-243050H),
12 Jun 2008*

*(Granted seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Jun 2008 without effect on pay and allowances)

Dfr Bachchu Singh (No. 1082270P now JC-243051L),
20 Jun 2008*

*(Granted seniority in the rank of Nb Ris wef 04 Jun 2008 without effect on pay and allowances)

Dfr Kulwant Singh (No. 1083896Y now JC-243054Y),
01 Jul 2008*

Dfr Balbir Singh (No. 1084366W now JC-243055F),
24 Jun 2008*

*(Granted seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Feb 2008 without effect on pay and allowances)

Dfr Arjun Singh (No. 1081772L now JC-243057M),
19 Jun 2008*

*(Granted seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Jun 2008 without effect on pay and allowances)

Dfr Charan Singh (No. 1086589M now JC-243058P), 26
Jun 2008*

*(Granted seniority in the rank of Nb Ris wef 15 Mar 2008 without effect on pay and allowances)

Dfr Rambir Singh (No. 1082886H now JC-243060M),
23 Jun 2008*

*(Granted seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Apr 2008 without effect on pay and allowances)

Dfr Neelappa Mallur (No. 1086009M now JC-243061P),
23 Jun 2008*

*(Granted seniority in the rank of Nb Ris wef 01 May 2008 without effect on pay and allowances)

Dfr Sawinder Singh (No. 1083961N now JC-243062X),
20 Jun 2008*

*(Granted seniority in the rank of Nb Ris wef 16 May 2008 without effect on pay and allowances)

Dfr Rambir Singh (No. 1082271X now JC-243063A),
23 Jun 2008*

*(Granted seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Jun 2008 without effect on pay and allowances)

Dfr Gurmeet Singh (No. 1089592X now JC-243064H),
18 Jun 2008*

*(Granted seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Jun 2008 without effect on pay and allowances)

Dfr Yashpal Singh (No. 1082969N now JC-243065L),
18 Jun 2008*

*(Granted seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Jun 2008 without effect on pay and allowances)

Dfr Rameshwar Lal (No. 1082283M now JC-243067W),
12 Jun 2008*

*(Granted seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Jun 2008 without effect on pay and allowances)

Dfr Mane Ashok Narayan (No. 1086511F now JC-243068Y), 02 Jul 2008*

*(Granted seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Jun 2008 without effect on pay and allowances)

Dfr Bhoopendra Singh (No. 1089040K now JC-243069F),
20 Jun 2008*

*(Granted seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Jun 2008 without effect on pay and allowances)

Dfr Surinder Singh (No. 1079059P now JC-243071Y),
01 Jul 2008*

*(Granted seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Jun 2008 without effect on pay and allowances)

Dfr Omprakash Singh (No. 1082881K now JC-243072F),
30 Jun 2008*

*(Granted seniority in the rank of Nb Ris wef 07 Jun 2008 without effect on pay and allowances)

Dfr Surinder Kumar (No. 1082919H now JC-243073K),
27 Jun 2008*

*(Granted seniority in the rank of Nb Ris wef 18 Jun
2008 without effect on pay and allowances)

Dfr Asgar Ali (No. 1086126X now JC-243074M),
02 Jul 2008*

*(Granted seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Jul
2008 without effect on pay and allowances)

Dfr Narendra Singh (No. 1088940F now JC-243075P),
02 Jul 2008*

*(Granted seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Jul
2008 without effect on pay and allowances)

Dfr Sher Singh (No. 1085405W now JC-243081H),
01 Jul 2008

Dfr Sajjan Singh (No. 1085404N now JC-243082L),
01 Jul 2008

Dfr Binteshwar Singh (No. 1084529Y now JC-243083N),
09 Jul 2008*

*(Granted seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Jul
2008 without effect on pay and allowances)

Dfr Daniel M (No. 1085153P now JC-243084W), 07 Jul
2008*

*(Granted seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Jul
2008 without effect on pay and allowances)

Dfr Balkar Singh (No. 1085646W now JC-243085Y),
02 Jul 2008*

*(Granted seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Jul
2008 without effect on pay and allowances)

Dfr Devendra Singh (No. 1086703Y now JC-243086F),
01 Jul 2008

Dfr Lal Singh (No. 1085973F now JC-243088M), 02 Jul
2008*

*(Granted seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Jul
2008 without effect on pay and allowances)

Dfr Gorakh Pal (No. 1084207Y now JC-243090K),
01 Jul 2008*

Dfr Parkash Chand (No. 1079087F now JC-243092P),
04 Jul 2008*

*(Granted seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Jul
2008 without effect on pay and allowances)

Dfr Raj Bahadur Pal (No. 1098935K now JC-242656A),
03 May 2008*

*(Granted seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Jan
2008 without effect on pay and allowances)

Dfr Rajinder Singh (No. 1083373A now JC-242735P),
15 Feb 2008*

*(Granted seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Jan
2008 without effect on pay and allowances)

Dfr Chandan Singh (No. 1079449X now JC-242772H),
15 Mar 2008*

*(Granted seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Jan
2008 without effect on pay and allowances)

Dfr Swarrop Ram (No. 1088995L now JC-242782M),
05 Mar 2008*

*(Granted seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Feb
2008 without effect on pay and allowances)

Dfr Raj Kumar Singh (No. 1082993K now JC-242788N),
28 Apr 2008*

*(Granted seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Mar
2008 without effect on pay and allowances)

Dfr Seraman Iramboraik (No. 1085263K now JC-
242809Y), 22 Apr 2008*

*(Granted seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Feb
2008 without effect on pay and allowances)

Dfr Ramesh Chand (No. 1082068F now JC-242810N),
13 Apr 2008*

*(Granted seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Feb
2008 without effect on pay and allowances)

Dfr Naresh Kumar (No. 1080953K now JC-242814K),
20 Mar 2008*

*(Granted seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Feb
2008 without effect on pay and allowances)

Dfr Bulu Hazarika (No. 1075959F now JC-242821A),
12 Apr 2008*

*(Granted seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Mar
2008 without effect on pay and allowances)

Dfr Sandokhu Ram (No. 1084379N now JC-242830F),
15 Apr 2008*

*(Granted seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Jan
2008 without effect on pay and allowances)

Dfr Hira Singh (No. 1082906L now JC-242841N),
29 Mar 2008*

*(Granted seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Mar
2008 without effect on pay and allowances)

Dfr Arjun Singh (No. 1083483P now JC-242842W),
01 Apr 2008*

*(Granted seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Mar
2008 without effect on pay and allowances)

Dfr Dinesh Singh (No. 1081896A now JC-242843Y),
11 Apr 2008*

*(Granted seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Mar
2008 without effect on pay and allowances)

Dfr Mangat Ram (No. 1084381L now JC-242845K),
03 Apr 2008*

*(Granted seniority in the rank of Nb Ris wef 21 Mar
2008 without effect on pay and allowances)

Dfr Tarsem Singh (No. 1082412F now JC-242855M),
13 Apr 2008*

*(Granted seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Apr 2008 without effect on pay and allowances)

Dfr Pratap Singh (No. 1080490A now JC-242855N),
13 Apr 2008*

*(Granted seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Apr 2008 without effect on pay and allowances)

Dfr Braj Raj Singh (No. 1083068N now JC-242869N),
13 Apr 2008*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Apr 2008 without effect on pay and allowances)

Dfr Bal Raj Singh Kaundai (No. 1081217X now JC-242872N), 15 Apr 2008*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 07 Jan 2008 without effect on pay and allowances)

Dfr Dharmana Suryanarayana (No. 1085660H now JC-242873W), 26 Apr 2008*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Feb 2008 without effect on pay and allowances)

Dfr Gajraj Singh Yadav (No. 1083647A now JC-242878P), 17 Apr 2008*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Jan 2008 without effect on pay and allowances)

Dfr Balraj Singh (No. 1080137N now JC-242879X),
26 Apr 2008*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Mar 2008 without effect on pay and allowances)

Dfr Rajan EK (No. 1085715F now JC-242880M),
19 Apr 2008*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Mar 2008 without effect on pay and allowances)

Dfr Govind Singh Choudhary (No. 1081613N now JC-242881P), 12 Apr 2008*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 04 Mar 2008 without effect on pay and allowances)

Dfr Rajpal Singh (No. 1076437X now JC-242882X),
04 Apr 2008*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 16 Mar 2008 without effect on pay and allowances)

Dfr Hardev Singh Thakur (No. 1086711X now JC-242883A), 06 Apr 2008*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 25 Mar 2008 without effect on pay and allowances)

Dfr Grunam Singh (No. 1077399Y now JC-242884H),
04 Apr 2008*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Apr 2008 without effect on pay and allowances)

Dfr Charanjit Singh (No. 1081256W now JC-242885L),
28 Apr 2008*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Apr 2008 without effect on pay and allowances)

Dfr Shish Ram (No. 1081807W now JC-242886N),
28 Apr 2008*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Apr 2008 without effect on pay and allowances)

Dfr Dalbir Singh (No. 1078677N now JC-242887W),
15 Apr 2008*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Apr 2008 without effect on pay and allowances)

Dfr Tarlok Singh (No. 1082813W now JC-242888Y),
05 Apr 2008*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Apr 2008 without effect on pay and allowances)

Dfr Ramesh Kumar (No. 1079407L now JC-242889F),
15 Apr 2008*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Apr 2008 without effect on pay and allowances)

Dfr Muhamad Anwar Ali (No. 1075752F now JC-242890W), 04 Apr 2008*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Apr 2008 without effect on pay and allowances)

Dfr Prafulla Mohan (No. 1075976F now JC-242893K),
16 Apr 2008*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Apr 2008 without effect on pay and allowances)

Dfr Sukh Dev Singh (No. 1083423A now JC-242895P),
08 May 2008*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Apr 2008 without effect on pay and allowances)

Dfr Inder Singh (No. 1086100H now JC-242896Y),
29 Apr 2008*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Apr 2008 without effect on pay and allowances)

Dfr Krishan Singh (No. 1084793M now JC-242897A),
29 Apr 2008*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Apr 2008 without effect on pay and allowances)

Dfr Babu Lal (No. 1083050X now JC-242898H),
20 Apr 2008*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Apr 2008 without effect on pay and allowances)

Dfr Dharambir Singh (No. 1079955H now JC-242899L),
11 Apr 2008*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Apr 2008 without effect on pay and allowances)

Dfr Gautam Singh (No. 1082211H now JC-242900P),
29 Apr 2008*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Apr 2008
without effect on pay and allowances)

Dfr Maneger Singh (No. 1082575P now JC-242901X),
20 Apr 2008*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Apr 2008
without effect on pay and allowances)

Dfr Kamal Kishore (No. 1081872W now JC-242902A),
07 May 2008*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Apr 2008
without effect on pay and allowances)

Dfr Ashok Kumar (No. 1087259A now JC-242903H),
10 Apr 2008*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Apr 2008
without effect on pay and allowances)

Dfr Sirajudeen A (No. 1085557X now JC-242907Y), 28
Apr 2008*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Apr 2008
without effect on pay and allowances)

Dfr Manjit Singh (No. 1086166Y now JC-242908F), 14
May 2008*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Apr 2008
without effect on pay and allowances)

Dfr Shiv Dutt (No. 1083149N now JC-242909K),
10 May 2008*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Apr 2008
without effect on pay and allowances)

Dfr Sukhchain Singh (No. 1084724W now JC-242911F),
07 Apr 2008*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Apr 2008
without effect on pay and allowances)

Dfr Mahendra Singh Khadga (No. 1098749N now JC-
242912K), 17 Apr 2008*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Apr 2008
without effect on pay and allowances)

Dfr Rameshwer Singh (No. 1087366F now JC-242913M),
06 Apr 2008*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Apr 2008
without effect on pay and allowances)

Dfr Randhir Singh (No. 1084819W now JC-242914P),
04 Apr 2008*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Apr 2008
without effect on pay and allowances)

Dfr Chaman Lal (No. 1087429Y now JC-242917H),
06 Apr 2008*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Apr 2008
without effect on pay and allowances)

Dfr Amar Nath (No. 1083251W now JC-242915X), 07
May 2008*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Apr 2008
without effect on pay and allowances)

Dfr Lakhwinder Singh (No. 1083599L now JC-242916A),
07 May 2008*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Apr 2008
without effect on pay and allowances)

Dfr P Jaya Sankar (No. 15464257M now JC-242918L),
05 Apr 2008*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Apr 2008
without effect on pay and allowances)

Dfr Ranvir (No. 1087741F now JC-242919N), 15 Apr
2008*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Apr 2008
without effect on pay and allowances)

Dfr Mohinder Singh (No. 1082190X now JC-242921L),
14 Apr 2008*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Apr 2008
without effect on pay and allowances)

Dfr Kashmir Singh (No. 1083724K now JC-242922N),
14 Apr 2008*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Apr 2008
without effect on pay and allowances)

Dfr Rakesh Singh (No. 1080473A now JC-242923W),
28 Apr 2008*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Apr 2008
without effect on pay and allowances)

Dfr Mohinder Singh (No. 1083522H now JC-242924Y),
12 Apr 2008*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Apr 2008
without effect on pay and allowances)

Dfr Manohar Singh (No. 1086311L now JC-242925F),
14 May 2008*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Apr 2008
without effect on pay and allowances)

Dfr Rajwant Singh (No. 1083514K now JC-242926K),
28 Apr 2008*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Apr 2008
without effect on pay and allowances)

Dfr Nawin Kumar Chaudhary (No. 1079100A now JC-
242927M), 10 Apr 2008*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Apr 2008
without effect on pay and allowances)

Dfr Balbir Singh (No. 1081574A now JC-242928P),
02 May 2008*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 01 May 2008
without effect on pay and allowances)

Dfr Suleman Kathat (No. 1080411A now JC-242929X),
08 May 2008*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 01 May 2008
without effect on pay and allowances)

Dfr V Chandra Babu Naidu (No. 1081853L now JC-
242930M), 10 May 2008*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 01 May 2008
without effect on pay and allowances)

Dfr Yogender Singh Yadava (No. 1082614H now JC-
242931P), 08 May 2008*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 01 May 2008
without effect on pay and allowances)

Dfr Naresh Chandra Yadav (No. 1082672M now JC-
242932X), 08 May 2008*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 01 May 2008
without effect on pay and allowances)

Dfr Raghveer Singh (No. 1081634K now JC-242933A),
01 May 2008

Dfr Chavan Shivaji Raja Ram (No. 1081302A now JC-
242934H), 01 May 2008

Dfr Narayan Ganpat Kanse (No. 1082196Y now JC-
242935L), 01 May 2008

Dfr Som Dutt (No. 1082630A now JC-242936N), 01
May 2008

Dfr Kulwant Singh (No. 1086501X now JC-242937W),
01 May 2008

Dfr Balbir Singh (No. 1079157P now JC-242938Y),
03 May 2008*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 01 May 2008
without effect on pay and allowances)

Dfr Desh Raj Singh (No. 1082928K now JC-242939F),
12 May 2008*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 01 May 2008
without effect on pay and allowances)

Dfr Madan Lal (No. 1078485W now JC-242940W),
10 May 2008*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 01 May 2008
without effect on pay and allowances)

Dfr Hari Saran (No. 1086665N now JC-242941Y),
03 May 2008*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 01 May 2008
without effect on pay and allowances)

Dfr Bodu Ram (No. 1083875H now JC-242942F),
02 May 2008*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 01 May 2008
without effect on pay and allowances)

Dfr Surain Singh (No. 1083812A now JC-242944M),
07 May 2008*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 01 May 2008
without effect on pay and allowances)

Dfr Veer Singh (No. 1085241L now JC-242945P), 05
May 2008*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 01 May 2008
without effect on pay and allowances)

Dfr Bed Ram (No. 1085861F now JC-242946X),
03 May 2008*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 01 May 2008
without effect on pay and allowances)

Dfr Sukh Dev Singh (No. 1083198W now JC-242947A),
07 May 2008*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 01 May 2008
without effect on pay and allowances)

Dfr Baljit Singh (No. 1083346W now JC-242948H),
05 May 2008*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 01 May 2008
without effect on pay and allowances)

Dfr Deenu Khan (No. 1086494M now JC-242949L),
12 May 2008*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 01 May 2008
without effect on pay and allowances)

Dfr Kesho Dass (No. 1087120H now JC-242950A), 12
May 2008*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 01 May 2008
without effect on pay and allowances)

Dfr Surinder Singh (No. 1084453K now JC-242951H),
01 May 2008

Dfr Rakesh Kumar (No. 1083073Y now JC-242952L),
10 May 2008*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 01 May 2008
without effect on pay and allowances)

Dfr Raghubir Singh (No. 1078554F now JC-242892F),
14 Apr 2008*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Apr 2008
without effect on pay and allowances)

Dfr Pramod Kumar (No. 1078015L now JC-242874Y),
01 May 2008*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 17 Oct 2007
without effect on pay and allowances)

Dfr Dashrath Singh Rathore (No. 1084466F now JC-
242833P), 19 Apr 2008*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Jan 2008
without effect on pay and allowances)

Dfr Karnail Singh (No. 1081501N now JC-242826Y),
10 Mar 2008*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Mar 2008
without effect on pay and allowances)

Dfr Shamsher Singh (No. 1083371P now JC-242748M),
14 Feb 2008*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Feb 2008
without effect on pay and allowances)

Dfr Shyam Kumar Ogha (No. 1077924K now JC-
242803X), 13 May 2008*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Jan 2008
without effect on pay and allowances)

Dfr Surjit Singh (No. 1084197A now JC-242862K),
23 May 2008*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Apr 2008
without effect on pay and allowances)

Dfr Ramalo Ram (No. 1078556M now JC-242877M),
12 May 2008*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Feb 2008
without effect on pay and allowances)

Dfr Hawa Singh (No. 1079938H now JC-242891Y),
13 May 2008*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Apr 2008
without effect on pay and allowances)

Dfr Rabinder (No. 1082922H now JC-242894M),
29 Apr 2008*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Apr 2008
without effect on pay and allowances)

Dfr Ranjit Singha (No. 1082236P now JC-242910Y),
12 May 2008*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Apr 2008
without effect on pay and allowances)

Dfr Pardeep Kumar (No. 1083157M now JC-242920H),
19 May 2008*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Apr 2008
without effect on pay and allowances)

Dfr Pradeep Kumar (No. 1083481K now JC-242953N),
12 May 2008*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 01 May 2008
without effect on pay and allowances)

Dfr Babu Singh (No. 1083484X now JC-242954W),
12 May 2008*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 01 May 2008
without effect on pay and allowances)

Dfr Jagtar Singh (No. 1082173X now JC-242969Y),
23 May 2008*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 03 Mar 2008
without effect on pay and allowances)

Dfr Krishnan K (No. 1085708L now JC-242970N), 26
May 2008*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Mar 2008
without effect on pay and allowances)

Dfr Vijaypal Singh (No. 1085495H now JC-242973F),
30 May 2008*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Apr 2008
without effect on pay and allowances)

Dfr Ramvachan Singh (No. 1081580N now JC-242974K),
17 May 2008*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Apr 2008
without effect on pay and allowances)

Dfr Ganganna H (No. 1086472N now JC-242975M),
19 May 2008*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Apr 2008
without effect on pay and allowances)

Dfr Vijai Pal Singh Chauhan (No. 1086730H now JC-
242976P), 29 May 2008*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Apr 2008
without effect on pay and allowances)

Dfr Vishnu Kumar Singh (No. 1082203K now JC-
242977X), 29 May 2008*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Apr 2008
without effect on pay and allowances)

Dfr Jugraj Singh (No. 1084149A now JC-242979H),
16 May 2008*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 01 May 2008
without effect on pay and allowances)

Dfr Sree Kumar PV (No. 1085766P now JC-242980X),
26 May 2008*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 01 May 2008
without effect on pay and allowances)

Dfr Gandhi Gulipalli (No. 15463866K now JC-242981A),
27 May 2008*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 01 May 2008
without effect on pay and allowances)

Dfr Sukhwinder Singh (No. 1084570P now JC-242982H),
27 May 2008*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 01 May 2008
without effect on pay and allowances)

Dfr Megh Singh Rajput (No. 1086889N now JC-
242983L), 21 May 2008*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 01 May 2008
without effect on pay and allowances)

Dfr Harbhajan Singh (No. 1085895P now JC-242984N),
10 Jun 2008*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 01 May 2008
without effect on pay and allowances)

Dfr Harjit Singh (No. 1082011M now JC-242985W),
25 May 2008*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 05 May 2008
without effect on pay and allowances)

Dfr Som Datt Yadav (No. 1082067Y now JC-242986Y),
26 May 2008*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 14 May 2008
without effect on pay and allowances)

Dfr Dalpat Singh (No. 1098668N now JC-242987F), 10
Jun 2008*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 14 May 2008
without effect on pay and allowances)

Dfr Saitan Singh (No. 1087545F now JC-242988K),
01 Jun 2008

Dfr Atiraj Singh (No. 1080239K now JC-242989M), 05
Jun 2008*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Jun 2008
without effect on pay and allowances)

Dfr Laxmi Chand (No. 1082273H now JC-242993P),
02 Jun 2008*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Jun 2008
without effect on pay and allowances)

Dfr Gurmail Singh (No. 1087106W now JC-242997L),
03 Jun 2008*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Jun 2008
without effect on pay and allowances)

Dfr Madan Lal Daka (No. 1080038L now JC-242999W),
07 Jun 2008*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Jun 2008
without effect on pay and allowances)

Dfr Rashid Mohammad (No. 1077183X now JC-
243000X), 07 Jun 2008*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Jun 2008
without effect on pay and allowances)

Dfr Jai Singh Yadav (No. 1082686M now JC-243001A),
06 Jun 2008*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Jun 2008
without effect on pay and allowances)

Dfr Jai Singh (No. 1083103L now JC-243002H),
06 Jun 2008*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Jun 2008
without effect on pay and allowances)

Dfr Hari Prasad Yadav (No. 1078016N now JC-
243004N), 01 Jun 2008

Dfr Karam Vir (No. 1083392L now JC-243006Y),
06 Jun 2008*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Jun 2008
without effect on pay and allowances)

Dfr Shri Bhagwan (No. 1084849N now JC-243008K),
01 Jun 2008

Dfr Jai Bhagwan (No. 1083348F now JC-243009M),
02 Jun 2008*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Jun 2008
without effect on pay and allowances)

Dfr Bhagwan Singh (No. 1087666H now JC-243011K),
02 Jun 2008*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Jun 2008
without effect on pay and allowances)

Dfr Suresh (No. 1088311K now JC-243012M), 02 Jun
2008*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Jun 2008
without effect on pay and allowances)

J. ROY CHOWDHARY
Under Secy.

ARMY BRANCH

No. 120, dated 12th February 2009—The President is
pleased to make the following promotions :—

REGULAR ARMY

INFANTRY

THE DOGRA REGIMENT

To be Sub Maj

Sub Bakshi Ram (JC-519255X), 20 Aug 2008+

+(Granted seniority in the rank of Sub with effect from
01 July 2008 without effect on pay & allowances)

Sub Dinesh Singh (JC-519461F), 02 Sep 2008+

+(Granted seniority in the rank of Sub with effect from
01 Aug 2008 without effect on pay & allowances)

To be Sub

Nb Sub Suresh Kumar (JC-520228A), 08 Aug 2008+

+(Granted seniority in the rank of Sub with effect from
01 Jan 2008 without effect on pay & allowances)

Nb Sub Rakshpal Singh (JC-520212P), 04 May 2008+

+(Granted seniority in the rank of Sub with effect from
01 Feb 2008 without effect on pay & allowances)

Nb Sub Rattan Lal Bansal (JC-520240F), 08 Aug 2008+

+(Granted seniority in the rank of Sub with effect from
01 Feb 2008 without effect on pay & allowances)

Nb Sub Narpal Ram (JC-520320Y), 19 Aug 2008+

+(Granted seniority in the rank of Sub with effect from
29 May 2008 without effect on pay & allowances)

Nb Sub Ramesh Kumar (JC-520148H), 02 Aug 2008+

+(Granted seniority in the rank of Sub with effect from
01 June 2008 without effect on pay & allowances)

Nb Sub Sidharth Kumar (JC-520349F), 04 July 2008+
 +(Granted seniority in the rank of Sub with effect from 01 Jun 2008 without effect on pay & allowances)

Nb Sub Dhruv Singh (JC-520333W), 11 Aug 2008+
 +(Granted seniority in the rank of Sub with effect from 01 Jun 2008 without effect on pay & allowances)

Nb Sub Chaman Lal (JC-520334Y), 25 Aug 2008+
 +(Granted seniority in the rank of Sub with effect from 01 Jun 2008 without effect on pay & allowances)

Nb Sub Khem Chand (JC-520315N), 31 Aug 2008+
 +(Granted seniority in the rank of Sub with effect from 01 Jun 2008 without effect on pay & allowances)

Nb Sub Rakesh Kumar (JC-520356X), 31 Aug 2008+
 +(Granted seniority in the rank of Sub with effect from 01 Jun 2008 without effect on pay & allowances)

Nb Sub Narender Singh (JC-520346N), 22 Sep 2008+
 +(Granted seniority in the rank of Sub with effect from 01 Jun 2008 without effect on pay & allowances)

Nb Sub Pratap Singh (JC-520321F), 04 Aug 2008+
 +(Granted seniority in the rank of Sub with effect from 01 Jun 2008 without effect on pay & allowances)

Nb Sub Ashok Kumar (JC-520359L), 31 Aug 2008+
 +(Granted seniority in the rank of Sub with effect from 01 Jun 2008 without effect on pay & allowances)

Nb Sub Baldev Ram (JC-520366F), 04 Sep 2008+
 +(Granted seniority in the rank of Sub with effect from 01 Jun 2008 without effect on pay & allowances)

Nb Sub Ajit Lal (JC-520371M), 29 Aug 2008+
 +(Granted seniority in the rank of Sub with effect from 01 Jun 2008 without effect on pay & allowances)

Nb Sub Ravinder Prakash (JC-520394N), 16 Aug 2008+
 +(Granted seniority in the rank of Sub with effect from 01 Jun 2008 without effect on pay & allowances)

Nb Sub Mehar Singh (JC-520381W), 04 Sep 2008+
 +(Granted seniority in the rank of Sub with effect from 01 Jun 2008 without effect on pay & allowances)

Nb Sub Romesh Singh (JC-520383F), 10 Aug 2008+
 +(Granted seniority in the rank of Sub with effect from 01 Jun 2008 without effect on pay & allowances)

Nb Sub Balwant Singh (JC-520398K), 03 Aug 2008+
 +(Granted seniority in the rank of Sub with effect from 01 Jun 2008 without effect on pay & allowances)

Nb Sub Raj Kumar (JC-520423X), 16 Aug 2008+
 +(Granted seniority in the rank of Sub with effect from 01 Jun 2008 without effect on pay & allowances)

Nb Sub Surinder Singh (JC-520431W), 10 Aug 2008+
 +(Granted seniority in the rank of Sub with effect from 01 Jun 2008 without effect on pay & allowances)

Nb Sub Pritam Chand (JC-520448K), 22 Aug 2008+
 +(Granted seniority in the rank of Sub with effect from 01 Jun 2008 without effect on pay & allowances)

Nb Sub Basant Singh (JC-520490H), 13 Aug 2008+
 +(Granted seniority in the rank of Sub with effect from 01 Jun 2008 without effect on pay & allowances)

Nb Sub Prem Chand (JC-520444N), 09 Aug 2008+
 +(Granted seniority in the rank of Sub with effect from 27 Jun 2008 without effect on pay & allowances)

Nb Sub Chint Ram (JC-519904X), 02 Sep 2008+
 +(Granted seniority in the rank of Sub with effect from 01 Jul 2008 without effect on pay & allowances)

Nb Sub Hukam Chand (JC-520200A), 20 Sep 2008+
 +(Granted seniority in the rank of Sub with effect from 01 Sep 2008 without effect on pay & allowances)

Nb Sub Nand Lal (JC-520412L), 01 Sep 2008

To be Sub (Clk)

Nb Sub (Clk) Romesh Chander (JC-520220N), 26 Jul 2008+
 +(Granted seniority in the rank of Sub with effect from 01 Jul 2008 without effect on pay & allowances)

THE KUMAON REGIMENT

To be Subedar Major

Sub Chanchal Singh, SC (JC-539054A), 02 Apr 2008/
 01 Apr 2008*
 *(Granted ante date seniority in the rank of Sub Maj wef 01 Apr 2008 without effect pay & allowances)

Sub Raghbir Singh (JC-538859L), 04 Sep 2008/01 Sep 2008*
 *(Granted ante date seniority in the rank of Sub Maj wef 01 Sep 2008 without effect pay & allowances)

Sub Rajendra Singh Adhikari (JC-539233A), 02 Sep 2008/
 01 Sep 2008*
 *(Granted ante date seniority in the rank of Sub Maj wef 01 Sep 2008 without effect pay & allowances)

Sub Devindra Singh (JC-539223W), 03 Oct 2008/01 Oct 2008*
 *(Granted ante date seniority in the rank of Sub Maj wef 01 Oct 2008 without effect pay & allowances)

THE RAJPUT REGIMENT

JCOs to be Subedar Major

Sub Maj Kaptan Singh (JC-478836X), 02 Sep 2008
 Sub Maj Shyam Babu Singh (JC-478961F), 08 Oct 2008

Sub Maj Mohan Pal (JC-478692A), 11 Oct 2008

JCOs to be Subedar Clerks

Sub Clk Baisakhi Lal (JC-479718W), 01 Oct 2008

JCOs to be Subedars

Sub Mohan Kumar Singh (JC-479528K), 01 Dec 2006

Sub Bed Pal (JC-479564P), 01 Aug 2007

Sub Chatra Ram (JC-479433K), 01 Sep 2007

Sub Parvesh Kumar (JC-479614P), 01 Dec 2007

Sub Dila Ram (JC-479684N), 01 Jan 2008

Sub Gokul Ram (JC-479378Y), 01 Feb 2008

Sub Mahesh Pal (JC-479696H), 01 Feb 2008

Sub Mahavir Singh (JC-479711M), 01 Feb 2008

Sub Karan Singh (JC-479734N), 01 Feb 2008

Sub Girdhari Singh (JC-479749W), 01 Feb 2008

Sub Mahender Singh (JC-479573W), 01 Mar 2008

Sub Suraj Mal (JC-479623W), 01 Apr 2008

Sub Narendra Singh (JC-479631P), 01 Apr 2008

Sub Bharat Singh (JC-479656Y), 01 Apr 2008

Sub Tirth Pal Singh (JC-479616A), 01 Jun 2008

Sub Sadhu Ram Verma (JC-479624Y), 01 Jun 2008

Sub Karan Singh (JC-479761X), 01 Jun 2008

Sub Mahender (JC-479762A), 01 Jun 2008

Sub Rasal Singh Kasana (JC-479763H), 01 Jun 2008

Sub Ram Phal Singh (JC-479780H), 01 Jun 2008

Sub Prithvi Singh Rathor (JC-479798Y), 01 June 2008

Sub Maharaj Singh (JC-479805K), 01 Jun 2008

Sub Daya Nidhan Dwivedi (JC-479822K), 01 Jun 2008

Sub Rajendra Singh Bhadoria (JC-479840M), 01 Jun 2008

Sub Balbir Singh (JC-479842X), 01 Jun 2008

Sub Vasu Dev (JC-479864W), 01 Jun 2008

Sub Satya Kumar Nagar (JC-479865Y), 01 Jun 2008

Sub Rajendra Singh (JC-479873X), 01 Jun 2008

Sub Om Prakash (JC-479885M), 01 Jun 2008

Sub Baldev Raj Sharma (JC-479886P), 01 Jun 2008

Sub Dharam Pal Gurjar (JC-479897F), 01 Jun 2008

Sub Om Prakash (JC-479625F), 01 Jul 2008

Sub Ravinder Singh (JC-479632X), 01 Jul 2008

Sub Mahaveer Prasad (JC-479726P), 01 Jul 2008

Sub Birendra Singh Yadav (JC-479736Y), 01 Jul 2008

Sub Harkesh Kumar (JC-479751N), 01 Jul 2008

Sub Daya Ram Yadav (JC-479773M), 01 Jul 2008

Sub Hamid Hassan (JC-479776A), 01 Jul 2008

Sub Bal Singh (JC-479811K), 01 Jul 2008

Sub Mohd Jamal Khan (JC-479813H), 01 Jul 2008

Sub Sarwesh Singh (JC-479837M), 01 Jul 2008

Sub Mahendra Kumar (JC-479856X), 18 Jul 2008

Sub Gordhan Lal (JC-479714A), 01 Aug 2008

Sub Chhabi Nath Singh (JC-479764L), 01 Aug 2008

Sub Hukam Singh (JC-479800L), 01 Aug 2008

Sub Amar Singh (JC-479858H), 01 Aug 2008

Sub Mahesh Singh (JC-479652L), 10 Aug 2008

Sub Brij Pal Singh (JC-479756M), 01 Sep 2008

Sub Shyam Pal Singh (JC-479770Y), 01 Sep 2008

Sub Rajbir (JC-479807P), 01 Sep 2008

Sub Yash Pal Singh (JC-479871M), 01 Sep 2008/01 Jul 2007*

*(Seniority wef 01 July 2007 without pay & allowances)

Sub Bijendra Veer Singh (JC-479904M), 01 Sep 2008

Sub Raja Ram (JC-479906X), 01 Sep 2008

Sub Emral Emran Ahmed Khan (JC-479663X), 01 Oct 2008

Sub Mohd Mahroof, SC (JC-479667N), 01 Oct 2008

THE SIKH REGIMENT

To be Substantive Sub Major

Sub Jaswant Singh (JC-498693K), 01 Oct 2008

Sub Sukhvinder Singh (JC-498699L), 01 Oct 2008

To be Substantive Subedars

Nb Sub Balwinder Singh (JC-499699X), 01 Oct 2008

(Gtd ante date of seniority in the rank of Sub wef 01 Apr 2008 without effect on pay & allowances)

Nb Sub Gurmial Singh (JC-499625H), 22 Sep 2008

(Gtd ante date of seniority in the rank of Sub wef 01 Jun 2008 without effect on pay & allowances)

Nb Sub Subeg Singh (JC-499544H), 08 Sep 2008

(Gtd ante date of seniority in the rank of Sub wef 01 Jul 2008 without effect on pay & allowances)

Nb Sub Sawinder Singh (JC-499662W), 08 Sep 2008

(Gtd ante date of seniority in the rank of Sub wef 01 Jul 2008 without effect on pay & allowances)

Nb Sub Balbir Singh (JC-499725N), 08 Sep 2008

(Gtd ante date of seniority in the rank of Sub wef 01 Jul 2008 without effect on pay & allowances)

Nb Sub Mohabat Singh (JC-499730Y), 03 Oct 2008

(Gtd ante date of seniority in the rank of Sub wef 01 Jul 2008 without effect on pay & allowances)

Nb Sub Buta Singh (JC-499597F), 22 Sep 2008

(Gtd ante date of seniority in the rank of Sub wef 01 Aug 2008 without effect on pay & allowances)

Nb Sub Sanjiv Singh (JC-499577N), 21 Sep 2008

(Gtd ante date of seniority in the rank of Sub wef 22 Aug 2008 without effect on pay & allowances)

Nb Sub Paramjit Singh (JC-499335L), 24 Sep 2008

(Gtd ante date of seniority in the rank of Sub wef 01 Sep 2008 without effect on pay & allowances)

Nb Sub Shamsher Singh (JC-499366L), 22 Sep 2008

(Gtd ante date of seniority in the rank of Sub wef 01 Sep 2008 without effect on pay & allowances)

Nb Sub Samittar Singh (JC-499750M), 03 Oct 2008

(Gtd ante date of seniority in the rank of Sub wef 01 Sep 2008 without effect on pay & allowances)

To be Sub Clk

Nb Sub Clk Akkas Ali Mollick (JC-499506M), 01 Sep 2008

Nb Sub Clk Yadvinder Singh (JC-499539X), 01 Sep 2008

Nb Sub Clk Mohinder Kumar (JC-499529N), 01 Oct 2008

Nb Sub Clk Virendra Prakash Sharma (JC-499561H), 01 Oct 2008

THE JAT REGIMENT

To be Sub

Nb Sub Ram Viresh (JC-489306H), 01 Jan 2007

Nb Sub Niranjan Singh (JC-489345F), 26 Jan 2007*

*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Jan 2007 without effect on pay & allowances)

Nb Sub Nand Ram Yadav (JC-489353A), 01 Jan 2007

Nb Sub Devinder Kumar (JC-489365P), 01 Jan 2007

Nb Sub Banwari Lal Jat (JC-489457F), 01 Jan 2007

Nb Sub Sukha Ram (JC-489439Y), 06 Mar 2007*

*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Jan 2007 without effect on pay & allowances)

Nb Sub Chandvir (JC-489446P), 01 Jan 2007

Nb Sub Mangla Ram (JC-489470L), 01 Jan 2007

Nb Sub Vijay Singh, SM (JC-489505W), 01 Jan 2007

Nb Sub Balsher (JC-489544P), 20 Feb 2007*

*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Jan 2007 without effect on pay & allowances)

Nb Sub Mahipal Singh (JC-489574M), 01 Jan 2007

Nb Sub Ramphal Singh (JC-489557M), 01 Jan 2007

Nb Sub Dharamvir Singh (JC-489629L), 01 Jan 2007

Nb Sub Surender Singh (JC-489630A), 01 Jan 2007

Nb Sub Balbir Singh (JC-489639P), 20 Jan 2007*

*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Jan 2007 without effect on pay & allowances)

Nb Sub Amar Kumar (JC-489657X), 01 Jan 2007

Nb Sub Umed Singh (JC-489458K), 01 Feb 2007

Nb Sub Manga Ram (JC-489461K), 12 Jun 2007*

*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Feb 2007 without effect on pay & allowances)

Nb Sub Purkha Ram (JC-489507F), 01 Feb 2007

Nb Sub Baljit Singh (JC-489582L), 01 Feb 2007

Nb Sub Vijay Singh (JC-489590K), 21 May 2007*

*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Feb 2007 without effect on pay & allowances)

Nb Sub Jarman Lal (JC-489619F), 01 Feb 2007

Nb Sub Jai Singh (JC-489642P), 01 Feb 2007

Nb Sub Sukhbir Singh (JC-489644A), 01 Jun 2007*

*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Feb 2007 without effect on pay & allowances)

Nb Sub Birma Ram (JC-489645H), 01 Jun 2007*

*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Feb 2007 without effect on pay & allowances)

Nb Sub Om Prakash Verma (JC-489646L), 01 Jun 2007*

*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Feb 2007 without effect on pay & allowances)

Nb Sub Gunpal (JC-489659H), 01 Jun 2007*

*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Feb 2007 without effect on pay & allowances)

Nb Sub Duli Chand (JC-489677L), 18 Sep 2007*

*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Feb 2007 without effect on pay & allowances)

Nb Sub Ishwar Singh (JC-489685K), 01 Jun 2007*

*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Feb 2007 without effect on pay & allowances)

Nb Sub Bahadur Singh (JC-489591M), 11 Mar 2007*

*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 03 Feb 2007 without effect on pay & allowances)

Nb Sub Tara Chand Choudhari (JC-489623K), 05 July 2007*

*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 21 Feb 2007 without effect on pay & allowances)

Nb Sub Jhabarmal Pawadia (JC-489372L), 01 Mar 2007

Nb Sub Gurnam Singh (JC-489516H), 20 Apr 2007*

*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Mar 2007 without effect on pay & allowances)

Nb Sub Jagdish Prasad (JC-489545X), 01 Mar 2007

Nb Sub Bhiki Singh (JC-489508K), 01 Mar 2007

Nb Sub Kaptan Singh Hansawat (JC-489595H), 01 Mar 2007

Nb Sub Kavar Sain (JC-489568Y), 09 July 2007*

*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Mar 2007 without effect on pay & allowances)

Nb Sub Veer Singh (JC-489584W), 01 Mar 2007

Nb Sub Rupendra Singh (JC-489585Y), 01 Mar 2007

Nb Sub Wazir Singh (JC-489558P), 01 Mar 2007

Nb Sub Ramdeen Choudhary (JC-489569F), 01 Mar 2007

Nb Sub Narayan Lal Choudhary (JC-489627A), 01 Mar 2007

Nb Sub Zale Singh (JC-489690P), 01 Jun 2007*

*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Mar 2007 without effect on pay & allowances)

Nb Sub Rajendra Kumar Singh (JC-489667F), 01 Jun 2007*

*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Mar 2007 without effect on pay & allowances)

Nb Sub Birbal Singh (JC-489660X), 01 Jun 2007*

*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Mar 2007 without effect on pay & allowances)

Nb Sub Madan Singh (JC-489702Y), 18 Oct 2007*

*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Mar 2007 without effect on pay & allowances)

Nb Sub Uttam Singh (JC-489739A), 01 Jun 2007*

*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Mar 2007 without effect on pay & allowances)

Nb Sub Ram Singh (JC-489597N), 14 May 2007*

*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 11 Mar 2007 without effect on pay & allowances)

To be Sub (Clk)

Nb Sub/Clk Radha Krishnan Nair J (JC-489361Y), 01 Mar 2008

Nb Sub/Clk Mahaveer Prasad Yadav (JC-489362F), 01 Mar 2008

Nb Sub/Clk Randhir Singh (JC-489449H), 01 Apr 2008

THE PUNJAB REGIMENT

To be Sub Maj

Sub Romesh Singh (JC-428902Y), 01 Oct 2008

Sub Sukhdev Chauhan (JC-429191W), 01 Oct 2008

Sub Devinder Kumar Parida (JC-429117P), 01 Nov 2008

To be Sub

Nb Sub Sucha Singh (JC-429986K), 01 Jun 2008

Nb Sub Hans Raj (JC-430074X), 01 Jun 2008

Nb Sub Subhash Chand (JC-430132W), 01 Jun 2008

Nb Sub Mohan Lal (JC-429931A), 24 Jun 2008

Nb Sub Jang Bahadur Singh (JC-429865H), 01 Oct 2008

Nb Sub Narinder Singh (JC-429892M), 01 Oct 2008

Nb Sub Sat Pal (JC-429964L), 01 Oct 2008

Nb Sub Surinder Singh (JC-429991P), 01 Oct 2008

To be Sub Maj

Sub Gopal Singh, SM (JC-429187N), 01 Oct 2008

To be Sub

Nb Sub Jagdish Singh (JC-429824Y), 01 Dec 2007

Nb Sub Charan Singh (JC-430051W), 01 Jun 2008

Nb Sub Nathu Ram (JC-430024M), 01 Aug 2008

Nb Sub Balbir Singh (JC-429895A), 01 Oct 2008

Nb Sub Kanchan Kumar (JC-429977H), 01 Oct 2008

Nb Sub Ten Singh (JC-429990M), 01 Oct 2008

Nb Sub Harmesh Kumar (JC-430069M), 01 Oct 2008

Nb Sub Harbans Singh (JC-429590A), 26 Sep 2008

Nb Sub Sarban Singh (JC-430016N), 01 Oct 2008

Nb Sub Hira Lal (JC-430125A), 01 Oct 2008

To be Sub Maj

Sub Satish Kumar (JC-428977W), 01 Nov 2008

Sub Rup Lal (JC-429298L), 01 Nov 2008

Sub Sakattar Singh (JC-429234A), 01 Nov 2008

To be Sub

Nb Sub Harpinder Singh (JC-429687L), 01 Oct 2008

Nb Sub Shamsher Singh (JC-429773W), 01 Oct 2008

Nb Sub Pargat Singh (JC-429975X), 01 Nov 2008

Nb Sub Kuldeep Chand (JC-430038M), 01 Nov 2008

Nb Sub Jasdev Singh Nagra (JC-430101W), 01 Nov 2008

To be Nb Sub Clk

Hav Clk Tate Bajarang Krishna (No. 2479800X now JC-430414P), 01 Aug 2008

Hav Clk Suresh Chandra Verma (No. 2479816H now JC-430429X), 01 Oct 2008

Hav Clk Ajit Kumar Karmakar (No. 2479823Y now JC-430440W), 01 Oct 2008

Hav Clk Raj Singh (No. 2479883N now JC-430415X), 01 Oct 2008

Hav Clk Balbir Singh (No. 2480615W now JC-430441Y), 01 Nov 2008

To be Nb Sub

Hav Manjit Singh (No. 2480057A now JC-430450A), 20 Oct 2008

(Gtd ante date seniority wef 01 Oct 2008 without effect on pay & allowances)

Hav Sant Ram (No. 2481224X now JC-430451H), 07 Nov 2008

(Gtd ante date seniority wef 01 Oct 2008 without effect on pay & allowances)

Hav Malkit Singh (No. 2479386K now JC-430452L), 01 Nov 2008

(Gtd ante date seniority wef 15 Oct 2008 without effect on pay & allowances)

Hav Malkiat Singh (No. 2480112L now JC-430453N), 01 Nov 2008

Hav Piara Singh (No. 2478510N now JC-430442F), 20 Oct 2008

(Gtd ante date seniority wef 01 Feb 2008 without effect on pay & allowances)

Hav Jaswinder Singh (No. 2479915L now JC-430443K), 29 Oct 2008

(Gtd ante date seniority wef 01 Oct 2008 without effect on pay & allowances)

Hav Sukhwinder Singh (No. 2481343N now JC-430444M), 19 Oct 2008

(Gtd ante date seniority wef 01 Oct 2008 without effect on pay & allowances)

Hav Jaswinder Singh (No. 2479881H now JC-430445P), 29 Oct 2008

(Gtd ante date seniority wef 01 Oct 2008 without effect on pay & allowances)

Hav Lal Man (No. 2481215W now JC-430446X), 11 Oct 2008

(Gtd ante date seniority wef 01 Oct 2008 without effect on pay & allowances)

Hav Krishan Singh (No. 2478745A now JC-430447A), 01 Nov 2008

Hav Sukhdev Singh (No. 2479999K now JC-430448H), 01 Nov 2008

Hav Gulshan Kumar (No. 2478060F now JC-430449L), 01 Nov 2008

To be Sub Maj Clk

Sub Clk Bal Krishan (JC-428957H), 01 Aug 2008

To be Sub Clk

Nb Sub Clk Gurnaib Singh (JC-429925M), 01 Jul 2008

Nb Sub Clk Swarn Singh (JC-429926P), 01 Jul 2008

Nb Sub Clk Ashwani Kumar Sharma (JC-429927X), 01 Aug 2008

Nb Sub Clk Rajbir Singh Duhan (JC-430201F), 01 Oct 2008

Nb Sub Clk Ram Singh (JC-429928A), 01 Oct 2008

THE MARATHA LI

To be Nb Sub

Hav Mahadik Santosh Arjun (No. 2788373M now JC-459909K), 25 Aug 2008*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 04 Feb 2008 without effect on pay & allowances)

Hav Pandhavl Ratan Ambadas (No. 2785392M now JC-459910Y), 10 Sep 2008*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 19 May 2008 without effect on pay & allowances)

Hav Methe Shankar Rangarao (No. 2785321L now JC-459911F), 09 Aug 2008*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 19 May 2008 without effect on pay & allowances)

Hav Ramesha HS (No. 2785028N now JC-459912K), 09 Sep 2008*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 01 Jun 2008 without effect on pay & allowances)

Hav Kudekar Subhash Laxman (No. 2787355X now JC-459913M), 19 Aug 2008*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 29 Jun 2008 without effect on pay & allowances)

Hav Desai Sayajirao Kundlik (No. 2789294K now JC-459914P), 24 Aug 2008*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 01 July 2008 without effect on pay & allowances)

Hav Dalvi Sanjay Narayan (No. 2786084Y now JC-459915X), 12 Sep 2008*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 31 Jul 2008 without effect on pay & allowances)

Hav Bhosale Mahadeo Vishnu (No. 2783532P now JC-459916A), 20 Sep 2008*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 01 Aug 2008 without effect on pay & allowances)

Hav Vitthal Narayan Madne (No. 2781585P now JC-459917H), 04 Oct 2008*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 01 Aug 2008 without effect on pay & allowances)

Hav Thorat Babasaheb Maragu (No. 2786102W now JC-459918L), 29 Aug 2008*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 01 Aug 2008 without effect on pay & allowances)

Hav Athavale Samir Madhukar (No. 2787396F now JC-459919N), 16 Aug 2008*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 01 Aug 2008 without effect on pay & allowances)

Hav Mane Ramdas Mansing (No. 2785400A now JC-459920H), 30 Sep 2008*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 10 Aug 2008 without effect on pay & allowances)

Hav Ghodake Bhausaheb Valuba (No. 2785874F now JC-459921L), 30 Sep 2008*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 10 Aug 2008 without effect on pay & allowances)

Hav Shigvan Anil Tukaram (No. 2786272A now JC-459922N), 30 Sep 2008*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 01 Sep 2008 without effect on pay & allowances)

Hav Patil Nagoji Maruti (No. 2785324Y now JC-459925F), 24 Sep 2008*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 01 Sep 2008 without effect on pay & allowances)

Hav Lohar Vitthal Bapu (No. 2784810K now JC-459926K), 04 Oct 2008*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 01 Sep 2008 without effect on pay & allowances)

Hav Desai Prakash Vasantrao (No. 2785786L now JC-459927M), 01 Sep 2008

Hav Patil Anil Raibhan (No. 2784463W now JC-459928P), 06 Sep 2008*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 01 Sep 2008 without effect on pay & allowances)

To be Nb Sub Clk

Hav Clk Ravindra Singh (No. 2783206M now JC-459923W), 01 Sep 2008

Hav Clk Nirmal Kumar Singh (No. 2789265P now JC-459924Y), 01 Sep 2008

THE KUMAON REGIMENT

To be Nb Sub

Hav Mohan Singh (No. 4180522P now JC-540453W), 07 Aug 2008/02 Aug 2008*

*(Granted ante date seniority in the rank of Nb Sub wef 02 Aug 2008 without effect pay & allowances)

Hav Harish Chandra Singh (No. 4184855Y now JC-540454Y), 14 Aug 2008/01 Aug 2008*

*(Granted ante date seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Aug 2008 without effect pay & allowances)

Hav Girish Chandra (No. 4185031K now JC-540455F), 16 Aug 2008/01 Jul 2008*

*(Granted ante date seniority in the rank of Nb Sub wef 01 July 2008 without effect pay & allowances)

Hav Hariraj Singh (No. 4181200F now JC-540456K), 16 Aug 2008/02 Jul 2008*

*(Granted ante date seniority in the rank of Nb Sub wef 02 Jul 2008 without effect pay & allowances)

Hav Sheotaj Singh (No. 4180291K now JC-540457M), 01 Sep 2008

Hav Surendra Singh (No. 4177954Y now JC-540458P), 01 Sep 2008

Hav Harish Chand Singh (No. 4178882M now JC-540459X), 01 Sep 2008

Hav Kunwar Singh (No. 4179091F now JC-540460M), 01 Sep 2008

Hav Satish Kumar (No. 4181140X now JC-540461P), 01 Sep 2008

Hav Ganesh Datt (No. 4183126K now JC-540462Y), 01 Sep 2008

Hav Lokpal Singh (No. 4181252X now JC-540463A), 02 Sep 2008/01 Sep 2008*

*(Granted ante date seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Sep 2008 without effect pay & allowances)

Hav Bir Singh (No. 4179601X now JC-540464H), 15 Sep 2008/02 Aug 2008*

*(Granted ante date seniority in the rank of Nb Sub wef 02 Aug 2008 without effect pay & allowances)

Hav Pratap Singh (No. 4181502N now JC-540465L), 16 Sep 2008/07 Jul 2008*

*(Granted ante date seniority in the rank of Nb Sub wef 07 Jul 2008 without effect pay & allowances)

Hav Arjun Singh (No. 4180622A now JC-540466N),
18 Sep 2008/01 Sep 2008*

*(Granted ante date seniority in the rank of Nb Sub wef
01 Sep 2008 without effect pay & allowances)

Hav Satya Prakash (No. 4181279P now JC-540467W),
22 Sep 2008/02 Aug 2008*

*(Granted ante date seniority in the rank of Nb Sub wef
02 Aug 2008 without effect pay & allowances)

Hav Hayat Singh (No. 4181305L now JC-540468Y),
25 Sep 2008/02 Aug 2008*

*(Granted ante date seniority in the rank of Nb Sub wef
02 Aug 2008 without effect pay & allowances)

Hav Jagat Singh (No. 4180086H now JC-540469F),
26 Sep 2008/01 Sep 2008*

*(Granted ante date seniority in the rank of Nb Sub wef
01 Sep 2008 without effect pay & allowances)

Hav Narayan Singh Nayal (No. 4183140W now JC-
540470W), 26 Sep 2008/01 Sep 2008*

*(Granted ante date seniority in the rank of Nb Sub wef
01 Sep 2008 without effect pay & allowances)

Hav Babu Lal Yadav (No. 4181780F now JC-540471Y),
29 Sep 2008/01 Aug 2008*

*(Granted ante date seniority in the rank of Nb Sub wef
01 Aug 2008 without effect pay & allowances)

Hav Babu Lal Yadav (No. 4182125P now JC-540472F),
29 Sep 2008/26 Aug 2008*

*(Granted ante date seniority in the rank of Nb Sub wef
26 Aug 2008 without effect pay & allowances)

Hav Jagdish Chandra Singh (No. 4179759A now JC-
540473K), 01 Oct 2008/01 Sep 2008*

*(Granted ante date seniority in the rank of Nb Sub wef
01 Sep 2008 without effect pay & allowances)

Hav Govind Prasad (No. 4181021F now JC-540474M),
10 Oct 2008/01 Sep 2008*

*(Granted ante date seniority in the rank of Nb Sub wef
01 Sep 2008 without effect pay & allowances)

Hav Jagdev Yadav (No. 4180740N now JC-540475P),
11 Oct 2008/26 Aug 2008*

*(Granted ante date seniority in the rank of Nb Sub wef
26 Aug 2008 without effect pay & allowances)

Hav Jeewan Singh (No. 4178285X now JC-540476Y),
16 Oct 2008/01 Oct 2008*

*(Granted ante date seniority in the rank of Nb Sub wef
01 Oct 2008 without effect pay & allowances)

Hav Balwant Singh (No. 4179810P now JC-540477A),
18 Oct 2008/01 Oct 2008*

*(Granted ante date seniority in the rank of Nb Sub wef
01 Oct 2008 without effect pay & allowances)

Hav Pushkar Singh (No. 4179877N now JC-540478H),
18 Oct 2008/01 Oct 2008*

*(Granted ante date seniority in the rank of Nb Sub wef
01 Oct 2008 without effect pay & allowances)

THE NAGA REGIMENT

Hav Nungshitemjen (No. 14702149H now JC-590221N),
24 Aug 2008/01 Aug 2008*

*(Granted ante date seniority in the rank of Nb Sub wef
01 Aug 2008 without effect pay & allowances)

Hav Keshav Datt (No. 14701223M now JC-590222W),
24 Aug 2008/02 Aug 2008*

*(Granted ante date seniority in the rank of Nb Sub wef
02 Aug 2008 without effect pay & allowances)

THE GARHWAL RIFLES

To be Nb Sub

Hav Sultan Singh (No. 4069152L now JC-530562P),
02 Oct 2008/01 Jul 2008*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jul 2008
without effect on pay & allowances)

Hav Tajbar Singh (No. 4071569K now JC-530564A),
22 Aug 2008/01 Aug 2008*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Aug 2008
without effect on pay & allowances)

Hav Vikram Singh (No. 4067978A now JC-530565H),
27 Sep 2008/08 Aug 2008*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 08 Aug 2008
without effect on pay & allowances)

Hav Theper Singh (No. 4068878F now JC-530566L),
03 Sep 2008/22 Aug 2008*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 22 Aug 2008
without effect on pay & allowances)

Hav Ramesh Chandra Nautiyal (No. 4069659M now JC-
530567N), 24 Aug 2008

Hav Dharmendra Singh (No. 4070804L now JC-530569Y),
01 Sep 2008

Hav Attar Singh (No. 4067144N now JC-530570N),
15 Sep 2008/01 Sep 2008*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Sep 2008
without effect on pay & allowances)

Hav Dharma Nand (No. 4067329P now JC-530571W),
01 Sep 2008

Hav Nandan Singh Negi (No. 4068772P now JC-
530572Y), 26 Sep 2008/01 Sep 2008*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Sep 2008
without effect on pay & allowances)

Hav Jagdish Prasad (No. 4071274N now JC-530573F),
24 Sep 2008/01 Sep 2008*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Sep 2008
without effect on pay & allowances)

Hav Uttam Singh (No. 4070508A now JC-530574K),
02 Sep 2008/01 Sep 2008*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Sep 2008
without effect on pay & allowances)

Hav Narendra Singh (No. 4070791Y now JC-530575M),
18 Sep 2008/01 Sep 2008*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Sep 2008
without effect on pay & allowances)

Hav Vikram Singh (No. 4069534P now JC-530576P),
08 Sep 2008/01 Sep 2008*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Sep 2008
without effect on pay & allowances)

Hav Ram Singh (No. 4068495P now JC-530577X),
05 Sep 2008/01 Sep 2008*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Sep 2008
without effect on pay & allowances)

Hav Roshan Lal (No. 4068541Y now JC-530578A),
06 Sep 2008

Hav Viveka Nand (No. 4069354M now JC-530579H),
03 Oct 2008/14 Sep 2008*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 14 Sep 2008
without effect on pay & allowances)

To be Nb Sub (Clk)

Hav (Clk) Rajender Singh Negi (No. 4068119F now JC-
530563X), 19 Aug 2008/01 Aug 2008*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Aug 2008
without effect on pay & allowances)

Hav (Clk) Radha Prasad Bhatt (No. 4068305X now JC-
530568W), 01 Sep 2008

THE RAJPUTANA RIFLES

To be Nb Sub

Hav Bahadur Singh (No. 2883087W now JC-470322L),
01 Jul 2008

Hav Anil Kumar (No. 2879924A now JC-470323N),
01 Jul 2008

Hav Surendra Singh (No. 2882263W now JC-470324W),
03 Oct 2008/01 Jul 2008(S)*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jul 2008
without effect on pay & allowances)

Hav Moradhvaj Singh (No. 2884469M now JC-470325Y),
04 Jul 2008/01 Jul 2008(S)*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jul 2008
without effect on pay & allowances)

Hav Abhai Singh (No. 2883120H now JC-470326F),
07 Jul 2008/01 Jul 2008(S)*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jul 2008
without effect on pay & allowances)

Hav Shivpal Singh Shekhawat (No. 2884881A now JC-
470327K), 01 Jul 2008

Hav Dharambir Singh (No. 2880694K now JC-470328M),
01 Sep 2008/01 Jul 2008(S)*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jul 2008
without effect on pay & allowances)

Hav Shripal (No. 2882418A now JC-470329P), 18 Jul
2008/01 Jul 2008*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jul 2008
without effect on pay & allowances)

Hav Ranjeet Singh Kaler (No. 2887135H now JC-
470330K), 07 Jul 2008/01 Jul 2008*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jul 2008
without effect on pay & allowances)

Hav Azad Singh (No. 2883418M now JC-470331M),
17 Oct 2008/01 Jul 2008*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jul 2008
without effect on pay & allowances)

Hav Ram Gopal Singh (No. 2883051X now JC-470332P),
01 Jul 2008

Hav Suresh Kumar (No. 2885089A now JC-470333X),
16 Aug 2008/01 Jul 2008*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jul 2008
without effect on pay & allowances)

Hav Mahipal Singh (No. 2885535W now JC-470334A),
07 Jul 2008/01 Jul 2008*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jul 2008
without effect on pay & allowances)

Hav Kamal Singh (No. 2884146K now JC-47033511),
11 Jul 2008/01 Jul 2008*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jul 2008
without effect on pay & allowances)

Hav Shiv Raj Singh Shekhawat (No. 2884234A now JC-
470336L), 11 Jul 2008/01 Jul 2008*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jul 2008
without effect on pay & allowances)

Hav Muralidhar Singh (No. 2882450P now JC-470337N),
24 Jul 2008/01 Jul 2008*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jul 2008
without effect on pay & allowances)

Hav Pratap Singh (No. 2884118X now JC-470338W),
01 Jul 2008

Hav Rajpal (No. 2884361P now JC-470339Y), 01 Jul 2008

Hav Krishan Kumar (No. 3990479X now JC-470340N),
10 Jul 2008/01 Jul 2008*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jul 2008
without effect on pay & allowances)

Hav Kali Charan (No. 2883625Y now JC-470341W),
10 Jul 2008/01 Jul 2008*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jul 2008
without effect on pay & allowances)

Hav Dhara Singh (No. 2885612A now JC-470342Y),
10 Jul 2008/01 Jul 2008*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jul 2008
without effect on pay & allowances)

Hav Dharma Ram Khoja (No. 2883605L now JC-
470343F), 12 Sep 2008/11 Jul 2008*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 11 Jul 2008
without effect on pay & allowances)

Hav Shyam Singh (No. 2880200P now JC-470344K),
24 Jul 2008/20 Jul 2008*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 20 Jul 2008
without effect on pay & allowances)

Hav Hafiz Ali Khan (No. 2884339K now JC-470345M),
11 Aug 2008/30 Jul 2008*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 30 Jul 2008
without effect on pay & allowances)

Hav Fateh Singh (No. 2887981W now JC-470346P),
01 Oct 2008/01 Aug 2007*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Aug 2007
without effect on pay & allowances)

Hav Inder Pal (No. 16015729W now JC-470347X), 24 Oct
2008/19 Oct 2007*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 19 Oct 2007
without effect on pay & allowances)

Hav/Clk Shiv Raj Singh (No. 2882740M now JC-
470348A), 01 Aug 2008

Hav/Clk Leela Ram Gurjar (No. 3178030F now JC-
470349H), 01 Aug 2008

Hav/Clk Darshan Pal Singh (No. 2881536F now JC-
470350X), 01 Aug 2008

Hav/Clk Attar Singh Poonia (No. 2881744W now JC-
470351A), 01 Aug 2008

Hav/Clk Devendra Singh (No. 2881762Y now JC-
470352H), 01 Aug 2008

Hav/Clk Kush Pal Singh (No. 2882755P now JC-
470353L), 01 Aug 2008

Hav/Clk Bharat Singh (No. 2882117W now JC-
470354N), 01 Aug 2008

Hav/Clk Shiv Singh (No. 2882150N now JC- 470355W),
01 Aug 2008

Hav Rohitaswa Kumar (No. 2883078P now JC-470356Y),
03 Oct 2008/01 Aug 2008*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Aug 2008
without effect on pay & allowances)

Hav Udai Singh (No. 2882312N now JC-470357F),
01 Aug 2008

Hav Rajender Singh (No. 2882925N now JC-470358K),
06 Nov 2008/01 Aug 2008*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Aug 2008
without effect on pay & allowances)

Hav Riaz Khan (No. 2880757F now JC-470359M),
03 Sep 2008/03 Aug 2008*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 03 Aug 2008
without effect on pay & allowances)

Hav Bheem Singh (No. 2883607W now JC-470360F),
08 Sep 2008/04 Aug 2008*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 04 Aug 2008
without effect on pay & allowances)

Hav Kaptan Singh (No. 2881355W now JC-470361K),
27 Aug 2008/10 Aug 2008*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 10 Aug 2008
without effect on pay & allowances)

Hav Dilbag Singh (No. 2887745P now JC-470362M),
03 Nov 2008/28 Aug 2008*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 28 Aug 2008
without effect on pay & allowances)

THE SIKH REGIMENT

To be Nb Sub

Hav Sukhwinder Singh (No. 3390295F now JC-
500057X), 06 Oct 2008

(Granted ante date of seniority in the rank of Nb Sub wef
01 Mar 2008 without effect on pay & allowances)

Hav Tariok Singh (No. 3390563A now JC-500058A),
30 Sep 2008

(Granted ante date of seniority in the rank of Nb Sub wef
08 Apr 2008 without effect on pay & allowances)

Hav Kulwinder Singh (No. 3390588M now JC-500059H),
30 Sep 2008

(Granted ante date of seniority in the rank of Nb Sub wef
01 May 2008 without effect on pay & allowances)

Hav Satnam Singh (No. 3390593X now JC-500060X),
30 Sep 2008

(Granted ante date of seniority in the rank of Nb Sub wef
01 Jun 2008 without effect on pay & allowances)

Hav Bachan Singh (No. 3387170Y now JC-500061A),
16 Aug 2008

(Granted ante date of seniority in the rank of Nb Sub wef
01 Jun 2008 without effect on pay & allowances)

Hav Kewal Singh (No. 3387855X now JC-500062H),
08 Sep 2008

(Granted ante date of seniority in the rank of Nb Sub wef
01 Jul 2008 without effect on pay & allowances)

Hav Resham Singh (No. 3387182N now JC-500063L),
23 Aug 2008

(Granted ante date of seniority in the rank of Nb Sub wef
01 Jul 2008 without effect on pay & allowances)

Hav Dalbir Singh (No. 3385888K now JC-500064N),
08 Sep 2008

(Granted ante date of seniority in the rank of Nb Sub wef
01 Jul 2008 without effect on pay & allowances)

Hav Kuldip Singh (No. 3389951L now JC-500065W),
01 Sep 2008

(Granted ante date of seniority in the rank of Nb Sub wef
01 Jul 2008 without effect on pay & allowances)

Hav Santokh Singh (No. 3390496A now JC-500066Y),
18 Sep 2008

(Granted ante date of seniority in the rank of Nb Sub wef
25 Jul 2008 without effect on pay & allowances)

Hav Baldev Singh (No. 3389687H now JC-500067F),
01 Oct 2008

(Granted ante date of seniority in the rank of Nb Sub wef
01 Sep 2008 without effect on pay & allowances)

Hav Harjinder Singh (No. 3388327A now JC-500068K),
20 Sep 2008

(Granted ante date of seniority in the rank of Nb Sub wef
01 Sep 2008 without effect on pay & allowances)

Hav Bhupinder Singh (No. 3389501N now JC-500069M),
09 Oct 2008

(Granted ante date of seniority in the rank of Nb Sub wef
01 Oct 2008 without effect on pay & allowances)

Hav Ramphal Singh (No. 3390502H now JC-500070F),
01 Oct 2008

Hav Lakhwinder Singh (No. 3389065F now JC-
500071K), 04 Oct 2008

(Granted ante date of seniority in the rank of Nb Sub wef
01 Oct 2008 without effect on pay & allowances)

Hav Rachhpal Singh (No. 3389612L now JC-500072M),
04 Oct 2008

(Granted ante date of seniority in the rank of Nb Sub wef
01 Oct 2008 without effect on pay & allowances)

Hav Kulbir Singh (No. 3389648K now JC-500073P),
04 Oct 2008

(Granted ante date of seniority in the rank of Nb Sub wef
01 Oct 2008 without effect on pay & allowances)

To be Nb Sub Clk

Hav Clk Shinde Dnyaneshwar Bramhadeo (No. 3390363K
now JC-500074X), 01 Oct 2008

Hav Clk Bijay Kumar Pradhan (No. 3390399H now JC-
500075A), 02 Oct 2008

(Granted ante date of seniority in the rank of Nb Sub wef
01 Oct 2008 without effect on pay & allowances)

Hav Clk V Shiva Shankar (No. 3390129N now JC-
500076H), 01 Oct 2008

8 GR

To be Nb Sub (GD)

Hav Pitam Thapa (No. 5751926H now JC-623821Y),
31 Jan 2008*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 21 Oct
2007 without effect on pay & allowances)

Hav Nanda Bahadur Pun (No. 5751988H now JC-
623841M), 26 May 2008*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 May
2008 without effect on pay & allowances)

Hav Nar Bahadur Thapa (No. 5752200M now JC-
623842P), 18 Jun 2008*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 03 May
2008 without effect on pay & allowances)

Hav Durga Bahadur Pradhan (No. 5752142N now JC-
623843X), 22 Jun 2008*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 20 May
2008 without effect on pay & allowances)

Hav Tara Prasad Shrestha (No. 5752219L now JC-
623844A), 01 Jun 2008

Hav Kiran Kumar Gurung (No. 5751733H now JC-
623852Y), 01 Jun 2008*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Apr
2008 without effect on pay & allowances)

Hav Narendra Bahadur Thapa (No. 5752109W now JC-
623853F), 09 Jul 2008*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 08 Apr
2008 without effect on pay & allowances)

Hav Purna Bahadur Gurung (No. 5752225Y now JC-
623854K), 26 Jul 2008*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jun
2008 without effect on pay & allowances)

Hav Dhan Bahadur Thapa (No. 5752124L now JC-
623855M), 18 Jul 2008*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jul
2008 without effect on pay & allowances)

Hav Ashish Kumar Chhetri (No. 5751420K now JC-
623856P), 01 Jul 2008

Hav Bakhat Bahadur Rakhal (No. 5752034K now JC-623836F), 18 Jun 2008*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Aug 2007 without effect on pay & allowances)

Hav Mim Prasad Gurung (No. 5752077Y now JC-623837K), 18 Jun 2008*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Dec 2007 without effect on pay & allowances)

Hav Ram Bahadur Tamang (No. 5752028W now JC-623838M), 18 Jun 2008*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 08 Apr 2008 without effect on pay & allowances)

Hav Durga Bahadur Gurung (No. 5752237N now JC-623839P), 18 Jun 2008*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 08 Apr 2008 without effect on pay & allowances)

Hav Rajesh Thapa (No. 5752087H now JC-623840K), 18 Jun 2008

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 08 Apr 2008 without effect on pay & allowances)

THE BIHAR REGIMENT

To be Nb Sub (GD/Clk)

Hav Pramod Pathak (No. 4265827M now JC-560079A), 03 Oct 2008/01 May 2008 (Seniority)*

*(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 01 May 2008 without effect on pay & allowances)

Hav Basanta Kumar Patra (No. 4268200X now JC-560080P), 16 Oct 2008/23 Jun 2008 (Seniority)*

*(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 23 Jun 2008 without effect on pay & allowances)

Hav Sunil Kumar Singh (No. 4267543F now JC-560081X), 23 Oct 2008/01 Jul 2008 (Seniority)*

*(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 01 Jul 2008 without effect on pay & allowances)

CHM Satender Pandey (No. 4262759Y now JC-560082A), 20 Oct 2008/26 Jul 2008 (Seniority)*

*(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 26 Jul 2008 without effect on pay & allowances)

CHM Basil Lakra (No. 4265104X now JC-560083H), 13 Oct 2008/01 Sep 2008 (Seniority)*

*(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 01 Sep 2008 without effect on pay & allowances)

Hav Vinod Kumar Ram (No. 4265681K now JC-560084L), 15 Oct 2008/01 Sep 2008 (Seniority)*

*(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 01 Sep 2008 without effect on pay & allowances)

Hav Matlu Tirkey (No. 4267365K now JC-560085N), 13 Oct 2008/01 Sep 2008 (Seniority)*

*(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 01 Sep 2008 without effect on pay & allowances)

CHM Markus Beck (No. 4266070F now JC-560086W), 22 Oct 2008/01 Oct 2008 (Seniority)*

*(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 01 Oct 2008 without effect on pay & allowances)

Hav Somnath Mohanty (No. 4268881L now JC-560087Y), 06 Oct 2008/01 Oct 2008 (Seniority)*

*(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 01 Oct 2008 without effect on pay & allowances)

CHM Sukh Deo Prasad (No. 8031119H now JC-560088F), 27 Oct 2008/01 Oct 2008 (Seniority)*

*(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 01 Oct 2008 without effect on pay & allowances)

S ASHARAF
Under Secy.

No. 121, dated 12th February 2009.—The President is pleased to retire Shri YD Mehta, Deputy Secretary, Ministry of Defence from Government Service with effect from 31.01.2009 (AN) on attaining the age of superannuation.

K MURALI
Under Secy.

ARMY BRANCH

No. 122, dated 12th February 2009.—The President is pleased to permit the undermentioned officers to retire from the Army Service wef dates noted against them, earlier than their normal age of retirement at their own request for their personal reasons :—

REGULAR ARMY

PERMANENT COMMISSION

IC No., Rank, Name, Arms/Ser & EDR Date

(IC-31056) Col AK Chaudhary, Army AVN, 30 Apr 2007 (AN)

(IC-38905) Col SK Gupta, Arty, 09 Jul 2008 (AN)

(IC-38329) Col SC Chamoli, Arty, 12 Jul 2008 (AN)

(IC-39289) Col S Banerjee, Arty, 18 Jul 2008 (FN)

(IC-40684) Col Sanjeev Sehgal, Engrs, 22 Apr 2008 (AN)

(IC-34830) Col Ajith Thomas, AOC, 18 Dec 2007 (AN)

(IC-41851) Lt Col Jagdev Singh, AOC, 01 Jul 2008 (AN)

(IC-43378) Lt Col Bipin Kumar Trivedi, Sigs, 13 May 2008 (AN)

(IC-30743) Col RK Singh, Sigs, 30 Jun 2007 (AN)

(IC-44927) Lt Col MP Sen, Sigs, 10 Oct 2007 (AN)

(IC-40333) Col Mickie Uberoi, Engrs, 19 Aug 2007 (FN)

(IC-41850) Lt Col Sunil Prem, Engrs, 30 Sep 2007 (AN)

(IC-34381) Col KSS Dadwal, AOC, 30 Sep 2007 (AN)

(IC-38507) Col (TS) KL Shantaram, AOC, 30 Mar 2007 (AN)

(IC-41260) Lt Col AV Talpallikar, Sigs, 30 Apr 2008 (AN)

(IC-44043) Lt Col SM Bharadwaj, Engrs, 22 Jun 2008 (AN)

(IC-44662) Lt Col Pankaj Kumar, Inf, 08 Jul 2008 (AN)

(IC-39490) Col VS Shekhawat, Inf, 01 Jul 2008 (AN)

(IC-42970) Lt Col NKS Shekhawat, Inf, 31 Oct 2007 (AN)

(IC-40416) Col Dhirendra Singh, Inf, 31 Jan 2008 (AN)

(IC-42791) Lt Col Ashwini Chema, Inf, 31 Jan 2008 (AN)

(IC-43391) Col Sandeep Kumar Datta, Inf, 12 Mar 2008 (AN)

(IC-39642) Col Nair Mohan KG Nair, Inf, 01 May 2008

(IC-39150) Col (TS) Mukesh Trehan, Sigs, 15 Apr 2007 (AN)

S K CHAKRABORTY

Jt. Dir.
MS/PR

ARMY BRANCH

No. 123, dated 12th February 2009.—The President is pleased to permit the following officers to retire with permission to retain his rank and wearing of uniform :—

TERRITORIAL ARMY

RETIREMENT

Lt Col Sham Lal Singla TA(M)-1158, AMC(TA), 28 May 2008 (FN)

Capt SP Jakhwal TA(NT)-1173, AMC(TA), 28 May 2008

JAI RAJ
Under Secy.

ARMY BRANCH

CORRIGENDUM

No. 124, dated 13th February 2009.—In the Government of India, Ministry of Defence published in the Gazette of India, New Delhi, dated 27 Jan 2007 under heading Regular Army, Permanent Commission, to be substantive Lt General, Army Branch is hereby amended as under :—

For :

Sl. No., IC No., Rank, Name, Arm and Date of subs rank
3, IC-28805, Maj Gen, KS Dogra, AVSM**, VSM, AAD, 01 Feb 2006 with seniority from 01 Jan 2006 without effect on pay and pension

Read :

Sl. No., IC No., Rank, Name, Arm and Date of subs rank
3, IC-28805, Maj Gen, KS Dogra, AVSM**, VSM, AAD, 01 Jan 2006

The Government of India, Ministry of Defence published in the Gazette of India, New Delhi, dated 23 Dec 2006 under heading Regular Army, Permanent Commission, to be substantive Lt General, Army Branch is hereby amended as under :—

For :

Sl. No., IC No., Rank, Name, Arm and Date of subs rank
5, IC-23295, Maj Gen, JS Lidder, UYSM, AVSM, Gren, 03 Jan 2006

Read :

Sl. No., IC No., Rank, Name, Arm and Date of subs rank
5, IC-23295, Maj Gen, JS Lidder, UYSM, AVSM, Gren, 01 Feb 2006 with seniority from 03 Jan 2006 without effect on pay and pension

N K PHUKAN
Dir/MS(X)